



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 18, 2005/फाल्गुन 27, 1926

No. 268]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 18, 2005/PHALGUNA 27, 1926

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2005

का.आ. 338(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1054 (अ) तारीख 28 सितम्बर 2004 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2 खण्ड 3 उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, के द्वारा राजस्थान राज्य के बारां जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के कि.मी. 438.000 से कि. मी. 579.000 तक के भूखण्ड का निर्माण (चार लेन का बनाने) करने के लोक प्रयोजन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी:

और, उक्त अधिसूचना का सार तारीख 16 अक्तूबर 2004 के “राजस्थान पत्रिका” और “दैनिक भास्कर” दोनों में प्रकाशित किया गया था

और उक्त भूमि से हितबद्ध व्यक्तियों से आक्षेप प्राप्त हुए थे जिन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा के अधीन अननुज्ञात कर दिया गया था:

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा 1 के अनुशरण में केंद्र सरकार को अपने रिपोर्ट दे दी है:

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना है:

और आगे, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा 2 के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लगनों से मुक्त आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होगी।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-76 के 438/000 कि० मी० से 579/000 कि० मी० तक भूखण्ड में आने वाली भूमि का संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण

जिला - बारा

क्र. सं.	तहसील का नाम	गांव का नाम	खसरा न.	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि की किस्म	भू-स्वामी का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	अंता	(1) बड़वा	651	0.0725	माल 1	कन्हैयालाल भैरूलाल पिता दूला जाति ब्राह्मण निवासी बटावदी
			652	0.0816	माल 1	कन्हैयालाल भैरूलाल पिता दूला जाति ब्राह्मण निवासी बटावदी
			660	0.0375	माल 2	भंवरलाल मीणा निवासी बटावदी
			661	0.0368	माल 2	भैरु पिता अमरा जाति तेली
			662	0.0416	माल 2	नारायण पिता कालूराम जाति जाट
			671	0.016	माल 2	केदार पिता घासी 1/2 कालूलाल पिता राधा रूकमा कमला पुत्री लाला मीणा 1/2 निवासी बूंदी
			672	0.012	माल 2	रघुनाथ चौधमल पिता कल्याण कन्याबाई पुत्रियां लाला मीणा 1/2 निवासी बूंदी
			676	0.026	माल 2	रघुनाथ चौधमल पिता कल्याण कन्या बाई पुत्रीया लाला मीणा 1/2 निवासी बूंदी
			673	0.48	गैर मु. सड़क	सा. नि. वि.
			675	0.24	गैर मु. सड़क	सा. नि. वि.
			668	0.0064	रास्ता	सिवाय चक
		(2) पलायथा	924	0.72	टीर	गोपाल रामप्रसाद बनवारी पिता नन्दा बेवा नन्दा प्रभुलाल पिता मेडिया माली पलायथा
			926	0.039	टीर	मथुरा लाल पिता कंवारा माली निवासी पलायथा
			927	0.0365	टीर	मथुरा लाल पिता कंवारा माली निवासी पलायथा
			928	0.16	टीर	मथुरा लाल पिता कंवारा माली निवासी पलायथा
			929	0.192	टीर	जगन्नाथ चम्पालाल बालकिशन जगदीश पिता चेन्दा चोदी बाई पुत्री चेन्दा माली निवासी पलायथा
			930	0.042	टीर	सिवाय चक
			939	0.2176	नाला	सिवाय चक
			940	0.0325	टीर	सुखदेव पिता गणेश कहार निवासी पलायथा
			941	0.0405	टीर	सुखदेव पिता गणेश कहार निवासी पलायथा
			942	0.0625	टीर	सीता बेवा धन्ना ओंकार पिता गेंदा जाति कुम्हार निवासी पलायथा

1	2	3	4	5	6	7
			942/1880	0.0036	टीर	कृष्ण कुमार केदार लाल मुखमिरी मोहनलाल कृष्णाअवतार पिता कांति बाई रतन बाई मायाजी बाई सावित्री बाई पुत्री अयोध्या बाई बेवा चतुर्भुज 1/2 जाति महाजन निवासी पलायथा
			947	0.058	टीर	मोहन सिंह पिता सिंह राजपुत निवासी पलायथा
			948	0.0685		कल्याण ग्यारसा कान्हा गिरधारी पिता मंगला माली निवासी पलायथा
			949/1997	0.0288	टीर	कान्हा पिता मंगला माली निवासी पलायथा
			950	0.032		सिवाय चक
			1015	0.0325	टीर	रामकरण पंचुलाल निवासी धन्नालाल गोपली बेवा पंचीबाई पुत्री धन्नालाल माली निवासी पलायथा
			1016	0.034	टीर	देवीशंकर पिता प्रभुलाल बाबर निवासी पलायथा
			1019	0.021	चाइ 1	मंदिर
			1020	0.063	गैर मु. खड़ी	सिवाय चक
			1021	0.0465	बारानी 1	मंदिर
			1022	0.027	बारानी 1	मोत्या पिता मोरिया 1/6 जगन्नाथ चम्पालाल बालकिशन जगदीश पिता चोदी बाई पुत्री चेंदा 1/6 रामप्रसाद पिता रामनारायण बादाम बाई पिस्ता बाई पुत्री गोरी बाई बेवा रामनारायण 1/6 पंचया पिता गोपाल 1/6 केसर कस्तुरी पुत्री ग्यारसा 1/6 माली निवासी पलायथा
			1023	0.0225	बारानी 1	मोत्या पिता मोरिया 1/6 जगन्नाथ चम्पालाल बालकिशन जगदीश पिता चोदी बाई पुत्री चेंदा 1/6 रामप्रसाद पिता रामनारायण बादाम बाई पिस्ता बाई पुत्री गोरी बाई बेवा रामनारायण 1/6 पंचया पिता गोपाल 1/6 केसर कस्तुरी पुत्री ग्यारसा 1/6 माली निवासी पलायथा
			665	-0.16	चाइ 1	मोत्या पिता मोरिया 1/6 जगन्नाथ चम्पालाल बालकिशन जगदीश पिता चोदी बाई पुत्री चेंदा 1/6 रामप्रसाद पिता रामनारायण बादाम बाई पिस्ता बाई पुत्री गोरी बाई बेवा रामनारायण 1/6 पंचया पिता गोपाल 1/6 केसर कस्तुरी पुत्री ग्यारसा 1/6 माली निवासी पलायथा

1	2	3	4	5	6	7
			663	0.096	चाई 1	भंवरीया रामकरण पिता गणपत 2/3 नारायण गोपाल बनवारी पिता नर्मदा बाई कुंजी बाई द्रोपदी बाई नारायण पुत्री नाथी बाई बेवा नन्दा 7/24 पृथ्वीराज धिर्यू नाबा पुत्री कांति बाई बेवा राम प्रकाश 1/24 माली निवासी पलायथा
			668/2032	0.0465	बारानी 1	पृथ्वीराज विष्णु पिता रामप्रसाद ममता बाई अनुराधा अनीता पुत्री रामप्रसाद कांति बाई बेवा रामप्रसाद पंचो नाबा, माता कांति बाई माली निवासी पलायथा
			669	0.088	जाव 1	भंवरलाल पिता काजोड़ माली निवासी पलायथा
			671	0.068	गैर मु. मंदिर	सिवाय चक
			672	0.012	रास्ता	सिवाय चक
			699	0.0005	बंजर	सिवाय चक
			1475	0.017	बारानी 2	बालचंद, बजरंगलाल पिता काजोड़ माली निवासी पलायथा
			1481	0.0196	गैर मु. डोल	सिवाय चक
			1483	0.044	चाई 1	प्रभुलाल निवासी काडिया माली निवासी पलायथा
			1487	0.0184	बंजर	सिवाय चक
			1488	0.0576	नाहरी 2	सुभान साह पिता रहमान साह फकीर साह फकीर
			1489	0.016	नाहरी 2	सुभान साह पिता रहमान साह फकीर साह फकीर
			1490	0.0097	नाहरी 2	पीर ताथर खां सईद जी
			1491	0.0614	नाहरी 2	पीर ताथर खां सईद जी
			1492	0.001	नाहरी 2	पीर ताथर खां सईद जी
			1493	0.019	नाहरी 2	सिवाय चक
			900	0.0051	नाहरी 2	सहदेव सिंह पिता राजेन्द्र देव सिंह राजपुत निवासी पलायथा
			901	0.0001	गैर मु. आबादी	सिवाय चक
			902	0.0028	नाहरी 1	सहदेव सिंह पिता राजेन्द्र देव सिंह राजपुत निवासी पलायथा
			903	0.0297	नाहरी 1	सहदेव सिंह पिता राजेन्द्र देव सिंह राजपुत निवासी पलायथा
			904	0.0041	नाहरी 1	सहदेव सिंह पिता राजेन्द्र देव सिंह राजपुत निवासी पलायथा
			922	0.0768	गैर मु. नहर	सिचाई विभाग
			1535	0.0096	नाहरी 1	गोबरीलाल मांगीलाल लटुरलाल पुष्पा पार्वती पुत्री गणेश चमार निवासी पलायथा
			1534	0.0307	नाहरी 1	गोबरीलाल मांगीलाल लटुरलाल पुष्पा पार्वती पुत्री गणेश चमार निवासी पलायथा

1	2	3	4	5	6	7
			1533	0.0077	नाहरी 1	गोबरीलाल मांगीलाल लदुरलाल पुष्पा पार्वती पुत्री गणेश चमार निवासी पलायथा
			1532	0.0276	नाहरी 1	गंसी पिता बल्लभ नाई निवासी पलायथा
			1530	0.081	नाहरी 1	सियोजी पिता गोपाल 1/2 चितरलाल पिता नारायण नैनाबाई बेवा नारायण 1/2 गुर्जर निवासी पलायथा
			1529	0.0192	नाहरी 1	सियोजी पिता गोपाल 1/2 चितरलाल पिता नारायण नैनाबाई बेवा नारायण 1/2 गुर्जर निवासी पलायथा
			1529/2039	0.0166	नाहरी 1	देवीलाल पिता धुलीलाल माली निवासी पलायथा
			1526	0.0102	नाहरी 1	लदुरलाल पिता रामनाथ 1/2 रामा पिता देवा 1/2 माली निवासी पलायथा
			1525	0.0128	नाहरी 1	राजेन्द्र सिंह निवासी अजित सिंह राजपुत निवासी पलायथा
			1524	0.0166	नाहरी 1	राजेन्द्र सिंह निवासी अजित सिंह राजपुत निवासी पलायथा
			1523	0.0276	नाहरी 1	राजेन्द्र सिंह निवासी अजित सिंह राजपुत निवासी पलायथा
			1520	0.0256	नाहरी 1	मांगीलाल, नाथुललाल पिता बंसीलाल मिश्रीलाल पिता रामालीराम श्रवण पिता
			1521	0.0159	नाहरी 1	मांगीलाल, नाथुललाल पिता बंसीलाल मिश्रीलाल पिता रामालीराम श्रवण पिता जामनारायण बामन निवासी पुष्कर अजमेर उ. प्र. किसान चतुर्भुज ब्राह्मण
			1518	0.0023	नाहरी 1	मोहनलाल पिता जगनलाल जाति घोबी निवासी पलायथा
			1519	0.0056	नाहरी 1	मोहनलाल पिता जगनलाल जाति घोबी निवासी पलायथा
			1516	0.0154	नाहरी 1	नरेन्द्र कुमार मुकेश कुमार पिता गोपीचंद भंवरी बाई गिराज बाई संतोष बाई बाबली ग्यारसी सरीता पुत्री प्रेम बाई बेवा भैरूलाल धाकड़ निवासी पलायथा
			1509	0.096	नाहरी 1	भैरूलाल पिता नन्दा 1/2 रामकरण पिता उदा 1/2 जाति घोबी मुन्ना बाई मुबारक बाई पुत्री नर मोहम्मद मुस्लिम 1/2 निवासी पलायथा
			1507	0.0015	नाहरी 1	मुकुटबाई कुंजबिहारी श्यामबिहारी चन्द्रप्रकाश पिता स्वतंत्र बाई साबित्री बाई पुत्री शांति बाई बेवा श्रीनाथ जाति ब्राह्मण निवासी पलायथा
			1287	0.0384	नाहरी 1	जमनालाल रामनारायण मथुरालाल घोबी निवासी पलायथा
			1307	0.0092	नाहरी 2	भैरूलाल पिता नन्दा 1/2 रामकरण पिता उदा 1/2 जाति घोबी मुन्ना बाई मुबारक बाई पुत्री नरमुहम्मद मुस्लिम 1/2 निवासी पलायथा

1	2	3	4	5	6	7
			1308	0.0041	नाहरी 2	भैरूलाल पिता नन्दा 1/2 रामकरण पिता उदा 1/2 जाति धोबी मुन्ना बाई मुबारक बाई पुत्री नरमुहम्मद मुस्लिम 1/2 निवासी पलायथा
			1313	0.0054	बारानी उत्तम	अप विजय सिंह साहब पिता अप अजित सिंह साहब राजपुत निवासी पलायथा
			1317	0.0205	नाहरी 2	गोबरीलाल पिता नेनगा धोबी निवासी पलायथा
			1318	0.0196	नाहरी 2	मथुरालाल निवासी नेनगा धोबी निवासी पलायथा
			1321	0.006	नाला	सिवाय चक
			1322	0.064	नाहरी 2	बिस्मिला बाई पुत्री गणेशी 1/3 नजीर जफर पिता समीर खां 2/3 मुस्लिम निवासी पलायथा
		(3) बूंदी	81	0.11	माल 2	कन्हैयालाल पिता मथुरालाल मीणा निवासी धेस
			80	0.1376	माल 2	कन्हैयालाल पिता मथुरालाल मीणा निवासी धेस
			75	0.06	माल 2	नटी बाई जोजे की पाल जाति मीणा निवासी धेस
			82	0.0448	माल 2	यहवंत मार्ग पिता वृद्धीलाल नायक केनवास तेहसील संगोद
			84	0.0448	माल 2	भैरूलाल पिता गणेश करण पिता रतन नायक निवासी केनवास तेहसील संगोद
			85	0.128	माल 2	कांति बाई बेवा चितर राजेश कुमारी एन.बी. माता कांति बाई 1/8 चीता कहानी पुत्री बजरंग ओंकार बेवा बजरंग 3/8
			117	0.04	बारानी 1	बृद्धीलाल पिता जीवनलाल मीणा निवासी तेलवाड़ा कोटा
			118	0.008	गैर मु. सड़क	हजारीलाल निवासी किसनलाल ब्राह्मण निवासी बारान
			74	0.0032	माल 2	सरकारी खाता न. 1 राजस्थान सरकार
			83	0.0448	माल 2	सरकारी खाता न. 1 राजस्थान सरकार
			119	0.016	रास्ता	सरकारी खाता न. 1 राजस्थान सरकार
		(4) बटावदी	63	0.0732	बारानी 2	चोटिया पिता नन्दा धाकड़ निवासी पलायथा
			101	0.0528	बारानी 2	गोपीलाल पिता ओंकार मीणा
			3	0.392	बारानी 2	भैरु वृद्धा पिता जीवनकाम मीणा
			16	0.0594	बारानी 1	वृद्धीलाल पिता जीवनलाल मीणा निवासी तलवंडी कोटा
			25	0.112	माल 2	रामकरण रामकिशन देवीशंकर पिता हीरामोहनी बेवा हेरा 1/3 संभाग कल्याण पिता माधो 1/3 जमुनालाल मानिकचंद गिरिजा प्रसाद पिता चतुर्भुज पुत्री बट्टी बाई बेवा चतुर्भुज 3/12 ओमप्रकाश सुरेन्द्र महेन्द्र एन.बी. पिता धन्नालाल मीणा पुत्री बट्टी बेवा धन्नालाल 1/12 जाति धाकड़

1	2	3	4	5	6	7
			26/552	0.111	माल 2	चम्पालाल सत्यनारायण पिता भूलीबाई पुत्री शांति बाई बेवा वंसी 2/3 द्वाराकी लाल जमुनालाल मोतीलाल पिता शिवकरण बेवा कजोड़ी बेवा शिवकरण बेवा हुशियार बाई जादुबाई पुत्री बाबुलाल उमीला बेवा बाबुलाल 1/5
			61	0.2752	माल 2	लक्ष्मण सिंह पिता श्रीपाल सिंह राजपुत निवासी भूमि विकास बैंक बारा
			2	0.0752	बारानी 2	रामबिलास भैरूलाल पिता द्वारका बाई पुत्री छोटारू बेवा गोपाल जाति बालाइ
			1	0.03	बारानी 2	रामनाथ पिता धुलिया मीणा रासखेरा
			62	0.0048	माल 2	धनराज ओमप्रकाश जयप्रकाश पिता चेन्दलाल मीणा
			102	0.072	बारानी 2	गौतम बुध देवकीनन्दन पिता मदनलाल मीणा निवासी पंचाल खुर्द
			24	0.04	माल 2	भैरूलाल रतनलाल जोधराज निवासी वृद्धा 3/4 हरि प्रकाश ओमप्रकाश एनबी. माता गोखनी बट्टीबाई पुत्री केशरीलाल 1/12 गुलाब बेवा केशरीलाल 1/12 जाति धाकड़
			122	0.2208	बारानी 2	भैरूलाल रतनलाल जोधराज निवासी वृद्धा 3/4 हरि प्रकाश ओमप्रकाश एनबी. माता गोखनी बट्टीबाई पुत्री केशरीलाल 1/12 गुलाब बेवा केशरीलाल 1/12 जाति धाकड़
			123	0.0352	बारानी 2	सुखलाल छोदुलाल प्रभुलाल मथुरालाल शंकर गुर्जर
			354	0.064	बारानी 2	सुखलाल छोदुलाल प्रभुलाल मथुरालाल शंकर गुर्जर
			264	0.0096	बारानी 2	रामनाथ पिता मंगला बालाई
			266	0.0016	माल 2	चितरलाल बबलू सिंह पिता कस्तुरी बेवा अमर सिंह राजपुत
			525	0.0288	बारानी 2	छितरलाल पिता दुंडा मु. बेवा दुंडा जाति बाली
			510	0.0022	बारानी 2	देवेन्द्र कुमार पिता कन्हैयालाल ब्राह्मण केथुनीपोल कोटा
			60	0.224	माल 2	मदनलाल बालमुकुंद सुन्दरलाल लखराज पिता जमनालाल छितर बाई धन्ना बाई वृद्धी बाई पुत्री जमनालाल और द्वारका बाई गोराबाई बेवा जमनालाल जाति मीणा निवासी एच.एस.जी. बैंक बदवा
			507	0.039	बारानी 2	मदनलाल बालमुकुंद सुन्दरलाल लखराज पिता जमनालाल छितर बाई धन्ना बाई वृद्धी बाई पुत्री जमनालाल और द्वारका बाई गोराबाई बेवा जमनालाल जाति मीणा निवासी एच.एस.जी. बैंक बदवा

1	2	3	4	5	6	7
			364	0.0224	बारानी 2	प्रभुलाल आनंदीलाल मदनलाल रामकरण पिता अमरा संकरी बेवा अमरा मोत्या बृद्धी रामनाथी पुत्री अमरा चमार निवासी बदवा
			508	0.024	बारानी 2	प्रभुलाल आनंदीलाल मदनलाल रामकरण पिता अमरा संकरी बेवा अमरा मोत्या बृद्धी रामनाथी पुत्री अमरा चमार निवासी बदवा
			265/564	0.0013	बारानी 2	प्रभुलाल आनंदीलाल मदनलाल रामकरण पिता अमरा संकरी बेवा अमरा मोत्या बृद्धी रामनाथी पुत्री अमरा चमार निवासी बदवा
			363	0.0006	बारानी 2	बाबुलाल पिता किशनलाल जाति मीणा निवासी बुंदी
			362	0.1424	बारानी 2	वृद्धी पिता मन्नालाल 1/2 वृद्धीलाल पिता रामनाथी बाइ कमला बाइ पुत्री मन्नालाल 1/2 जाति मेघवाल
			353	0.0832	माल 1	सोयाराम बालकिशन पिता हीरा केसर काली पाकथी बच्चू सुरेश प्रकाशी भूली नाथी पुत्री मथुरालाल और मु. बंदी बाई मथुरालाल जाति मीणा निवासी बुंदी
			321	0.088	माल 1	राकेश कुमार निरमला कुमार पिता किशोरी चन्द्रकला इंद्रा संजु पुत्री वृद्धी बाइ बेवा किशोरी 1/4 गोपली बेवा मांगीलाल 1/4 किशोरी बाइ गोस्वामी बाइ पुत्री मांगीलाल 1/2 ब्राह्मण बटावदा
			318	0.0192	माल 1	देवीलाल जानकीलाल धन्नालाल पिता पाथु 3/4 हमराज राजेन्द्र लक्ष्मीनारायण हंसराज पिता रामप्यारी मन्नाबाई द्रापदी मेहरबाई लाडबाई पुत्री कल्याणी बाई बेवा भैरूलाल जाति धाकड़ निवासी धन्ना और पाथु 1/4 निवासी बारां सहकारी भूमि विकास बैंक बारां
			267	0.0288	माल 2	मथुरालाल निवासी हीरालाल जाति मीणा निवासी बुंदी
			308	0.0128	बारानी 2	ब्रजेश कुमार पिता वृद्धीलाल जाति मीणा निवासी बुंदी हाल तलवंडी एनएच.-76
			311	0.04	माल 2	ब्रजेश कुमार पिता वृद्धीलाल जाति मीणा निवासी बुंदी हाल तलवंडी एनएच.
			315	0.04	माल 2	ब्रजेश कुमार पिता वृद्धीलाल जाति मीणा निवासी बुंदी हाल तलवंडी एनएच.
			309	0.0432	खल	सिवाय चक
			506	0.0096	रास्ता	सिवाय चक
			316	0.008	खल	सिवाय चक
			317	0.0272	खल	सिवाय चक
			99	0.0224	बारानी 2	सिवाय चक
			15	0.0016	खल	सिवाय चक
			18	0.1008	खल	सिवाय चक

1	2	3	4	5	6	7
			104	0.0064	रास्ता	सिवाय चक
			544	0.384	खल	सिवाय चक
			223	0.0032	आबादी	आबादी क्षेत्र ग्राम पंचायत बिजौरा
			526	0.3376	चारागाह 1	आबादी क्षेत्र ग्राम पंचायत बिजौरा
			255	0.392	चारागाह 1	आबादी क्षेत्र ग्राम पंचायत बिजौरा
			257	0.108	चारागाह 1	आबादी क्षेत्र ग्राम पंचायत बिजौरा
			258	0.144	आबादी	आबादी क्षेत्र ग्राम पंचायत बिजौरा
			260	0.04	आबादी	आबादी क्षेत्र ग्राम पंचायत बिजौरा
			262	0.1536	आबादी	
			263	0.016	गैर मु. सड़क	सा. नि. वि.
		(5) ठीकरिया	81	0.0512	नाहरी 1	रमेशचंद पिता मुलीचंद जाट निवासी अंता
			82/849	0.0048	नाहरी 1	सूर्य प्रकाश पिता रामनारायण पांडे निवासी बामोरी अंता गैर
			23	0.0224	नाहरी 1	रामेश्वर पिता किशन गोपाल निवासी पलायथा
			30	0.01	नाहरी 1	चारागाह
			85	0.1024	नाहरी 1	शांतिलाल पिता मथुरालाल जाति नाइ निवासी एसएसजे अंता
			86	0.0128	नाहरी 1	पुष्पा बेवा शंकरनाइ
			79	0.076	गैर मु. नहर	सिंचाई विभाग
			151	0.0128	गैर मु. नहर	सिंचाई विभाग
			153	0.0096	गैर मु. नहर	सिंचाई विभाग
			152	0.0064	गैर मु. नहर	सिंचाई विभाग
			38	0.0048	नाहरी 1	मुकुट विहारी कुंजबिहारी श्यामबिहारी चंद्रप्रकाश पिता स्वतंत्र बाई साबित्री बाई पुत्री शांति बाई बेवा श्रीनाथ ब्राह्मण निवासी पलायथा
			37/787	0.226	नाहरी 1	शिवराज सिंह पिता माधो सिंह राजपुत नागदा
			19	0.07	नाहरी 1	नरेश कुमार पिता श्रीनाथ नीलम पुत्री श्रीनाथ जाति ब्राह्मण पलायथा
			36	0.1016	नाहरी 1	निर्जन सिंह पिता माधो सिंह राजपुत निवासी एसबीबीजे. पलायथा
			31	0.0032	नाहरी 1	जानकी बाई पत्नी मुलीलाल ब्रिजराज सिंह पिता मुलीलाल 1/2 शिवराज सिंह पिता रमेश सिंह 1/2 जाति जाट थिकरिया निवासी एचएस. जी. बैंक अंता
			88	0.1216	नाहरी 1	अब्बदुल रईस अब्बदुल न्यूम पिता नाथीखान रशीदा बानो मेहरुनिसा समीम नसीम पुत्री खैरुनिसा बेवा नाथी खान निवासी अंता
			154	0.1488	नाहरी 1	शंकर पिता देवलाल जाति ब्राह्मण निवासी अंता
			24	0.068	नाहरी 1	मो. अयूब मो. युसूफ मो. युनिस महफुज आलाम यूनीस महफुज आलाम ए.जाबबार निवासी ए. जफर खान निवासी अंता

1	2	3	4	5	6	7
			28	0.544	नाहरी 1	ब्रजराज सिंह मुलीलाल जाट निवासी हाड़ौती ग्रामीण बैंक अंता
		(6) बमोरी	673	0.2192	नाहरी 1	पुरुषोत्तम पिता कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी अंता
			331	0.0992	नाहरी 1	मुश्तफा हुसैन पिता साबिर हुसैन अली हुसैन पिता अली भाई जाति भोरा मुस्लिम निवासी अंता
			330	0.0704	नाहरी 1	मोहनलाल पिता भंवरलाल जाति माली निवासी बामोरी
			670/1062	0.0128	नाहरी 1	मोहनलाल पिता भंवरलाल जाति माली निवासी बामोरी
			670	0.0016	नाहरी 1	मोहनलाल पिता भंवरलाल 1/2 साबुबाई पत्नी मोहनलाल 1/2 जाति माली
			317	0.1952	नाहरी 1	रेवड़ीलाल पिता मथुरालाल पन्ना 19/126 महावीर पिता चन्द्र चान्हा कांति बाई एन.बी.पुत्री चांदरानी बेवा 4/9 बंसी बाई पुत्री गोविंदा 1/3 नन्द कुमार पिता राम गोपाल जाति मेघवाल निवासी गुलाबबाड़ी लाडपुरा 1/14 नोट: न. 448/21-9-04 सी नन्दकुमार पिता रामगोपाल
			671	0.0058	नाहरी 1	कनीज पत्नी अब्दुल करीम 1/2 अखतर हुसैन कमालुद्दीन जाकीरुद्दीन पिता अब्दुल करीम फरीयाद हुसैन महमुद पिता अब्दुल करीम एनबी. पिता 1/2 जाति मुस्लिम निवासी अंता
			668	0.096	नाहरी 1	कालुलाल बंसीलाल पिता जगन्नाथ कमलाबाई बेवा मोहनलाल जाति मुस्लिम तामोली निवासी अंता
			669	0.44	नाहरी 1	कालुलाल बंसीलाल पिता जगन्नाथ कमलाबाई बेवा मोहनलाल जाति मुस्लिम तामोली निवासी अंता
			667	0.2112	नाहरी 1	नन्हेखां पिता अब्दुल मजीद जाति मुस्लिम निवासी अंता
			666	0.48	नाहरी 1	चन्द्रभूषण पिता चन्द्रप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी अंता
			663	0.072	नाहरी 1	चन्द्रभूषण पिता चन्द्रप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी अंता
			662	0.104	नाहरी 1	चन्द्रभूषण पिता चन्द्रप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी अंता
			642	0.3216	नाहरी 1	महावीर प्रसाद पिता उमाशंकर दीक्षित ब्राह्मण निवासी सोपिंग सेंटर कोटा
			643	0.8528	नाहरी 1	जामनाशंकर पिता रामजीन दीक्षित निवासी सोपिंग सेंटर कोटा
			559	0.1264	नाहरी 2	पीपल सिंह पिता जग सिंह जाति जाट सिख
			560	0.0672	नाहरी 2	पीपल सिंह पिता जग सिंह जाति जाट सिख

1	2	3	4	5	6	7
			557/1059	0.288	नाहरी 2	चरणजीत सिंह बाकजीत सिंह दलजीत सिंह बलविंदर सिंह पिता धर्म सिंह जाति यादव निवासी बामोरी
			564	0.1488	चाही 20.045	बाबुलाल भैरूलाल पिता माधोलाल माली निवासी बामोरी
			565	0.272	जाव 20.11	बाबुलाल भैरूलाल पिता माधोलाल माली निवासी बामोरी
			609/1022	0.16	नाहरी 2	बाबुलाल भैरूलाल पिता माधोलाल माली निवासी बामोरी
			608	0.2048	नाहरी 2	नलकुप है
			602	0.3552	चाही 2	राजकुमार अरविंद कुमार पिता ओमप्रकाश समीता कुमारी पुत्री ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी अंता
			600	0.08	चाही 1	राजकुमार अरविंद कुमार पिता ओमप्रकाश समीता कुमारी पुत्री ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी अंता
			598	0.16	चाही 1	अब्दुल रहमान पिता पन्ना मो. जाति लीलहर निवासी अंता
			739	0.1792	बाशानी 1	काली बेवा नाथु 2/3 जाति गुर्जर निवासी बामोरी मन्नालाल पिता नाथुलाल 2/3
			738	0.1792	चाही 1	काली बेवा नाथु 2/3 जाति गुर्जर निवासी बामोरी मन्नालाल पिता नाथुलाल 2/3
			744	0.384	चाही 1	काली बेवा नाथु 2/3 जाति गुर्जर निवासी बामोरी मन्नालाल पिता नाथुलाल 2/3
			759	0.352	चाही 1	काली बेवा नाथु 2/3 जाति गुर्जर निवासी बामोरी मन्नालाल पिता नाथुलाल 2/3
			759/993	0.0176	नाहरी 1	रामस्वरूप पिता सुरजमल जाति ब्राह्मण निवासी अंता
			1130	0.048	नाहरी 1	रामेश्वर गजानंद मुरलीधर मोहनलाल सोहनलाल घुलीचंद पिता चन्ना रामप्यारी बेवा चन्ना जाति कुमावत निवासी अंता
			334/1019	0.16	नाहरी 1	सिवाय चक
			310	0.0016	गैर मु. नाला	सिवाय चक
			665	0.8736	गैर मु. नाला	सिंचाई विभाग
			674	0.096	नाहरी 1	सिवाय चक
			672	0.0192	गैर मु. नाला	सिवाय चक
			561	0.108	गैर मु. खल	सिवाय चक
			565/1053	0.0864	गैर मु. रास्ता	सिवाय चक
			661	0.0384	गैर मु. नाला	सिवाय चक
			639	0.096	गैर मु. नाला	सिवाय चक
			749	0.0768	गैर मु. रास्ता	सिवाय चक
			755	0.0576	नाहरी 1	सिवाय चक
			610	0.12	नाहरी 1	सिवाय चक

1	2	3	4	5	6	7
		(7) अंता	1992	1.2048	नाहरी 1	नन्द सिंह पिता मोती सिंह 1/2 अजित सिंह बहादुर सिंह पिता गोर्दन सिंह सुल्तान बाई बेवा गोर्दन सिंह 3/12 प्रेमचंद पिता छोटुलाल 8/48 मुलीबाई पत्नी रामकिशन और गिरिजा बाई पत्नी गणपतलाल जाति कुमावत 1/12 निवासी अंता
			2000	0.2688	नाहरी 1	प्रभुलाल बालिग राधेश्याम एनबी. पिता बजरंग 2/3 जाति माली बजरंगलाल पिता चितरलाल 1/3 जाति राथी निवासी अंता
			2001	0.5376	नाहरी 1	मदनलाल गुलशनराम ओमप्रकाश पिता दाताराम 5 शीला देवी सरला देवी गुड्डडी मीणा पुत्री दाताराम मु. जमुना देवी बेवा दाताराम जाति पंजाबी खत्री
			1318	0.1376	नाहरी 1	मदनलाल गुलशनराम ओमप्रकाश पिता दाताराम 5 शीला देवी सरला देवी गुड्डडी मीणा पुत्री दाताराम मु. जमुना देवी बेवा दाताराम जाति पंजाबी खत्री
			1319	0.1376	नाहरी 1	मदनलाल गुलशनराम ओमप्रकाश पिता दाताराम 5 शीला देवी सरला देवी गुड्डडी मीणा पुत्री दाताराम मु. जमुना देवी बेवा दाताराम जाति पंजाबी खत्री
			1320	0.336	नाहरी 1	मदनलाल गुलशनराम ओमप्रकाश पिता दाताराम 5 शीला देवी सरला देवी गुड्डडी मीणा पुत्री दाताराम मु. जमुना देवी बेवा दाताराम जाति पंजाबी खत्री
			1317	0.088	नाहरी 1	मदनलाल गुलशनराम ओमप्रकाश पिता दाताराम 5 शीला देवी सरला देवी गुड्डडी मीणा पुत्री दाताराम मु. जमुना देवी बेवा दाताराम जाति पंजाबी खत्री
			1263	0.0128	नाहरी 1	रामस्वरूप पिता सुरजमल जाति ब्राह्मण
			1323	0.3456	नाहरी 1	खेमचंद और फोकरचंद पिता उदयमन जाति खत्री निवासी अंता
			1264	0.0128	नाहरी 1	चितरलाल भंवानीशंकर पिता जगन्नाथ जाति कुमावत निवासी अंता
			1398	0.4992	नाहरी 1	बाबुलाल मुरली मनोहर पिता चितरलाल जाति निवासी अंता
			1395	0.024	नाहरी 1	अब्बदुल हमीद फारुख अहमद अब्बदुल फरीद अब्बदुल खालिल पाठान इस्माल प्रवीण रुकसाना पुत्री इस्माइल कालो बेवा इस्माइल जाति मुस्लिम निवासी बारां
			1394	0.3376	नाहरी 1	तेजयो बिरधा जाति माली
			1392	0.6624	नाहरी 1	धन्नालाल पिता देवीराम और जगदीश मोहन पिता भंवरिया मु. रामकन्या बेवा भंवरिया और बेवा तेज्यो जाति माली निवासी अंता
			1408	0.096	नाहरी 1	मंदिर

1	2	3	4	5	6	7
			1409	0.1328	नाहरी 1	मंदिर
			1640	0.136	नाहरी 1	मंदिर
			1637	0.0064	नाहरी 1	अब्बदुल फरीद अब्बदुल शरीफ अब्बदुल गनी मो. सईद साबजादी बेवा अब्बदुल लतीफ अब्बदुल सईद पिता मो. अजीम खान 2/3 अब्बदुल मजिद अब्बदुल रउफ 1/3 जाति मुस्लिम निवासी अंता
			1638	0.0016	नाहरी 1	अब्बदुल फरीद अब्बदुल शरीफ अब्बदुल गनी मो. सईद साबजादी बेवा अब्बदुल लतीफ अब्बदुल सईद पिता मो. अजीम खान 2/3 अब्बदुल मजिद अब्बदुल रउफ 1/3 जाति मुस्लिम निवासी अंता
			1633	0.144	नाहरी 1	बिस्मिला बेगुन बेवा नुराली सईद इशाक अली सईद मुख्तार अहमद पिता नुराली जाति मुस्लिम निवासी अंता
			1634	0.048	नाहरी 1	मंदिर
			1635	0.6624	नाहरी 1	मंदिर
			1603	0.1152	नाहरी 1	मंदिर
			1590	0.2784	नाहरी 1	किशनचंद पिता मांगीलाल जाति महाजन निवासी अंता
			1595	0.048	नाहरी 2	ब्रिजकाला इंदुबाई पुत्री बाबुलाल जाति नन्दवाना ब्राह्मण निवासी मानपुरा
			1608	0.2304	नाहरी 2	किशनचंद पिता टेकचंद जाति खत्री
			1609	0.0128	नाहरी 2	किशनचंद पिता टेकचंद जाति खत्री
			1624	0.1536	नाहरी 2	चितरलाल पिता मोघो जाति मेहर
			1641	0.144	नाहरी 1	श्रीलाल मांगीलाल ब्रिजमोहन पिता नात्या रामभरोसी बाई पिता नात्या नाथीबाई बेवा नात्या रामनाथी बेवा किशना 1/4 कन्हैयालाल प्रभुलाल पन्नालाल पिता बंदरीया हरिशचंद पिता घनश्याम 1/4 कैलाशचंद पिता रामनारायण 5/18 भूली रामनाथी पुत्री तेज्या बारान 2/9 जाति माली निवासी अंता
			1601	0.144	नाहरी 2	मंदिर
			1991	0.0432	गैर मु. नाला	सिवाय चक
			1998	0.3264	गैर मु. नाला	सिवाय चक
			1331	0.0576	रास्ता	सिवाय चक
			1323/1888	0.344	नाहरी 1	सिवाय चक
			1296	0.1376	गैर मु. नाला	सिवाय चक
			1393	0.0384	गैर मु. नाला	सिवाय चक
			1407	0.1632	नाहरी 2	सिवाय चक
			1639	0.0624	नाहरी 2	सिवाय चक
			1310	0.1344	गैर मु. नाहर	सिवाय चक
			1627	0.1728	गैर मु. नाहर	सिवाय चक
			1529	0.768	गैर मु. नाहर	सिंचाई

1	2	3	4	5	6	7
		(8) बरखेड़ा	282	0.2088	नाहरी 2	रामस्वरूप सत्यनारायण मुकुटबाई पिता रामचन्द्रा ग्यारसी बाई बेवा रामचन्द्रा 1/3 2/3 और जाति धाकड़ निवासी एसबीबीजे एनएम 124, 156, 159
			281	0.016	नाहरी 2	रामस्वरूप सत्यनारायण मुकुटबाई पिता रामचन्द्रा ग्यारसी बाई बेवा रामचन्द्रा 1/3 2/3 और जाति धाकड़ निवासी एसबीबीजे एनएम 124, 156, 159
			283	0.369	नाहरी 2	जयराम पिता छोटुलाल गंगाबाई कांतिबाई पुत्री छोटुलाल जाति मेहर
			382	0.003	नाहरी 2	तुलसा बेवा देवलाल प्रभुलाल रामप्रताप पिता देवलाल शांतिबाई वृद्धी बाई राधाबाई पुत्री देवलाल 1/4 छोटीबाई बेवा दुर्गालाल तेजकरण किशनलाल धनराज रमेशचंद पिता दुर्गालाल 1/4 चोधमल 1/4 अमरा 1/4 पिता भुरा जाति गुर्जर निवासी बामुलिया कल्याण
			299	0.0504	बारानी 1	मुलचंद सत्यनारायण पिता रामकिशन रामकन्या बाई रूकमणी पुत्री रामकिशन ओंकारी बाई बेवा रामकिशन नुरका पुत्री मथुरा 2/3 रामबाबु पिता धन्नालाल पिता केदार बाई
			298	0.0704	बारानी 1	पृथ्वीराज पिता मोहनलाल और सुरजबाई द्वारकाबाई धन्नीबाई पुत्री गंसी जाति चमार
			287	0.176	चाही 3	हरिओम पिता लाला जाति धाकड़ एन. एम. 157
			302	0.0352	गैर मु. रास्ता	सिवायचक
			301/538	0.016	चाही 2	रामबाबु पिता धन्नालाल जाति मेहर एनएम. 142
			323	0.216	नाहरी 2	चित्ता पिता जगन्नाथ जाति धाकड़ एनएम. 142
			334	0.0441	चाही 3	रामप्रताप पिता मन्नालाल जाति धोबी
			335	0.132	नाहरी 2	रामा पिता बिसना जाति मेगवाल एनएम.3
			361	0.4032	नाहरी 2	शिवराज जगदीश रामस्वरूप गिराज सत्यनारायण धनराज पिता श्री कृष्णा जाति धाकड़ निवासी जगदीश शिवराज गिराज 3/6 एसबीबीजे. अंता एनएम. 163, 179
			370	0.2088	नाहरी 2	रामधन रमेशचंद पिता भेरूलाल पुसाबाई बेवा जाति धाकड़
			371	0.1152	नाहरी 2	रामगोपाल पिता नन्दकिशोर गीताबाई रमेशबाई मनभरबाई पुत्री नन्दकिशोर वृद्धीबाई बेवा नन्दकिशोर 1/3 गिरधारी गोविंदा पिता कान्हा 2/3 जाति धाकड़

1	2	3	4	5	6	7
			372	0.144	चाही 2	शिवराज जगदीश रामस्वरूप गिरिराज सत्यनारायण धनराज पिता श्री कृष्णा जाति धाकड़ निवासी जगदीश शिवराज गिराज 3/6 एसबीबीजे. अंता एनएम. 163, 179
			126	0.0064	बारानी 1	शिवराज जगदीश रामस्वरूप गिरिराज सत्यनारायण धनराज पिता श्री कृष्णा जाति धाकड़ निवासी जगदीश शिवराज गिराज 3/6 एसबीबीजे. अंता एनएम. 163, 179
			373	0.1584	नाहरी 2	हरिओम पिता लाला और जुगलकिशोर नवलकिशोर बिरेन्द्र पिता हरिओम जाति धाकड़ निवासी जगदीश शिवराज गिरिराज 2/3 एसबीबीजे. 163, 179
			374	0.094	नाहरी 2	पन्नाचंद पिता गोपीलाल सीताबाई पुत्री गोपीलाल जाति धाकड़ एनएम. 185
			377	0.035	नाहरी 2	हीरालाल जमनालाल वृद्धीलाल पिता पन्नालाल और रामजानकी बाई पुत्री पन्नालाल गोपीबाई बेवा पन्नालाल जाति धाकड़ निवासी भूमि बिकास बैंक
			380	0.064	नाहरी 2	तुलसा बेवा देवलाल प्रभुलाल रामप्रताप पिता देवलाल शांतिबाई वृद्धीबाई राधाबाई पुत्री देवलाल 1/4 चोटीबाई बेवा दुर्गालाल तेजकरण किशनलाल धनराज रमेशचंद पिता दुर्गालाल 1/4 अमरा 1/4 पिता भूरा जाति गुर्जर निवासी बामुलिया कलां
			381	0.0544	नाहरी 2	मंदिर
			378	0.0128	नाहरी 2	मंदिर
			322	0.05	नाहरी 2	मंदिर
			297	0.048	बारानी 1	मंदिर
			320	0.0896	गैर मु. नाला	किशोर पिता पन्नालाल छोटीबाई पुष्पाबाई पुत्री पन्नालाल जाति चमार
			303	0.0368	नाहरी 2	किशोर पिता पन्नालाल छोटीबाई पुष्पाबाई पुत्री पन्नालाल जाति चमार
			321	0.0224	नाहरी 2	किशोर पिता पन्नालाल छोटीबाई पुष्पाबाई पुत्री पन्नालाल जाति चमार
			383	0.008	नाहरी 2	तेजकरण पिता पन्नालाल छोटीबाई पुष्पाबाई पुत्री पन्नालाल जाति चमार
			94	0.007	गैर मु. चाह.	लीला कुमारी पत्नी सत्यनारायण जाति ब्राह्मण
			96	0.0014	बारानी 1	लीला कुमारी पत्नी सत्यनारायण जाति ब्राह्मण
			101/519	0.0184	माल 1	सिवाय चक
			100/518	0.0048	चाही 1	रामअवतार पिता कमलाशंकर ममता पुत्री कमलशंकर कलावती पत्नी कमलाशंकर 1/2 शिवनारायण पिता फूलचंद 1/2 जाति गुर्जर

1	2	3	4	5	6	7
			98	0.005	बारानी 1	श्रीकृष्णा प्रभुलाल राधेश्याम पिता मोहनलाल कंचनबाई कैलाशबाई रामबिलास बाई ओम बाई पुत्री मोहनलाल जाति धाकड़
			277	0.0896	नाहरी 2	बिमला कुमारी पुत्री मदन मोहन जाति महाजन निवासी अंता
			379	0.0448	नाहरी 2	मंदिर
			273	1.1124	नाहरी 2	रामकल्याण रामानन्द पिता सुरजमल मांगीबाई प्रेमबाई पुत्री सुरजमल जाति धाकड़
			274	0.018	नाहरी 2	रामानन्द पिता सुरजमल जाति धाकड़ एन. एम. 143
			301	0.2136	चाही 2	मुलचंद सत्यनारायण पिता रामकिशन रामकन्या बाई रूकमणी पुत्री रामकिशन ओकारी बाई बेवा रामकिशन नुरका पुत्री मथुरा 2/3 रामबाबु पिता धन्नालाल पिता केदार बाई धन्नालाल 1/3 जाति मेहर
			302	0.0352	गैर मु. रास्ता	सिवाय चक
			360	0.0576	गैर मु. रास्ता	सिवाय चक
			101	0.006	माल 1	रमेशचंद पिता माधोलाल जाति ब्राह्मण एनएम. 117, 175
		(9) बमोलिया महाराज	823	0.365	बारानी 2	श्यामलाल रामवतार पिता पूलचंद विमला ममता राजू पुत्री पूलचंद और कानीबाई बेवा पूलचंद 1/4 बाबूलाल चोथमल पिता देवलाल 1/2 ललिलाबाई बेवा वृद्धि लाल 1/4 जाति गुर्जर
			959	0.02	गैर मु. रास्ता	अब्बदुल राजक पिता अब्बदुल हमीद जाति मुस्लिम निवासी लालबुर्ज कोटा
			960	0.045	चाही 1	अब्बदुल राजक पिता अब्बदुल हमीद जाति मुस्लिम निवासी लालबुर्ज कोटा
			972	0.008	बारानी 1	मदनलाल पिता मंगला जाति तेली
			955	0.0064	माल 1	अधल्या पिता मोग्या जाति मोग्या
			948	0.004	माल 1	शांति बाई नानग्राम जाति खटिक
			989	0.0056	गैर मु. खड़ी	सिवाय चक
			991	0.07	गैर मु. खड़ी	सिवाय चक
			990	0.16	बारानी 3	किशनलाल पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर मुरसीम औल खाटा भुमि विकास बैंक शाखा अंता
			992	0.4808	बारानी 3	रामराज पिता मांगीलाल जाति पासवन
			1040	0.05	माल 1	मदनलाल पिता कन्हैयालाल बदरीलाल सुरेश कुमार नरेश कुमार पिता मदनलाल जगमोहन पिता सावित्री रेणूबाई पुत्री तुलसा बेवा चुन्नीलाल जाति गुर्जर
			1044/1079	0.064	माल 2	भैरूलाल पिता भैरु जाति माली पासवन
			837	0.875	गैर मु. खड़ी	सिवाय चक

1	2	3	4	5	6	7
			950	0.3205	माल 1	बंसीलाल मोतीलाल पिता गणेशराम ज्यन उनोख काली पुत्री गणेश राम 5/6 मंजुबाई कालीबाई रोशनी बाई पुत्री कस्तुरी बाई बेवा चितरलाल 1/6 जाति माली
			951	0.2416	माल 1	रामचरण पिता भरूलाल जाति माली निवासी स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर और जयपुर
			953	0.176	माल 1	प्रभु पिता गणेशी जाति चमार
			913	0.39	माल 1	राम नारायण धनश्याम पिता बजरंग मुजयाना बेवा बजरंग जाति मेक 913/152 और 2/3 गणेशराम जाना भूमि विकास बैंक निवासी बारों
			912	0.2288	माल 1	राम नारायण धनश्याम पिता बजरंग मुजयाना बेवा बजरंग जाति मेक 913/152 और 2/3 गणेशराम जाना भूमि विकास बैंक निवासी बारों
			911	0.0032	माल 1	राम नारायण धनश्याम पिता बजरंग मुजयाना बेवा बजरंग जाति मेक 913/152 और 2/3 गणेशराम जाना भूमि विकास बैंक निवासी बारों
			905	0.0032	माल 1	
			769	0.1152	बारानी 2	नन्दकिशोर पिता नोल्या फूलाबाई चोटा बाई पुष्पा बाई पुत्री नाल्या 1/2 मोहनलाल पिता बजरंगी मोहनलाल पुत्र बजरंगी जानकी पुत्री 1/2 जाति कोली
			820	0.0128	बारानी 3	गोबरीलाल गणेशीलाल पिता वृद्धीलाल जाति माली
			818	0.09	गैर मु. खनिज	सिंचाई विभाग
			540	0.216	गैर मु. खनिज	सिंचाई विभाग
			966	0.0016	चाही 2	गोबरीलाल गणेशीलाल पिता वृद्धीलाल जाति माली
			962	0.0208	बारानी 1	रामगोपाल पिता मथुरालाल जाति धाकड़
			538	0.0256	नाहरी 2	अर्जुन कुमार महेन्द्र कुमार पिता प्रीतम जाति खाद्री निवासी अंता
			539	0.0576	नाहरी 2	अर्जुन कुमार महेन्द्र कुमार पिता प्रीतम जाति खाद्री निवासी अंता
			542	0.352	नाहरी 2	अर्जुन कुमार महेन्द्र कुमार पिता प्रीतम जाति खाद्री निवासी अंता
			906	0.072	माल 1	चगनलाल पिता गोपीलाल 174/598 जाति माली गोविंद महेश्वर पिता राजेन्द्र कुमार 125/598 जाति अंता भंवरलाल बंदरीलाल
			636	0.2025	बारानी 1	रघुनन्दन मुलचंद चंद्रमोहन ब्रिजमोहन श्याबिहारी मुकुटबाई पिता नाथुलाल कंचनबाई बेवा नाथुलाल संतोष कमलेश पुत्री कमलेश जाति ब्राह्मण
			637	0.03	गैर मु. चाह.	सिवाय चक
			656	0.081	गैर मु. रास्ता	सिवाय चक

1	2	3	4	5	6	7
			684	0.108	बाराणी	सिवाय चक
			715	0.04	गैर मु. चाह.	सिवाय चक
			773/1066	0.0016	बाराणी 2	सिवाय चक
			634	0.2408	चाही 2	किशनचंद पिता मांगीलाल जाति महाजन निवासी अंता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एनटीपीसी.
			633	0.5576	चाही 1	गुलाबचंद महाजन गोविंदलाल शिवनारायण पिता गुलाबचंद चमेलीबाई पत्नी गुलाबचंद जाति गुर्जर
			668	0.024	चाही 1	कोमलराज पिता सीताराम जाति धाकड़
			662	0.5432	चाही 1	तेजकरण पिता केशरीलाल जाति गुर्जर
			667	0.0896	चाही 1	तेजकरण पिता केशरीलाल जाति गुर्जर
			666	0.0192	चाही 1	रामजानी पिता चांद खां सुवानी बेवा चांद खां कानीजा और कालो पुत्री चांद खां जाति मुस्लिम
			664	0.0896	चाही 1	रामजानी पिता चांद खां सुवानी बेवा चांद खां कानीजा और कालो पुत्री चांद खां जाति मुस्लिम
			714	0.16	चाही 1	बाबुलाल राधेश्याम पिता रामनारायण 1/2 रामगोपाल पिता बजरंगलाल 1/2 जाति धाकड़
			713	0.0768	चाही 1	भरत चोटया पिता गोमदा जाति माली
			712	0.096	चाही 1	भरत चोटया पिता गोमदा जाति माली
			711	0.1215	चाही 1	नन्दकिशोर कालूलाल पिता पार्वती पुत्री ओंकारी बेवा अमरलाल जाति गुर्जर
			708	0.304	चाही 1	मदन मोहन पिता रामनाथ जाति ब्राह्मण
			709	0.0192	गैर मु. चाह.	मदन मोहन पिता रामनाथ जाति ब्राह्मण
			702	0.201	चाही 2	नर्वदा पुत्री सुखा जमनालाल रामगोपाल पिता गणेशराम 3/4 सुरज पिता नन्दराज सेनु किरण पुत्री नन्दलाल चंद्रकांता नंदलाल 1/4 पिता पुत्री माता चंद्रकांता जाति कोली
			774	0.144	चाही 2	प्रभुलाल पिता मोतीलाल जाति माली
			773	0.1476	चाही 2	भंवरलाल पिता मोग्या 1/2 मांगली बेवा भीमा चितरलाल भीमा रामनाथी बट्टीबाई पुत्री भीमा मेघवाल
			776	0.046	चाही 2	भंवरलाल पिता मोग्या 1/2 मांगली बेवा भीमा चितरलाल भीमा रामनाथी बट्टीबाई पुत्री भीमा मेघवाल
			777	0.0585	बाराणी 1	भंवरलाल पिता मोग्या 1/2 मांगली बेवा भीमा चितरलाल भीमा रामनाथी बट्टीबाई पुत्री भीमा मेघवाल
			721	0.002	चाही 1	बजरंग लाल पिता सुखदेव जाति कुम्हार
			699	0.0048	गै मु. रास्ता	सिवाय चक
			645	0.0288	गैर मु. रास्ता	सिवाय चक
			717	0.028	चाही 1	नजरुद्दीन अनवरुद्दीन मोहम्मद हनीफ पिता हुसैन बेक्स मो. जातुन बेवा हुसैन बेक्स जाबुन पुत्री हुसैन बेक्स जाति मुस्लिम

1	2	3	4	5	6	7
			716	0.098	चाही 1	अलाउद्दीन पिता बदरुद्दीन बाई बेवा बदरुद्दीन जाति मुस्लिम
			663	0.108	चाही 1	रामकरण पिता मोहनलाल जाति माली
			647	0.0168	चाही 1	हिम्मतराज पिता सीताराम जाति धाकड़ एनएम. 285
			644	0.052	चाही 1	पुखराज पिता सीताराम जाति धाकड़
			642	0.064	बारानी 1	छोटेलाल पिता पाथुलाल जाति ब्राह्मण
			641	0.0112	चाही 2	किशनलाल पिता मांगीलाल जाति महाजन निवासी अंता
			638	0.0832	बारानी 1	रघुनन्दन मूलचंद चंद्रमोहन ब्रिजमोहन श्यामबिहारी मुकुटबिहारी पिता नाथुलाल कंचनबाई बेवा नाथुलाल संतोष कमलेश पुत्री कमलेश जाति ब्राह्मण
			614	0.34	चाही 3	रामेश्वर पिता माधोलाल जाति ब्राह्मण
			775	0.09	चाही 2	भंवरलाल पिता मांग्या 1/2 मंगनी बेवा भीमा चितरलाल पिता भीमा रामनाथी बट्टी बाई पुत्री भीमा जाति मेघवाल
			909	0.036	माल 1	मोहासीना पिता मोतीलाल 1/2 सम्मद पिता सकूर नजमा सनीफ पुत्री सकूर महासीना बेवा सकूर 1/2 जाति मुस्लिम
			906	0.0002	माल 1	चगनलाल पिता गोपीलाल 174/598 जाति माली
			961	0.1888	बारानी 1	चितर सिंह पिता धूलसिंह जाति राजपुत
			962/1075	0.0208	बीड	श्यामलाल रामबतार पिता फूलचंद बिमला ममता राजु पुत्री फूलचंद और कन्याबाई बेवा फूलचंद 1/4 बाबूलाल चौथमल पिता देवलाल 1/2 ललीताबाई बेवा वृद्धीलाल 1/4 जाति गुर्जर
			820/1077	0.02	गैर मु. आबादी	सिवाय चक
			821	0.0672	बारानी 2	सिवाय चक
			908	0.072	चाही 3	धन्ना पिता माधोलाल 1/2 जगदीश राधेश्याम पिता पन्ना जाति धाकड़
			769	0.1152	बारानी 3	नन्दकिशोर पिता नोल्या फोलाबाई छोटबाई पुष्पाबाई पुत्री नोल्या 1/2 मोहनलाल पिता बजरंगी जानकी पुत्री 1/2 जाति कोली
			617	0.008	नाहरी 2	भैरूलाल भंवरलाल किशनलाल चंद्रप्रकाश पिता देवलाल जाति गुर्जर
			628	0.044	चाही 1	बंसीलाल पिता चेत्रा चंद्रमोहन पिता बट्टीलाल जाति धाकड़
			656	0.081	गैर मु. रास्ता	सिवाय चक
			18	0.048	गैर मु. रास्ता	आशासुद बेवा पियुष सुद साहिल सुद पिता पियुष सुद जाति सुद निवासी कोटा
			19	0.0336	गैर म. चाह.	आशासुद बेवा पियुष सुद साहिल सुद पिता पियुष सुद जाति सुद निवासी कोटा

1	2	3	4	5	6	7
			20	0.0192	चाही 2	आशासुद बेवा पियुष सुद साहिल सुद पिता पियुष सुद जाति सुद निवासी कोटा
			21	0.003	गैर मु. खनिज	सिचाई विभाग
			952	0.033	माल 2	बुध सिंह पिता बजरंग सिंह जाति राजपुत
			727	0.054	गैर मु. नाला	सिवाय चक
			739	0.09	गैर मु. सड़क	सा. नि. वि.
			1046	0.05	माल 2	देवलाल पिता भंवरलाल जाति गुर्जर
			665	0.0512	चाही 1	लटुरलाल पिता धन्नालाल जाति कोली
2	बारां	(1) बटावदा	436	0.0736	नाला	सिवाय चक
			444	0.1552	बारांनी 11	मोतीलाल पिता शंकरलाल मनकंवरी पुत्री शंकरलाल जाति कुम्हार
			445	0.0078	बारांनी 1	मोतीलाल पिता शंकरलाल 1/10 जाति कुम्हार धनश्याम ओमप्रकाश पिता गोपाल 1/10 जाति लुहार
			446	0.009	नाहरी 11	कमला बाई रामकिशन जाति ब्राह्मण निवासी यूको बैक बारां
			522	0.07	चाही 1	कमला बाई रामकिशन जाति ब्राह्मण निवासी यूको बैक बारां
			518	0.0336	चाही 1	कमला बाई रामकिशन जाति ब्राह्मण निवासी यूको बैक बारां
			528	0.0003	चाही 1	ब्रदीलाल सुरजमल रामकिशन श्रवण धनराज पिता जगन्नाथ यादव बेवा जगन्नाथ इत्यादि
			525	0.016	चाही 1	रामकिशन रामकल्याण रामगोपाल रामप्रसाद पिता चितरलाल पुष्पा बाई पुत्री चितरलाल केला बाई बेवा चितरलाल जाति मीणा
			322	0.0016	जाव	रामकिशन रामकल्याण रामगोपाल रामप्रसाद पिता चितरलाल पुष्पा बाई पुत्री चितरलाल केला बाई बेवा चितरलाल जाति मीणा
			326	0.248	खेड़ा	रामकिशन रामकल्याण रामगोपाल रामप्रसाद पिता चितरलाल पुष्पा बाई पुत्री चितरलाल केला बाई बेवा चितरलाल जाति मीणा
			524	0.08	चाही जाव	कालूलाल पिता हीरालाल जाति मीणा
			507	0.072	नाहरी 2	कालूलाल पिता हीरालाल जाति मीणा
			523	0.09	चाही 1	नाटीबाई ज्योजी रामकरण जाति मीणा
			521	0.0608	चाही 1 जाव	धिसी बाई पुत्री भैरूलाल जाति मीणा
			505	0.04	बीड	धिसी बाई पुत्री भैरूलाल जाति मीणा
			516	0.0016	चाही जाव 1	बद्रीलाल पिता टुंडा मीणा निवासी रासखेरा
			515	0.0003	चाही 1	बद्रीलाल पिता टुंडा मीणा निवासी रासखेरा
			517	0.016	चाही 1	नन्दकिशोर पिता गोपीलाल जाति मीणा
			509	0.064	नाहरी 2	नन्दकिशोर पिता गोपीलाल जाति मीणा
			211	0.765	माल 1	नन्दकिशोर पिता गोपीलाल जाति मीणा

1	2	3	4	5	6	7
			514	0.0225	नाहरी	सिवाय चक
			513	0.016	चाही 1, जाव 1	मदनलाल जगन्नाथ और धाखा पुत्री जगन्नाथ 1/2 रामदयाल इत्यादि
			803	0.2625	माल 1	मदनलाल जगन्नाथ और धाखा पुत्री जगन्नाथ 1/2 रामदयाल इत्यादि
			506	0.032	बीड	मदनलाल जगन्नाथ और धाखा पुत्री जगन्नाथ 1/2 रामदयाल इत्यादि
			512	0.0528	चाही 1 जाव 1	मदनलाल पिता जगन्नाथी जाति मीणा
			502	0.1152	नाहरी 2	मदनलाल पिता जगन्नाथी जाति मीणा
			508	0.014	नाहरी 2	रामगोपाल पिता चितरलाल जाति मीणा
			504	0.0096	नाहरी 2	केदारलाल पिता मोतीलाल जाति मीणा
			500	0.0768	चाही 1 जाव 1	केदारलाल पिता मोतीलाल जाति मीणा
			492	0.19	चाही 1	केदारलाल पिता मोतीलाल जाति मीणा
			490	0.009	नाहरी 2	केदारलाल पिता मोतीलाल जाति मीणा
			501	0.036	नाहरी 2	जालीलाल पिता कान्हा 1/3 रामकन्या बेवा कान्हा 1/3 राधेश्याम इत्यादि
			491	0.0064	चाही 2 जाव 2	चोधमल पिता नागा जाति मीणा
			493	0.0048	चाही 2 जाव 2	चोधमल पिता नागा जाति मीणा
			494	0.0002	चाही 2 जाव 2	चोधमल पिता नागा जाति मीणा
			391	0.0384	रास्ता	सिवाय चक
			336	0.1288	बीड	गोबरीलाल पिता मांगीलाल जाति मीणा
			321	0.0192	माल 1	नाथुराम पिता करमालाल जाति खाटी
			167	0.0063	माल 1	नाथुराम पिता करमालाल जाति खाटी
			805	0.152	माल 1	नाथुराम पिता करमालाल जाति खाटी
			338	0.2176	माल 1	लाल सिंह पिता कंश सिंह जाति राजपुत
			339	1.044	नाहरी 1	लाल सिंह पिता कंश सिंह जाति राजपुत
			233	0.0032	माल 1	चितरलाल रामप्रसाद पिता प्रभुलाल गोधनीबाई संतोष बाई पुत्री प्रभुलाल जाति माली
			232	0.2976	माल 1	धन्नी बाई बेवा जातिराम और गोपाल/सोहनलाल रामेश्वर पिता जयराम जाति नाई
			231	0.027	माल 1	धन्नी बाई बेवा जातिराम और गोपाल/सोहनलाल रामेश्वर पिता जयराम जाति नाई
			229	0.1485	माल 1	धन्नी बाई बेवा जातिराम और गोपाल/सोहनलाल रामेश्वर पिता जयराम जाति नाई
			227	0.012	माल 1	मदनलाल सुरजमल नन्दकिशोर रामशरण पिता बट्टीलाल छोटीबाई बेवा बट्टीलाल जाति मीणा
			228	0.0768	माल 1	रामचन्द्र पिता हीरालाल जाति मीणा निवासी मुन्दला बिसौदी

1	2	3	4	5	6	7
			204	0.2688	माल 1	मदन मोहन पिता राम किशन जाति ब्राह्मण 1/3 गोविंद पिता रामबाबू 1/3 हरि मोहन इत्यादि
			184	0.022	रास्ता	सिवाय चक
			182	0.0864	नाली	सिवाय चक
			180	0.009	माल 1	छोटीबाई पत्नी बट्टीलाल रामशरण पिता बट्टीलाल जाति मीणा
			181	0.0936	माल 1	जयप्रकाश पिता सुरजमल जाति पंजाबी निवासी बारां
			183	0.0432	माल 1	जगन्नाथ रघुनाथ पिता मूलचंद 1/3 सत्यनारायण लक्ष्मीनारायण वृद्धीलाल पिता पुष्पा
			177	0.032	माल 1	जगन्नाथ पिता गोपाल जाति नाई
			802	0.198	माल 1	जगन्नाथ पिता गोपाल जाति नाई
			210	0.5568	माल 1	रामकल्याण पिता चितरलाल जाति मीणा
			176	0.0348	माल 1	सुरेन्द्र राजेन्द्र नरेन्द्र जानकीलाल योगेश राजेश
			164	0.016	माल 1	बट्टीलाल सुरजमल रामकिशन श्रवण धनराज पिता जगन्नाथ
			795	0.39	माल 1	राजेन्द्र कुमार पिता रामस्वरूप जाति महाजन
			807	0.012	माल 1	मुकेशचंद पिता नाथुराम जाति जंगीत
			154	0.24	सरकारी	सा. नि. वि.
		(2) हरीपुरा	1	0.08	नाली	सिवाय चक
			2	0.096	माल 1	ललीत कुमार पिता सुंदर लाल जाति महाजन
			7	0.0928	माल 1	ललीत कुमार पिता सुंदर लाल जाति महाजन
			3	0.608	गैर मु. सड़क	सा. नि. वि.
			39	0.0992	गैर मु. सड़क	सा. नि. वि.
			4	0.0032	गैर मु. रास्ता	सिवाय चक
			8	0.0992	माल 1	मंजु पत्नी महेश कुमार जाति महाजन निवासी बारां
			10	0.1248	माल 1	सिवाय चक
			11	0.1296	माल 1	रामचरण पिता देवलाल जाति गुसाय
			30	0.1056	माल 1	मंदिर
			31	0.1484	माल 1	मंदिर
			32	0.1536	माल 1	रामस्वरूप जुगलकिशोर पिता प्रभुलाल नाथ
			38	0.112	माल 1	छोटुलाल पिता भैरूलाल जाति मीणा
			37	0.0576	माल 1	गोगराज पिता गोरू जाति मीणा
			40	0.0048	गैर मु. रास्ता	सिवाय चक
			43	0.185	माल 1	रामहेट मुरारी जगदीश चतुर्भुज घुलीचंद ओमप्रकाश पिता प्रह्लाद जाति मीणा
			42	0.1024	माल 1	रामहेट मुरारी जगदीश चतुर्भुज घुलीचंद ओमप्रकाश पिता प्रह्लाद जाति मीणा छोटुलाल पिता भैरूलाल मीणा
			44	0.0988	माल 1	सुरज बेटी जीवन जाति मीणा
			45	0.0032	माल 1	भंवरी बेवा जाति नायक

1	2	3	4	5	6	7
		(3) फतेहपुर	186	0.0256	गैर मु. रास्ता	सिवाय चक
			188	0.0013	बंजर	सिवाय चक
			189	0.0048	बंजर	सिवाय चक
			433	0.0128	बंजर	सिवाय चक
			435	0.0096	बंजर	सिवाय चक
			1211	0.048	गैर मु. रास्ता	सिवाय चक
			1220	0.024	गैर मु. रास्ता	सिवाय चक
			1221	0.0192	गैर मु. रास्ता	सिवाय चक
			1222	0.03	गैर मु. रास्ता	सिवाय चक
			1223	0.0128	गैर मु. रास्ता	सिवाय चक
			1249	0.0003	गैर मु. रास्ता	सिवाय चक
			556	0.0144	चारागाह	चारागाह
			555	0.032	चारागाह	चारागाह
			432	0.0064	गैर मु. रास्ता	सा. नि. वि.
			933	0.0672	गैर मु. रास्ता	सा. नि. वि.
			197	0.024	गैर मु. खनिज	सिंचाई विभाग
			203	0.032	गैर मु. खनिज	सिंचाई विभाग
			207	0.0096	गैर मु. खनिज	सिंचाई विभाग
			212	0.0544	गैर मु. खनिज	सिंचाई विभाग
			1206	0.016	गैर मु. खनिज	सिंचाई विभाग
			1202	0.24	गैर मु. खनिज	सिंचाई विभाग
			1251	0.0192	गैर मु. खनिज	सिंचाई विभाग
			723	0.04	गैर मु. खनिज	सिंचाई विभाग
			198	0.024	गैर मु. खनिज	सिंचाई विभाग
			199	0.0256	गैर मु. खनिज	सिंचाई विभाग
			202	0.064	गैर मु. खनिज	सिंचाई विभाग
			431	0.016	गैर मु. खनिज	सिंचाई विभाग
			987	0.352	गैर मु. खनिज	सिंचाई विभाग
			450	0.01	गैर मु. खनिज	सिंचाई विभाग
			449	0.048	नाहरी 2	मंगनीलाल, चाटेरा इत्यादि पिता नारायण
			448	0.4032	नाहरी 2	मंगनीलाल, चाटेरा इत्यादि पिता नारायण
			447	0.2016	नाहरी 2	मंगनीलाल, चाटेरा इत्यादि पिता नारायण
			446	0.088	नाहरी 2	मंगनीलाल, चाटेरा इत्यादि पिता नारायण
			445	0.0016	नाहरी 2	मंगनीलाल, चाटेरा इत्यादि पिता नारायण
			452	0.01	नाहरी 2	मंगनीलाल, चाटेरा इत्यादि पिता नारायण
			557	0.2544	नाहरी 1	कन्हैया लाल पिता बन्नीलाल
			443	0.0016	नाहरी 2	केशरीलाल पिता डालु
			444	0.03	नाहरी 2	केशरीलाल पिता डालु
			201	0.0656	नाहरी 2	केशरीलाल पिता डालु
			454	0.0128	नाहरी 2	सुरजमल, रामस्वरूप पिता गजानन
			440	0.2	नाहरी 1	मो. बसीर पिता नाथे साह
			441	0.16	नाहरी 2	मो. बसीर पिता नाथे साह
			436	0.144	नाहरी 2	प्रह्लाद रामेश्वर हजारीलाल, राम प्रसाद इत्यादि पिता चतुर्भुज
			437	0.144	नाहरी 2	प्रह्लाद रामेश्वर हजारीलाल, राम प्रसाद इत्यादि पिता चतुर्भुज
			438	0.288		भीमराज पिता राधेलाल
			434	0.0016		चटारा पिता पन्ना धाकड़

1	2	3	4	5	6	7
			934	0.032		रामस्वरूप पुरुषोत्तम बालमुकुंद खेमराज 1/3 रामजानकी पुत्री श्रीलाल 1/3 भेमराज पिता राधेलाल 1/3 जाति ब्राह्मण एनएन. 760,762
			935	0.032	नाहरी 1	सिवाय चक
			932	0.1728	नाहरी 1	राजेन्द्र जगमोहन पिता श्रवण
			147/ 2259	0.0336	नाहरी 2	मोहिनी बाई पत्नी नरमदेश्वर
			147	0.0032	नाहरी 2	मोहिनी बाई पत्नी नरमदेश्वर
			931	0.056	नाहरी 1	उमा देवी पत्नी राम प्रसाद
			931/ 2270	0.0672	नाहरी 1	प्रभुलाल पिता देवीलाल
			196	0.0272	नाहरी 1	नेमीचंद पिता भेरूलाल
			206	0.064	नाहरी 1	गांधीलाल पिता डालू
			137	0.224	नाहरी 2	कैलाशबाई बेवा बाबुलाल 1/3 रामनाथ रामप्रसाद पिता शंकर 2/3 जाति हरिजन
			211	0.048	नाहरी 1	किशन बाई इत्यादि पत्नी मोती सिंह
			208	0.0048	नाहरी 1	किशन बाई इत्यादि पत्नी मोती सिंह
			213	0.0016	नाहरी 1	किशन बाई इत्यादि पत्नी मोती सिंह
			976	0.064	नाहरी 2	कन्हैयालाल इत्यादि पिता गांधी लाल
			1210	0.1056	नाहरी 1	ओंकार गजानन गणेश पिता मथुरा
			1205	0.008	नाहरी 1	खेम राज पिता चतुर्भुज
			1204	0.0704	नाहरी 1	जगदीश, भवानी शंकर पिता चन्दा
			1219	0.2784	नाहरी 1	जगदीश, भवानी शंकर पिता चन्दा
			1201	0.016	नाहरी 1	जगदीश पिता मगनलाल
			992	0.016	नाहरी 1	जगदीश पिता मगनलाल
			1212	0.024	नाहरी 1	मथुरा पिता काजोल
			980	0.144	नाहरी 2	सीता देवी पत्नी धन्नालाल
			988	0.0448	नाहरी 2	सीता देवी पत्नी धन्नालाल
			979	0.0096	नाहरी 2	सीता देवी पत्नी धन्नालाल
			981	0.0016	नाहरी 2	सीता देवी पत्नी धन्नालाल
			991	0.0256	नाहरी 1	सीता देवी पत्नी धन्नालाल
			989	0.0006	नाहरी 1	सीता देवी पत्नी धन्नालाल
			1240	0.0288	नाहरी 1	मथुरालाल रामप्रसाद पिता जानकीलाल कस्तुरी बाई पुत्री मन्नी बाई बेवा जानकीलाल धाकड़ निवासी सम्बलपुर
			1241	0.16	नाहरी 1	मथुरा राम प्रसाद पिता जानकी
			1243	0.096	नाहरी 1	रतनलाल गजानन पिता चम्पालाल केसर बेवा चम्पालाल जाति धाकड़ निवासी सम्बलपुर
			1242	0.304	नाहरी 1	सीमा पत्नी विजय शर्मा
			1247	0.3168	नाहरी 1	सीमा पत्नी विजय शर्मा
			1203	0.1024	नाहरी 1	बालमुकुंद पिता चतुर्भुज
			1207	0.0736	नाहरी 1	प्रभुलाल पिता मांगीलाल
			1208	0.0128	नाहरी 1	प्रभु दयाल पिता चितरलाल
			970	0.152	नाहरी 1	बजरंग लाल इत्यादि पिता जगन्नाथ
			969	0.0003	नाहरी 1	बजरंग लाल इत्यादि पिता जगन्नाथ
			1248	0.2752	नाहरी 1	हरि मोहन पिता रामकिशन
			1250	0.1152	नाहरी 1	हंसराज पिता कालू प्रसाद
			997	0.0512	नाहरी 1	शिव नारायण पिता सुखलाल
			998	0.032	नाहरी 1	शिव नारायण पिता सुखलाल

1	2	3	4	5	6	7
			999	0.112	नाहरी 1	शिव नारायण पिता सुखलाल
			971	0.072	नाहरी 1	रामकरण पिता सुखलाल
			972	0.064	नाहरी 1	रामकरण पिता सुखलाल
			973	0.112	नाहरी 1	रामकरण पिता सुखलाल
			937	0.2112	नाहरी 1	मोहनलाल, गोवर्द्धन पिता माघो
			938	0.192	नाहरी 1	मोहनलाल, गोवर्द्धन पिता माघो
			941	0.0128	नाहरी 1	राम प्रसाद पिता डुली चंद
			949	0.432	नाहरी 1	लक्ष्मण, मांग्या पिता हीरा
			955	0.0256	नाहरी 1	लक्ष्मण, मांग्या पिता हीरा
			954	0.0006	नाहरी 1	भैरूलाल चेतन सिंह चरण सिंह पिता लक्ष्मण मोहनीबाई पिता लक्ष्मण 1/8 और रामभरोस पापु पिता मांग्या गुडी बाई पुत्री मांग्या 1/8 पासा गंगा 3/4 जाति जाटव
			977	0.0384	नाहरी 2	मांगीलाल पिता चिरमोली
			948	0.18	नाहरी 1	मांगीलाल पिता चिरमोली
			978	0.0544	नाहरी 2	मांगीलाल पिता लक्ष्मण
			982	0.08	नाहरी 2	मांगीलाल पिता लक्ष्मण
			1195	0.032	नाहरी 1	रोधेश्याम पिता नाथुलाल
			983	0.18	नाहरी 2	रामकरण बाई पत्नी शिव नारायण
			950	0.0128	नाहरी 1	हेमराज, दौलत राम पिता बाल्या
			1000	0.128	नाहरी 1	रामबीर कुमार किशोर पिता हेमराज
			200	0.0128	नाहरी 1	सुरजमल, महावीर सा. नि. वि.
		(4) चाँदपुर	14	0.08	गैर मु. सड़क	सा. नि. वि.
			18	0.0192	गैर मु. सड़क	सा. नि. वि.
		(5) संबलपुर	19	0.0352	आबादी	ग्राम पंचायत सम्बलपुर
			28	0.248	आबादी	राधेकिशन पिता मांगीलाल गुर्जर 60 सेक्ट. मीटर काका रूम ग्राम पंचायत खेल 25 सेक्ट. मीटर पक्की
			34	0.056	गैर मु. आबादी	ग्राम पंचायत सम्बलपुर
			31	0.008	बीड	धन्ना पिता धुलिया
			32	0.008	नाहरी 2	धन्ना पिता धुलिया
			39	0.0224	रास्ता	सिवाय चक
			40	0.1056	आबादी	ग्राम पंचायत सम्बलपुर
			358	0.4112	नाहरी 2	सा. नि. वि. श्री ठाकुर जी मंदिर भूमि
			288	0.0008	नाहरी 2	भंवरलाल पिता खाना
			293	0.008	नाहरी 2	भंवरलाल, गजनलाल पिता खाना
			366	0.0608	नाहरी 2	प्रसादीलाल पिता नरोत्तम लाल जाति बालाई निवासी पेहेला जाति कलाल जिला सियोपुर म. प्र.
			359	0.2448	नाहरी 2	गजानन्द पिता मथुरालाल
			280	0.2496	नाहरी 2	रामकिशन पिता गियासी 1/2 गोर्द्धन पिता मदन 1/2
			281	0.2688	नाहरी 2	नैनगा पिता कालिया
			282	0.1792	नाहरी 2	नैनगा पिता कालिया
			283	0.3296	नाहरी 2	नैनगा पिता कालिया

1	2	3	4	5	6	7
			284	0.0384	गैर मु. रास्ता	गणेशीलाल रतनलाल बाबु पिता कान्हा राधाबाई शांतिबाई पुत्री कान्हा 1/4 गंगाराम बाबुलाल पिता नाथ्या दाखाबाई पुत्री नाथ्या 1/4 हरिराम मनोज राधेश्याम पिता रामनाथ केला बाई सयुदाबाई पुत्री रामनाथ रामप्यारी बेवा रामनाथ 1/4 धना पिता गोरु जाति शहर
			285	0.3072	बारानी 2	गणेशीलाल रतनलाल बाबु पिता कान्हा राधाबाई शांतिबाई पुत्री कान्हा 1/4 गंगाराम बाबुलाल पिता नाथ्या दाखाबाई पुत्री नाथ्या 1/4 हरिराम मनोज राधेश्याम पिता रामनाथ केला बाई सयुदाबाई पुत्री रामनाथ रामप्यारी बेवा रामनाथ 1/4 धना पिता गोरु जाति शहर
			276	0.0928	गैर मु. नाहर	सिवाय चक
			287	0.0112	गैर मु. रास्ता	सिवाय चक
			36	0.0224	गैर मु. रास्ता	सिवाय चक
			41	0.7264	आबादी	सिवाय चक
			367	0.0432	चारागाह	ग्राम पंचायत सम्बलपुर
			367/ 464	0.0064	चारागाह	ग्राम पंचायत सम्बलपुर
			327	0.1344	चारागाह	ग्राम पंचायत सम्बलपुर
			328	0.096	चारागाह	ग्राम पंचायत सम्बलपुर
			33	0.0032	चारागाह	ग्राम पंचायत सम्बलपुर
			333	0.9216	नाहरी 1	बालमुकुंद पिता रामनारायण जाति धाकड़
			342	0.2976	नाहरी 1	चितर पिता रामनारायण जाति धाकड़
			324	0.4608	नाहरी 1	जोधराज पिता हीरालाल 2/3 सुरेश पिता हीरालाल 1/6 डेरु विधवा हीरा लाल 1/6
		(6) कल्याणपुर घाटा	238	0.096	गैर मु. नाहर	सा. नि. वि.
			257	0.1024	नाहरी 2	पवन कुमार मदन मोहन
			261	0.0672	नाहरी 2	मांगीलाल, रामवरण पिता हत्या
			259/321	0.1408	बारानी 2	रमेश चंद्र पिता विट्ठल 1/2, द्रोपदी पत्नी रिपुसदन भैरव दत्त पिता पिपुसदन, काली बाई पुत्री रिपुसदन लीला बाई पुत्री रिपुसदन 1/2
			276	0.0032	नाहरी 2	रमेश चंद्र पिता विट्ठल 1/2, द्रोपदी पत्नी रिपुसदन भैरव दत्त पिता पिपुसदन, काली बाई पुत्री रिपुसदन लीला बाई पुत्री रिपुसदन 1/2
			277	0.208	बारानी 2	रमेश चंद्र पिता विट्ठल 1/2, द्रोपदी पत्नी रिपुसदन भैरव दत्त पिता पिपुसदन, काली बाई पुत्री रिपुसदन लीला बाई पुत्री रिपुसदन 1/2
			279	0.0032	बारानी 2	जगन्नाथ पिता सुभक्श
			237	0.128	नाहरी 2	रामकिशन पिता मांगीलाल
			255/ 311	0.8064	नाहरी 2	रामकिशन पिता मांगीलाल
			255	0.464	नाहरी 2	रामकिशन पिता मांगीलाल
			257/ 310	0.0384	नाहरी 2	रामकिशन पिता मांगीलाल

1	2	3	4	5	6	7
			256	0.3456	नाहरी 2	लक्ष्मी बाई पुत्री मोतीलाल
3	किशनगंज	(1) रानी बड़ोद	414/859	0.512	बारानी सी.	मोहन मेघदुत दयाराम प्रेमराज नारायण रामूर्थी गीता पुत्री नारायण गायत्री बेवा नारायण जाति माली रानीबड़ोद
			769	0.0768	गैर मु. रास्ता	राजस्थान सरकार
			387	0.5248	बारानी सी.	जगमोहन पिता श्रवणलाल जाति जाटव निवासी फतेहपुर
			392	0.0384	खाली.	राजस्थान सरकार
			404	0.576	बारानी सी.	विनोद भैरी पुनत भैरी कुंजबिहारी ब्रिजबहारी प्रभन विट्ठल बिहारी चन्द्रावती प्रकाश वादी ज्ञानवटी सतीशवटी दयावटी लीलावती ममता प्रधान कृतज्ञ देवी बेवा विट्ठल बिहारी जाति कायस्थ निवासी किशनगंज.
			418	0.416	बारानी सी.	माफी पीर साहबाद बसीर नजीर वजीर गुल मुहम्मद पिता नुरिया गोबरी बाई बेवा नुरिया 1/3 चांद पिता रामजानी 1/3 केशव पिता प्रिया 1/3 जाति मुस्लिम
			412	0.112	बारानी सी.	चन्द्रकला गुडडी पुत्री फूलीलाल चोटीबाई बेवा मूलीलाल जाति रानीबड़ोद
			366	0.384	गैर मु. सड़क	सा. नि. व.
			766	0.0128	नाहरी 2	रामस्वरूप पिता सुरजमल जाति गुजर
			657/886	0.096	बारानी 2	मांगीलाल पिता नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण
			659	0.4416	बारानी 2	प्रभुलाल पिता सुखलाल माली निवासी रानी बड़ोद
			659/1	0.128	बारानी 2	चगनलाल पिता सुखलाल माली निवासी रानीबड़ोद
			660	0.192	नाहरी 2	राजस्थान सरकार
			671	0.384	बारानी सी.	लियाकत अली सरीफ पिता बाबु खां मैरीयम मूली पुत्री बाबु खां 1/2 अब्दुल वसीद पिता असरफ अली 1/2 जाति मुस्लिम निवासी किशनगंज
			666	0.48	बारानी सी.	धिसी बाई जोजे प्यार मो. मुस्लिम रानीबड़ोद
			662	0.1056	बारानी सी.	मांगीलाल रामचरण श्रवण कुमार नन्दकिशोर नन्दकिशोर जगदीश प्रभुलाल जाति कुम्हार निवासी किशनगंज
			662/843	0.0448	बारानी सी.	चितरलाल नामीचंद ओमप्रकाश पिता जमनालाल 5/6 मांगीबाई बेवा जमनालाल 1/6 जाति लुहार किशनगंज
			762	0.6176	बारानी सी.	रामकरण धनराज संजय प्रभा सीताराम 5/6 प्रभा बाई बेवा सीताराम गुर्जर 1/6 निवासी रानीबड़ोद
			766/869	0.1056	बारानी सी.	कैलाश बाई पत्नी प्रभुलाल गुर्जर
			760	0.048	नाला	राजस्थान सरकार

1	2	3	4	5	6	7
			774	0.544	बारानी सी.	रामकरण धनराज संजय प्रभा सीताराम 5/6 प्रभा बाई बेवा सीताराम गुर्जर 1/6 निवासी रानीबड़ोद
			775	0.0096	गैर मु. चाह.	रामकरण धनराज संजय प्रभा सीताराम 5/6 प्रभा बाई बेवा सीताराम गुर्जर 1/6 निवासी रानीबड़ोद
			776	0.0448	नाहर	सिंचाई विभाग
			777	0.256	बारानी सी.	गिरिजा बाई पत्नी रमेशचंद ब्राह्मण रानीबड़ोद
			771	0.0032	बारानी सी.	रामकरण धनराज संजय प्रभा सीताराम 5/6 प्रभा बाई बेवा सीताराम गुर्जर 1/6 निवासी रानीबड़ोद
			778/809	0.24	बारानी सी.	गिरिजा बाई पत्नी रमेशचंद ब्राह्मण रानीबड़ोद
			788	0.32	पत्थर	राजस्थान सरकार
		(2) किशनगंज	779	0.0144	चाही 1	मनोहर पिता गोवर्द्धन जाति धाकड़
			1428	0.0003	गैर मु. चाह.	रमेशचंद पिता कल्याणमल जाति ब्राह्मण
			1432	0.192	बारानी सी.	रमेशचंद पिता कल्याणमल जाति ब्राह्मण
			546	0.8576	बारानी सी.	त्रिलोकचंद पिता बंसीलाल जाति कलाल
			1380	0.1408	बारानी सी.	कृष्णमुरारी पिता धन्नालाल कान्ति बाई मधुबाई नातीबाई द्वारका बाई पुत्री धन्नालाल 1/4 रमेशचंद पिता प्रभुलाल 1/4 भैरूलाल कालूलाल बंसीलाल पिता हीरालाल डालीबाई वृद्धी बाई पुत्री हीरालाल 5/12 देवीशंकर महावीर चंद्रप्रकाश हंसराज पिता जगदीश राजेश बाई पुत्री कैलाशबाई बेवा जगदीश 1/12 जाति धाकड़
			1444	0.032	बारानी सी.	जगदीश तेत्या पिता हीरा बादाम शांति छोटा पुत्री हीरा पांची बेवा 5/6 शंकर तोलाराम जगराज पिता नारायण केसर पुत्री नारायण रामनाथी बेवा नारायण 1/6 जाति शहरिया
			1447	0.3565	बारानी सी.	किशनलाल पिता रामचरण जाति चमार निवासी इकलेरा
			562	0.4928	बारानी सी.	ब्रिजमोहन पिता मांगया जाति गुर्जर
			562/1	0.0162	बारानी सी.	हीरालाल पिता मांगया जाति गुर्जर
			545/1535	0.16	बारानी सी.	देवलाल गजानंद पिता रामचंद्र जाति धाकड़ निवासी बासथुनी
			565	0.0081	गैर मु. चाह.	चन्दालाल भवानीशंकर गणेश भूलीबाई गणेश 1/3 भंवरीया पिता मांगया 1/3 चोटुलाल बलराम पिता बजरंग जाति धाकड़

1	2	3	4	5	6	7
			629	0.448	चाही सी.	तुलसीराम पिता किशना चीता द्वारका शांति अंशु पुत्री खाना 5/7 बाबुलाल सत्यनारायण रामस्वरूप राधेश्याम पिता हीरालाल बंशी जानकी चांदी पुत्री हीरालाल अमीरीबाई बेवा हीरालाल 1/7 धनश्याम 1/7 राधेश्याम पिता धन्नालाल धिरीबाई बेवा धन्नालाल 4/7 जाति धाकड़
			571	0.0162	बारानी 1	मूलचंद पिता गजानंद जाति धाकड़
			787/1	0.2976	माल सी.	नाथुलाल कन्हैयालाल हजरज घूलीचंद पिता ज्ञानराम जाति धाकड़
			715/1533	0.128	माल सी.	नन्दकिशोर जानकीलाल रूपनारायण नारायण लाल जगदीश प्रसाद पिता भैरूलाल गुलाब बाई भैरूलाल धाकड़
			787/2	0.128	माल सी.	नन्दकिशोर जानकीलाल रूपनारायण नारायण लाल जगदीश प्रसाद पिता भैरूलाल गुलाब बाई भैरूलाल धाकड़
			787/1542	0.0162	माल सी.	नन्दकिशोर जानकीलाल रूपनारायण नारायण लाल जगदीश प्रसाद पिता भैरूलाल गुलाब बाई भैरूलाल धाकड़
			1449/1	0.1134	गैर मु. जंगल	सिवाय चक
			1399	0.256	नाला	सिवाय चक
			1443	0.0646	नाला	सिवाय चक
			1457/1	0.0324	गैर मु. जंगल	सिवाय चक
			1449	1.0248	गैर मु. जंगल	वन विभाग
			1453	0.608	गैर मु. जंगल	वन विभाग
			1457	0.16	गैर मु. जंगल	वन विभाग
			786	0.0324	गैर मु.चाह.	नाथुलाल कन्हैयालाल हमराज पिता गंगाराम 1/2 भंवरलाल पिता बलदेव 1/2 जाति धाकड़
		(3) हीरापुर	397	0.2025	वन	वन विभाग
			401	0.5834	वन	वन विभाग
			421	0.0842	बारानी 2	अब्बदुल गनी पिता लाल खान जाति मुसलमान
			421/1	0.032	बारानी 2	निसार अहमद पिता लाल खां जाति मुस्लिम
			425	0.079	बारानी 2	हमीद वहीद गफर पिता मूनर खां फकरु एनबी. पिता फरयाद एनबी. वाली हमीद सलीम कालू खां पिता सकूर सबू बेवा सकूर जाति मुस्लिम
			426	0.1377	बारानी 2	हमीद वहीद गफर पिता मूनर खां फकरु एनबी. पिता फरयाद एनबी. वाली हमीद सलीम कालू खां पिता सकूर सबू बेवा सकूर जाति मुस्लिम
			427	0.1134	बारानी 2	अजीद रसीद पिता अधो बेवा अमादू जाति मुसलमान रसीद एन.बी. वाली माता
			428	0.0324	बारानी 2	गुल मुहम्मद पिता छोटे खां जाति मुसलमान

1	2	3	4	5	6	7
		(4) बौसथुनी	169	0.064	चारागाह	चारागाह
			170	0.048	बारानी 3	विमला देवी पत्नी मदनलाल जाति धोबी निवासी किशनगंज
			171	0.0256	बारानी 3	रमेश पिता भेरूलाल जाति लाधा निवासी झालावार
			172	0.024	बारानी 3	रमेश पिता भेरूलाल जाति लाधा निवासी झालावार
			173	0.0128	बारानी 3	सुल्तान खां पिता वजीर खां जाति मुस्लिम निवासी हीरापुर
			174	0.1206	बारानी 3	सुल्तान खां पिता वजीर खां जाति मुस्लिम निवासी हीरापुर
			179/640	0.0064	बारानी 3	नाटुलाल पिता मदन नाथ 1/4 बाबूलाल जोधराज पिता मदननाथ 3/4 जाति नाथ
			180	0.032	बारानी 3	प्रभुलाल पिता खाना 1/4 गजानंद रामकिशन पिता धासी 2/6 संकरिया कल्याण पिता देवा 1/6 धनश्याम जगदीश पिता तुनडीया कमलाबाई बेवा टुंडिया 1/8 जानकीलाल एनबी. पिता गोपाल एनबी. कलाबाई 1/24 कालूलाल पिता कंचन बाई बेवा मथुरा 1/24 जाति शहरिया निवासी हीरापुर
			182	0.016	बारानी 3	सुल्तान खां पिता वजीर खां जाति मुस्लिम निवासी हीरापुर
			185	0.0064	रास्ता	सिवाय चक
			186	0.048	बारानी 3	पाना रमेश पिता रामनाथ जाति सहरिया निवासी हीरापुर
			187	0.0192	नदी	सिवाय चक
			188	0.0288	वन	वन विभाग
			190	0.0336	बारानी 3	देवलाल गोपाल अमरलाल रामकुंवर पंचा कान्हा पिता गोकुली गोमदी पुत्री गोकुल चोकोली बाई बेवा गोकुल 1/2 नागा पिता टुंडा 1/2 जाति गुर्जर
			192	0.0144	नदी	सिवाय चक
			195	0.1312	बारानी 3	गोपाल मोरिया पिता नारायण 2/3 गिरिराज रामलाल बालिग पप्पु एनबी. पिता कालु कल्यानी बेवा कालू 1/3 जाति सहरिया
			199	0.208	बारानी 3	नाटुलाल पिता धन्नालाल जमना बाई धन्नालाल जाति सहरिया
			194	0.1104	बारानी 3	नागा पिता टुंडा जाति गुर्जर
			44	0.0972	बारानी 3	देवलाल प्रभु मोती गंगाराम बिसना पिता पंचायना जाति सहरिया निवासी हीरापुर
			44/644	0.081	बारानी 3	शंकरजी जोजे पंचायना जाति सहरिया
			46	0.0972	बारानी 3	धूलीलाल पिता ग्यारसीराम 1/2 रामचंद्र पन्नालाल पिता गंध्या 1/2
			47	0.1215	बारानी 3	लीलाबाई पुत्री रामकल्याण जाति ब्राह्मण निवासी किशनगंज

1	2	3	4	5	6	7
			48	0.1134	बारानी 3	मोहनीबाई पुत्री गोरिया जाति सहरिया निवासी बरखेड़ा
			50	0.0648	बारानी 3	नाथुलाल पिता काजोड़ पुनिया एनबी. पिता बाबु जाहायना बेवा एनबी. पप्पु पिता कल्याण 1/4 जानकीलाल श्रवण रामदयाल राजेन्द्र पिता सहरिया डूली बेवा सरिया 1/4 जाति सहरिया
			51	0.0162	बारानी 3	महाराज अनवर पिता नईमुदीन निवासी भिस्ती पाड़ा कोटा मो. नटीन पिता मो. अली निवासी फूल भैरी मंदिर पाटन पोल कोटा जाति मुस्लिम
			52	0.0567	बारानी 3	शंकरजी पुत्री कालीया जाति सहरिया
			54	0.0648	बारानी 3	बाबुलाल ग्यारसीराम पप्पु एनबी. पिता श्रवण गुड्डी पुत्री एनबी. कमलाबाई बेवा श्रवण जाति हरिजन
			93	0.0034	सड़क	वन विभाग
			95	0.032	खड़ा	सा.नि.व.
			96	0.08	सड़क	सा.नि.व.
			97	0.048	सड़क	सा.नि.व.
			98	0.0567	चट्टान	सिवाय चक
			99	0.0368	सड़क	सा.नि.व.
		(5) फलदी	33	0.194	गैर मु. बरदा	सिवाय चक
		(6) रामपुरिया	26	0.0736	वन	वन
			27	0.016	वन	वन
			61	0.0816	वन	वन
			68	0.07104	चारागाह	चारागाह
			29	0.0304	बंजर 2	बंजर 2
			58/2	0.032	खेरा 2	खेरा 2
			15	0.0567	आबादी	आबादी
			12	0.08	आबादी	आबादी
			3	0.4051	वन	वन
			5	0.0162	आबादी	आबादी
		(7) कापड़ी खेड़ा	36	0.0321	नाहरी बीड	राम सिंह पिता नंद सिंह जाति जाट कापरीखेरा 5/6 महेन्द्र सिंह पिता महेन्द्र सिंह जाति सीख जाट 1/6
			41	0.1164	नाहरी बीड	रघुवीर सिंह पिता नन्दू सिंह जाति जाट निवासी कापरीखेड़ा
		(8) भँवरगढ़	922	0.16	एन. बी. 1	भँवरलाल पिता श्रीलाल जाति जाट
			923	0.1152	एन. बी. 1	राजनराम पिता नन्दकिशोर जाति जाट
			924	0.1088	एन. बी. 1	मनोज कुमार पिता शंकर सिंह जाति जाट
			925	0.064	एन. बी. 1	इंद्रा बाई पत्नी ब्रिजमोहन जाति जाट
			933	0.0576	गैर मु. रास्ता	सिवाय चक
			934	0.0096	एन. बी. 1	रमेश चंद पिता बदरी लाल जाति ब्राह्मण
			937	0.0992	एन. बी. 1	रमेश चंद पिता बदरी लाल जाति ब्राह्मण
			935	0.0672	एन. बी. 1	राधेश्याम पिता हरिगोविंद जाति जाट
			152	0.208	एन. बी. 1	राधेश्याम पिता हरिगोविंद जाति जाट

1	2	3	4	5	6	7
			936	0.1024	एन. बी. 1	अमरलाल मुतबन्ना थकोलिया जाति धाकड़
			938	0.144	एन. बी. 1	अब्बदुल सफी अब्बदुल गफुर पिता पीर खां फेबरा पिता नूर खां बाबू पिता मोर खां मैरियम जुमी पुत्री मोरखां इबरा अब्बदुल वहीद अब्बदुल सकूर 1/2 असगर अली 2/2 जीगमन खां जाति मुस्लिम
			939	0.448	एन. बी. 1	महेन्द्र कुमार पिता भवानीराम जाति जाटव
			940	0.128	एन. बी. 1	चतुर्भुज पिता जगन्नाथ जाति जाट
			941	0.112	एन. बी. 2	चतुर्भुज पिता जगन्नाथ जाति जाट
			942	0.08	एन. बी. 1	चतुर्भुज पिता जगन्नाथ जाति जाट
			947	0.0384	गैर मु. नाहर	सिवाय चक
			909	0.1568	एन. बी. 1	मदनलाल दुर्गालाल पिता गोवर्द्धन 2/3 देवीलाल पिता लालू 1/2 जाति धाकड़
			910	0.1536	एन. बी. 1	ओमप्रकाश पिता देवलाल 1/2 शंकर पिता खेमचंद 1/2 जाति धाकड़
			911	0.1024	एन. बी. 1	पुरुषोत्तम पिता हरिबल्लभ 1/6 मदनगोपाल 1/6 पिता चम्पालाल 1/6 हरिशचंद पिता किशन गोपाल 1/6 गजोन्द्र महेन्द्र मोहन पिता गजेन्द्र नारायण निवासी बारां 1/3 उर्मिला पत्नी चितरलाल निवासी जलवारा 1/2 सांसी पत्नी चन्द्र प्रकाश निवासी बारां 1/2 भगवती बाई गूनमालिया बेवा चंद्र नारायण 1/2 रविंद्र कुमार इंद्रेश कुमार पिता उमाशंकर बाई बेवा उमाशंकर जाति महाजन
			915	0.08	एन. बी. 1	पुरुषोत्तम पिता हरिबल्लभ 1/6 मदनगोपाल 1/6 पिता चम्पालाल 1/6 हरिशचंद पिता किशन गोपाल 1/6 गजोन्द्र महेन्द्र मोहन पिता गजेन्द्र नारायण निवासी बारां 1/3 उर्मिला पत्नी चितरलाल निवासी जलवारा 1/2 सांसी पत्नी चन्द्र प्रकाश निवासी बारां 1/2 भगवती बाई गूनमालिया बेवा चंद्र नारायण 1/2 रविंद्र कुमार इंद्रेश कुमार पिता उमाशंकर बाई बेवा उमाशंकर जाति महाजन

1	2	3	4	5	6	7
			191	0.144	एन. बी. 1	पुरुषोत्तम पिता हरिबल्लभ 1/6 मदनगोपाल 1/6 पिता चम्पालाल 1/6 हरिशचंद पिता किशन गोपाल 1/6 गजोन्द्र महेन्द्र मोहन पिता गजेन्द्र नारायण निवासी बारां 1/3 उर्मिला पत्नी चितरलाल निवासी जलवारा 1/2 सांसी पत्नी चन्द्र प्रकाश निवासी बारां 1/2 भगवती बाई गूनमालिया बेवा चंद्र नारायण 1/2 रविंद्र कुमार इंद्रेश कुमार पिता उमाशंकर बाई बेवा उमाशंकर जाति महाजन
			158	0.056	नाहरी बंजर	पुरुषोत्तम पिता हरिबल्लभ 1/6 मदनगोपाल 1/6 पिता चम्पालाल 1/6 हरिशचंद पिता किशन गोपाल 1/6 गजोन्द्र महेन्द्र मोहन पिता गजेन्द्र नारायण निवासी बारां 1/3 उर्मिला पत्नी चितरलाल निवासी जलवारा 1/2 सांसी पत्नी चन्द्र प्रकाश निवासी बारां 1/2 भगवती बाई गूनमालिया बेवा चंद्र नारायण 1/2 रविंद्र कुमार इंद्रेश कुमार पिता उमाशंकर बाई बेवा उमाशंकर जाति महाजन
			914	0.0864	एन. बी. 1	कालू पिता गोपाल जाति जाट मंदिर
			222	0.16	एन. बी. 1	कालू पिता गोपाल जाति जाट मंदिर
			224	0.192	एन. बी. 1	कालू पिता गोपाल जाति जाट मंदिर
			745	0.648	एन. बी. 1	चितरलाल पिता बालमुकुंद जाट ब्राह्मण
			746	0.68	एन. बी. 1	मोतीलाल पिता प्रभुलाल जाति खाकती
			708	0.0288	एन. बी. 1	दिनेश चंद पिता चतुर्भुज ब्रह्मण
			710	0.032	एन. बी. 1	सिवांय चक
			742	0.08	एन. बी. 1	सिवांय चक
			734	0.064	एन. बी. 1	सिवांय चक
			732	0.096	एन. बी. 1	सिवांय चक
			744	0.352	एन. बी. 1	चितर भागवती पिता नन्दा मोंगया पिता खाना 1/2 जाति धाकड़
			743	0.08	एन. बी. 1	चितर भागवती पिता नन्दा मोंगया पिता खाना 1/2 जाति धाकड़
			741	0.12	एन. बी. 1	मोतीलाल पिता भागचंद 1/2 रमेशचंद मांगीलाल लक्ष्मण/भोज्या धाखा पार्वती चमेली बेवा माधोलाल 1/2
			1205	0.0096	एन. बी. 1	मोतीलाल पिता भागचंद 1/2 रमेशचंद मांगीलाल लक्ष्मण/भोज्या धाखा पार्वती चमेली बेवा माधोलाल 1/2
			736	0.16	एन. बी. 1	मंदिर
			715	0.32	एन. बी. 1	मंदिर

1	2	3	4	5	6	7
			733	0.096	एन. बी. 1	हरिशचंद धनश्याम पिता हीरालाल नारानी बेवा हीरालाल 1/2 बालमुकुंद जानकीलाल कन्हैयालाल पिता मोतीलाल रामकन्या चम्पा काली पुत्री मोतीलाल बारटन बाई पिता गिरधारी रामकिशोर लक्ष्मण पिता जयराम दाखाबाई बेवा जयराम जयाजा पुत्री सरस्वती बेवा भदनलाल 1/2 जाति कोली
			731	0.0384	खंडी	एन.एच. -76
			135	0.0288	एन. बी. 1	मदनलाल कन्हैयालाल कादरलाल केशव पिता लाटोर जाति खाटी
			139	0.048	एन. बी. 1	मो. इस्लाम मो. इब्राहम मो. इसाक पिता शाजाद खां अजीजान बेवा साजाद खां जाति मुस्लिम
			140	0.064	एन. बी. 2	देवलाल पिता भैरूलाल जाति धाकड़
			726	0.436	एन. बी. 1	जोगेन्द्र कुमार अशोक कुमार हरिशचंद पिता भैरूलाल बालचंद बाई उर्मिला बाई गायत्री बाई पुत्री भैरूलाल जाति जाट
			727	0.16	एन. बी. 1	योगेन्द्र पिता भैरूलाल जाति जाट
			728	0.128	एन. बी. 1	योगेन्द्र पिता भैरूलाल जाति जाट
			719	0.0672	एन. बी. 1	सिवाय चक
			714	0.16	एन. बी. 1	सिवाय चक
			713	0.096	एन. बी. 1	सिवाय चक
			717	0.0128	एन. बी. 1	सिवाय चक
			718	0.1344	एन. बी. 1	उमाशंकर पिता बदरीलाल जाति ब्राह्मण
			720	0.0003	एन. बी. 1	उमाशंकर पिता बदरीलाल जाति ब्राह्मण
			716	0.128	एन. बी. 1	कालू अमरलाल छोटया पिता रामलाल बादलीबाई गुलाबबाई पुत्री रामलाल 1/2 बालकिशन अशोक पिता ताराचंद पुष्पाबाई बेवा ताराचंद 1/2 बलराम पिता भैरूलाल जाति धाकड़
			712	0.32	अ	हुकुमचंद ब्रिजमोहन पिता राजाराम जाति जाटव
			711	0.0013	एन. बी. 1	गणेश मोहन गुलाबचंद धनश्याम पिता मोतीलाल रेशमो बेवा मोतीलाल 1/2 गोविंदलाल पिता सुखलाल 1/2 जाति खाटी
			218	0.576	एन. बी. सी.	धीरेन्द्र पिता हरगोविंद जाति जाट
			201	0.364	एन. बी. सी.	बालमुकुंद पिता गोरिया जाति धाकड़
			1429	0.0256	एन. बी. सी.	बालमुकुंद पिता गोरिया जाति धाकड़
			214	0.16	एन. बी. सी.	कमला बाई पत्नी बालमुकुंद जाति धाकड़
			202	0.0208	एन. बी. सी.	मांगीलाल भगवानलाल पिता मंगला चंद्रकांता विमला नाटी बाई पुत्री सरदार बाई बेवा मंगला धाकड़
			196	0.256	एन. बी. सी.	सिवाय चक
			197	0.128	गैर मु. नाला	सिवाय चक
			200	0.48	बंजर	सिवाय चक

1	2	3	4	5	6	7
			190	0.0032	गैर मु.नाला	सिवाय चक
			1270	0.064	एन.बी.	सिवाय चक
			205	0.032	एन. बी. 2	बलराम पिता मैरु जाति धाकड़
			203	0.1066	एन. बी. 3	बलराम पिता मैरु जाति धाकड़
			192	0.048	एन. बी. सी.	हीरा पुत्री लक्ष्मीनारायण धाकड़
			176	0.192	एन. बी. सी.	हीरा पुत्री लक्ष्मीनारायण धाकड़
			188	0.016	एन. बी. सी.	मोहन बाबू देवा पिता कालू और पंचु राजू प्रह्लाद पिता गुडड़ी मीणा पुत्री बेपान बेवा प्रभु जाति हरिजन
			160	0.032	एन. बी. 3	सालाग्राम पिता आनंदी जाति जाट
			151	0.0064	नाहरी बंजर	सालाग्राम पिता आनंदी जाति जाट
			1409	0.0128	वन	वन विभाग
			1490	0.192	वन	वन विभाग
			1489	0.128	वन	वन विभाग
			1491	0.192	वन	वन विभाग
			1488	0.064	वन	वन विभाग
			1487	0.096	वन	वन विभाग
			1486	0.16	वन	वन विभाग
			1485	0.224	वन	वन विभाग
			66	0.256	वन	वन विभाग
			39	0.2885	वन	वन विभाग
			41	0.128	वन	वन विभाग
			43	0.144	वन	वन विभाग
			44	0.0672	वन	वन विभाग
			31	0.176	वन	वन विभाग
			30	0.16	वन	वन विभाग
			48	0.192	वन	वन विभाग
			49	0.224	वन	वन विभाग
			62	0.1568	वन	वन विभाग
			1497	0.32	वन	वन विभाग
			223	0.08	वन	वन विभाग
			234	0.096	वन	वन विभाग
			1495	0.0272	वन	वन विभाग
			1498	0.16	नाहरी बारानी	सिवाय चक
			1449	0.0096	बारानी चाह.	प्रेमनारायण पिता जमनालाल उर्मिला पुत्री जमनालाल अयोध्या बेवा जमनालाल 1/2 चतुर्भुज बाबुलाल रामचंद्र ओमप्रकाश पिता नंदा जानकी गुलाब गोमदा पुत्री नंदा और तुलसी बेवा नंदा 2/3 जाति धाकड़
			1451	0.064	बारानी चाह.	ब्रिजकिशोर पिता मथुरालाल जाति ब्राह्मण
			1448	0.0128	बारानी चाह.	रामनारायण पिता किशनलाल जाति धाकड़
			1457	0.0256	बारानी सी.	हरिओम पिता रामगोपाल जाति मीना निवासी रामपुरा भगतन मंगरील
			1459	0.0288	बारानी सी.	पप्पु पिता मोहनलाल जाति जंगल पटवा 1/2 पदमा बाई पत्नी सुरेन्द्र कुमार महाजन 1/2

1	2	3	4	5	6	7
			1464	0.0384	बारानी सी.	विद्या बाई पत्नी रामेश्वर प्रसाद 1/2 जाति मीना सोरकंद जाति मीणा सोरकंद कस्तुरी बाई पत्नी तेजा लाल जाति मीणा निवासी मीलाबास जिला डोसा
			1499	0.0176	बारानी सी.	पुसी पुत्री नरसा और डोली बेवा नरसा जाति सहरिया
			1506	0.032	बारानी सी.	मोहनलाल पिता बजरंग लाल और गोविंद लाल पुत्री पुनिया जाति सहरिया
			1526	0.0192	बारानी सी.	गुलाब बेवा गोबरिया कैलाश काली चेती उमीला पुत्री गोबरिया अहादिया वृद्धीलाल पिता गोबरी और द्रोपदी पुत्री गोबरी 1/2 सहरिया
			1538	0.0384	बारानी सी.	गुलाब बेवा गोबरिया कैलाश काली चेती उमीला पुत्री गोबरिया अहादिया वृद्धीलाल पिता गोबरी और द्रोपदी पुत्री गोबरी 1/2 सहरिया
			1527	0.0256	बारानी सी.	पन्नालाल पिता देवीराम जाति सहरिया
			1533	0.0224	बारानी सी.	ओमप्रकाश महावीर पिता देवीलाल जाति सहरिया
			1534	0.0128	बारानी सी.	धनश्याम बाबूलाल रामकुमार गजानन पिता द्वारका बाई फूलाबाई बेवा नाथु 1/2 ग्यारसा पिता चेतु पुनिया पुत्री चेतु 1/2 खेरा पत्नी पारसाया 1/2
			1539	0.096	चारागाह	ग्राम पंचायत भंवरगढ़
			1557	0.128	चारागाह	ग्राम पंचायत भंवरगढ़
			1537	0.736	गैर कृषि	सिवाय चक
			1570	0.048	बारानी सी.	भंवरगढ़ पिता बुद्धा जाति खाइ
			1956	0.0013	बारानी सी.	भंवर बाइ पत्नी तेजपाल सिंह जाति जाट
			1957	0.0013	तालाबी	भंवर बाइ पत्नी तेजपाल सिंह जाति जाट
			1955	0.0032	एन. बी. 1	अजुन सिंह पिता नन्दकिशोर जाति जाट
			1259	0.0576	एन. बी. 2	बालमुकुंद गणेश पिता केशीलाल और तुलसी बट्टी पुत्री केशीलाल और गोविंद बेवा केशवलाल जाति कांची
			1269	0.0768	एन. बी. 3	भैरी पिता रतना जाति जाट
			1274	0.1408	एन. बी. सी.	त्रिलोकचंद पिता कल्याण जाति जाट
			1351	0.176	एन. बी. 3	गुलाब बेवा गोबरिया कैलाश काली चेती उमीला पुत्री गोबरिया 1/2 अहादिया वृद्धीलाल पिता गोबरी और द्रोपदी पुत्री गोबरी बट्टीया/मांगीलाल पिता कमलाबाई बाचीबाई रतना 1/2 सहरिया

1	2	3	4	5	6	7
			1324	0.096	नाहरी बारानी 1	सुरेन्द्र विजय शम्भू पिता माना बेवा जोगेन्द्र चन्द्री बेवा बाबू भंवरलाल रंवीर पिता गोखन 1/2 रमेश हरिशचंद राम सिंह रामरतन पिता पुनिया सावित्री पुत्री पुनिया और जानकी बेवा पुनिया 1/2 जाति सहरिया
			206	0.0056	एन. बी. 2	धन्नालाल पिता नन्दलाल जाति धाकड़
			207	0.144	एन. बी. 32	प्रभुलाल धन्नालाल गणेशराम/कालू पिता नंदा मोगी बाइ/गंगा कमला बाइ लक्ष्मा बाई पुत्री नंदा और धाका बेवा जाति धाकड़
			1431	0.032	नाहरी चाह.	भैरू पिता वृद्धा विमला बाइ पुत्री रामनारायण धाकड़
			1432	0.032	बारानी चाह.	बलराम पिता देवा जाति धाकड़
			1316/1	0.0128	बारानी सी.	भंवरलाल रामवीर पिता गोवर्द्धन और सुरेन्द्र विजय शम्भू पिता माना बेवा जोगेन्द्र और चंद्री बेवा बाबू जाति सहरिया
			1316	0.096	बंजर	सिवाय चक
			198	0.064	बंजर	एन.एच.-76
			159	0.208	खंडी	एन.एच.
			193	0.192	खंडी	एन.एच.
			194	0.164	खंडी	एन.एच.
			1419	0.0512	गैर मु. आबादी	प्रभुलाल पिता घंसीलाल जाति धाकड़, कन्हैयालाल पिता शंकरलाल जाति धाकड़ का कब्जा, मुलचंद पिता देवीलाल जाति धाकड़ मकान और आबादी भूमि का पथा है, ब्रिजमोहन पिता किशनलाल जाति तेली मदन पिता मूलचंद जाति धाकड़, विनोद पिता मानाक चंद जाति महाजन, राम प्रसाद पिता बुधालाल जाति सहरिया
			1566	0.256	गैर मु. आबादी	रमेशचंद पिता रूपनारायण बैरागी
			1568	0.1312	गैर मु. आबादी	बालमुकुंद पिता गोरिया जाति धाकड़ निवासी भंवरगढ़, मोतीलाल आनंदीलाल मूलचंद धाकड़, आनंदीलाल पिता गोरिया जाति धाकड़, जगदीश पिता रामनारायण जाति धाकड़, बच्चू पिता मूलचंद जाति धाकड़, धनश्याम पिता जमुना लाल जाति कांची, उमाशंकर पिता रतनलाल ब्राह्मण, अमरलाल पिता गोपाल धाकड़
			1041	0.1728	नाहरी बारानी 1	हरिनारायण पिता हीरालाल जाति कांची
			1039	0.0014	नाहरी बारानी 1	भोजमल चितरलाल पिता धन्ना जाति धाकड़
			1042	0.1024	नाहरी बारानी 1	बालमुकुंद पिता गोरिया जाति धाकड़

1	2	3	4	5	6	7
			1043	0.0672	नाहरी बारानी 12	मूलचंद हीरालाल जाति धाकड़
			1195	0.08	नाहरी बारानी 2	चितर पिता माधो गुलाब माधो 1/2 गांदी नाटी सीता पुत्री रामचंद्र काली बेवा रामचंद्र 1/2 जाति धाकड़
			1197	0.0384	गैर मु. नाला	सिवाय चक
			1198	0.001	नाहरी बारान 2	देवलाल पिता भैरूलाल जाति धाकड़
			1249	0.0096	नाहरी बारानी 12	देवलाल पिता भैरूलाल जाति धाकड़
			1199	0.0006	गैर कृषि	सिवाय चक
			1200	0.0768	नाहरी बारानी 2	हरगोविंद बासी भैरु पिता लचीराम जाति धाकड़
			1201	0.192	नाहरी बारानी 2	राधाकृष्णा पिता मथुरालाल जाति खाथी
			1204	0.224	एन. बी. सी.	देवकिशन मदन पिता रामचन्द्र और शांति पुत्री रामचंद्र जाति कांची
			1206	0.0006	एन. बी. सी.	मोहनलाल पिता बजरंग पिता रामचंद्र और शांति पुत्री रामचंद्र जाति कांची
			1218	0.008	गैर मु. शमशान	सिवाय चक
			1256	0.006	नाहरी बारानी 2	मन्नालाल पिता हरलाल जाति कांची
			1266	0.0672	गैर मु. नाहल एन.बी.	सिवाय चक
			1268	0.0384	गैर मु. पहल एन. बी.	सिवाय चक
			1267	0.0096	नाहरी बारानी सी.	बालमुकुंद चितर पिता कान्हा 1/2 गोबरीलाल पिता भैरु और भूली सीता रुकमणी सुशीला पुत्री भैरु 1/2 जाति धाकड़
			1273	0.1536	नाहरी बारानी सी.	बालमुकुंद चितर पिता कान्हा 1/2 गोबरीलाल पिता भैरु और भूली सीता रुकमणी सुशीला पुत्री भैरु 1/2 जाति धाकड़
			1276	0.0064	निजी	बालमुकुंद चितर पिता कान्हा 1/2 गोबरीलाल पिता भैरु और भूली सीता रुकमणी सुशीला पुत्री भैरु 1/2 जाति धाकड़
			1323	0.064	नाहरी बारानी	बालमुकुंद चितर पिता कान्हा 1/2 गोबरीलाल पिता भैरु और भूली सीता रुकमणी सुशीला पुत्री भैरु 1/2 जाति धाकड़
			1275	0.0864	नाहरी बारानी 3	बालमुकुंद चितर पिता कान्हा 1/2 गोबरीलाल पिता भैरु और भूली सीता रुकमणी सुशीला पुत्री भैरु 1/2 जाति धाकड़
			1253	0.001	नाहरी बारानी 3	भैरी पिता रतनलाल जाति जाट

1	2	3	4	5	6	7
			1254	0.0064	नाहरी बारानी 3	भैरी पिता स्तनलाल जाति जाट
			1247	0.0064	नाहरी बी. सी.	कृष्णी बाई ज्योति बट्टी जाति कांची
			1250	0.0192	नाहर	सिवाय चक
			1251	0.0384	गैर कृषि	सिवाय चक
			1306	0.089	एन.बी.2	लक्ष्मीचंद पिता जगन्नाथ महाजन
			1307	0.032	नाहरी बा. सी.	लक्ष्मीचंद पिता जगन्नाथ महाजन
			1308	0.032	नाहरी बा. सी.	लक्ष्मीचंद पिता जगन्नाथ महाजन
			1310	0.008	बैग विला लगानी	लक्ष्मीचंद पिता जगन्नाथ महाजन
			1311	0.057	गैर मु. चाह.	लक्ष्मीचंद पिता जगन्नाथ महाजन
			1312	0.0384	नाहरी 3	लक्ष्मीचंद पिता जगन्नाथ महाजन
			1309	0.008	गैर कृषि	सिवाय चक
			1317	0.0128	एन. बी. सी.	ताराचंद पिता नारायण जाति ब्राह्मण
			1318	0.0006	एन.सी. 3	बजरंगलाल पिता श्रीलाल जमनाबाई बेवा श्रीलाल 2/3 मनोज पिता रामचरण साकुन बेवा रामचंद्र एनबी. बजरंग लाल 1/2
			1321	0.0064	एन.सी. 3	कालू पिता गोपाल जाति जाट
			1322	0.08	एन.सी. 1	बाबुलाल ओमप्रकाश मांगीलाल पिता श्रीलाल जाति जाट
			1325	0.0192	नाहरी बारानी 2	जानकीलाल पिता देवलाल शांति बाई पुत्री देवलाल 1/2 मूलचंद पिता जगन्नाथ 1/2 जाति धाकड़
			1320	0.0001	नाहरी बारानी 2	मोलिया पिता हीरालाल जाति धाकड़
			1326	0.0064	नाहरी बारानी 1	बलराम बलवीर रवीर प्रहलाद जाति जाट
			1954	0.048	नाहरी बारानी	सिवाय चक
			1567	0.024	एन.बी.	सिवाय चक
		(9) नयागांव उर्फ रामनगर	75/1	0.2	गैर मु. वन	वन विभाग
			85	0.24	वन	वन विभाग
			80/10	0.096	बारानी सी.	फूला जोली मंगल सिंह अहादी निवासी चिदालिया
			57/20	0.0608	बारानी सी.	जगन्नाथ पिता भंवर सहरिया निवासी पनावथा
			84	0.5856	गैर मु. वन	वन विभाग
4	शाहबाद	(1) पिनाबदा	102/314	0.84	बारानी 4	रतनु पिता बेका जाति नायक 1/2 चिदालिया करण सिंह कल्याण सिंह पुरण सिंह पिता पेमा जाति अबादी निवासी चिदालिया 1/2
			102/252	0.0224	बारानी सी.	अमर सिंह पिता गोकुल धाखे बेवा गोकुल जाति सहरिया

1	2	3	4	5	6	7
			103	0.008	बारानी 3	धनराज पिता कंवर कुंगार बेवा कंवरलाल और हीरालाल पिता गोमदा मुकुंदीलाल पिता किशोरी कुमार माध्वी रागो पुत्री किशोरी 1/3 नारायण पिता काला कस्तुरी बेवा काला 1/3 इंदर प्रसादी पिता भाजन कस्तुरी बेवा राजाना जाति सरिया 1/3 एन.एन.-327
			156	0.1152	बारानी 3	मजबुत सिंह पिता रूप सिंह जाति अबादी
			157	0.0768	बारानी 3	सुमित्रा बाई पत्नी जालान सिंह जाति अरादी
			158	0.1152	बारानी 3	गजराज सिंह नारायण सिंह पिता नन्दलाल जाति अरादी निवासी चिन्दालिया
			159	0.4832	बारानी 3	गरसीम सिंह संतोष सिंह पिता चंदन सिंह और पुरनकोर बेवा चंद्र सिंह सिख जाट निवासी कलवारा एनएन-267
			185	0.2688	गैर मु. नदी	नदी नाला
			138	0.0192	बंजर 2	बंजर
			155	0.192	बारानी 3	बच्चू सिंह पिता अर्जुन सिंह जाति ओदिया
			154	0.192	बारानी 3	कालाबाई पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति धाकड़
			118/318	0.1152	बारानी 4	मानसिंह मनीराम पिता ईश्वर दीप जाति अहादी निवासी पेंडवाना
			118/259	0.128	बारानी 4	किशनलाल श्रवण पिता छुटी और सुंदर बेवा चुटी जाति सहरिया
			144	0.064	बारानी 4	कान्हा पिता डान्गु जाति सहरिया के. एन. 296
			144/206	0.0736	बारानी 4	सुमित्रा बाई पत्नी जालान सिंह जाति अरादी
			144/207	0.0384	बारानी 3	डालू पिता गंसू जाति चमार
			144/208	0.0288	बारानी 3	हरिशंकर धनश्याम बालिग दरगाह बंडल सिंह हरिचरण पियूष बाबरिया पारुती बेवा बावरिया जाति अहादी
			143	0.024	बारानी 3	काला बाई पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति धानकिया
		(2) केलवाड़ा	443	0.0485	बारानी 4	बदरीलाल, चिरौजीलाल, हरिभाव पिता गजानंद कस्तुरी बाई बेवा गजानंद रामनारायण बुध प्रकाश पिता छोटेलाल जाति तेली
			445	0.0728	बारानी 4	निजबुनिया बेवा अब्दुल जब्बर और समीम बानो रबीना बानो रिजवान बानो पुत्री जाति अब्दुल हफीज मुस्लिम
			511	0.1056	बारानी 4	निजबुनिया बेवा अब्दुल जब्बर और समीम बानो रबीना बानो रिजवान बानो पुत्री जाति अब्दुल हफीज मुस्लिम
			512	0.0432	बारानी 4	माली मंदिर श्रीनाथ जी नाथुवारा
			514	0.0455	बारानी 4	

1	2	3	4	5	6	7
			575	0.835	एन. बी. सी.	ताज मो. कर्महलाई चांद मो. हयौद मो. पिता पुत्रान और खातून बेवा खुशी जाति मुस्लिम
			532	0.0202	बारानी 4	पुरबचंद पिता मोतीलाल जाति कलाल
			534	0.2041	बारानी 5	बालमुकुंद पिता चिंदु जाति तेली
			440	0.432	गैर मु. नाला	सिवाय चक
			536	0.0371	बारानी 4	बुघ प्रकाश अशादीलाल पिता छोटिया जाति सहरिया
			537	0.1856	बारानी 4	
			439	0.3867	बारानी 4	कंवरलाल पिता लदुर 1/2 मारिया पिता सावना और पिस्ता पिता मारिया 1/2 जाति सहरिया
			447	0.0566	बारानी 4	रघुनाथ, रमेश पिता जीवनलाल और रामपुरिया भगवती पुत्री गीता बेवा जीवनलाल 1/2 कन्हैयालाल कंवरलाल रामलाल लक्ष्मीनारायण धनश्याम पिता धाखा बाई बेवा लक्ष्मीचंद 1/2 जाति कोली
			502	0.0303	बारानी 4	सुनील कुमार पिता हीराचंद जाति खत्री
			501	0.512	बारानी 3	मंदिर श्री गोपाल जी
			538	0.032	गैर मु. नाला	सिवाय चक
			542	0.1821	बारानी 4	मानिकचंद, हरिबल्लभ, पुरबचंद पिता तुलसाबाई पुत्री मथुरी जाति तेली
		(3) उनी	149/2	0.0224	बारानी चाही कृषि	चतुर्भुज धासीलाल जाति तेली कलवारा
			148	0.0032	बारानी चाही कृषि	मानिकचंद शियालाल केवल प्रसाद अमृतलाल अशोक कुमार पिता गणपत भूरी बेवा गणपत तेली कलवारा
			145	0.112	बारानी चाही कृषि	सुच्या सिंह पिता करतार सिंह जाट सिख उनी
			151	0.0192	बारानी चाही कृषि	हरि सिंह पिता चुन्नी अहादी उनी
			154	0.0176	बारानी चाही कृषि	हरि सिंह पिता चुन्नी अहादी उनी
			133	0.0448	बारानी चाही कृषि	भगवान सिंह पिता देवीलाल जाति कोली
			153	0.0512	बारानी चाही कृषि	भगवान सिंह पिता देवीलाल जाति कोली
			142/393	0.24	बारानी चाही कृषि	श्रीलाल पिता किशोरी अहादी उनी
			142	0.1008	बारानी चाही कृषि	चारागाह
			272	0.0128	खेड़ा	सानी पिता टिका रामहिनाई देवीलाल दयाचंद 2/3 किराद निवासी उनी
			132	0.0002	बारानी चाही कृषि	हरि सिंह पिता चुन्नी अहादी उनी
			130	0.0003	गैर मु. आबादी	गैर मु. आबादी
			131	0.1824	गैर मु. नाला	गैर मु. आबादी

1	2	3	4	5	6	7
			117	0.0768	बंजर	सिवाय चक
			118	0.0032	गैर मु. रास्ता	सिवाय चक
			124	0.1632	वन	वन
			123	0.1344	बंजर	सिवाय चक
			280	0.24	बंजर 2	सिवाय चक
			119	0.096	बंजर 2	जालू पिता नाटु जाति सहरिया
			280/517	0.16	बारानी चाही कृषि	मनु पिता छोटी जाति चमार उनी
			280/516	0.1232	बारानी चाही कृषि	कुसुम देवी पिता राव सिंह जाट कलवारा
			280/518	0.24	बारानी चाही कृषि	रमेशचंद पिता मांगीलाल मेघवाल केलवारा
			279	0.16	गैर मु. तालाई	गैर मु. तालाई
			278	0.0096	गैर मु. तालाई	गैर मु. तालाई
			276	0.48	बंजर	सिवाय चक
			269	0.0752	बंजर	माफी श्री भैरुजी विराजमान
			268	0.0352	आबादी	अबादी
			267	0.04	आबादी	सिवाय चक
			266	0.0112	आबादी	गैर मु. रास्ता
			265	0.1056	बंजर	सिवाय चक
			264	0.0096	गैर मु. आबादी	गैर मु. अबादी
			263	0.0064	गैर मु. आबादी	सिवाय चक
			249	0.5088	बंजर	भाजना पिता रामधन जाति किराद
			169	0.4656	बारानी चाही कृषि	भाजना पिता रामधन जाति किराद
			168	0.024	बारानी चाही कृषि	कालुराम प्रेमचंद रामजीलाल पिता सुंदरलाल और बेवा काराई 1/2 किराद
			167	0.336	बारानी चाही कृषि	किशनलाल पिता दोलती जाति चमार
			160/1	0.1	बंजर	भाजना पिता रामधन जाति किराद
			270	0.08	बंजर	भाजना पिता रामधन जाति किराद
			169/1	0.288	बारानी चाही कृषि	भाजना पिता रामधन जाति किराद
			273	0.08	गैर मु. रास्ता	रास्ता
			158	0.0672	बारानी	फूलचंद पिता रामलाल तेली निवासी केलवारा
		(4) पहाड़ी	96	0.608	बंजर	सिवाय चक
			85	0.4544	बंजर	सिवाय चक
			94	0.0512	नाला	सिवाय चक
			86	0.64	बंजर	सिवाय चक
			86/462	0.0003	वन	वन
			14	0.16	रास्ता	सिवाय चक
			85/11	0.192	बारानी चाही कृषि	चान्धा पिता देवलाल
			95	1.12	बंजर	सिवाय चक
			97	0.416	बंजर	सिवाय चक
			8	0.4256	चारागाह	चारागाह ग्राम पंचायत

1	2	3	4	5	6	7
			7	0.0048	नाला	सिवाय चक
			2	0.0048	चारागाह	
			3	0.136	चारागाह	
			4	0.1312	चारागाह	
			5	0.1936	बंजर	सिवाय चक
			15	0.128	बंजर	सिवाय चक
		(5) खुशियारा	13	0.8704	चारागाह	चारागाह
			17	1.072	चारागाह	चारागाह
			127	0.6816	सा. नि. वि.	सा. नि. वि.
			132	0.8128	चारागाह	चारागाह
			124	0.04	चारागाह	चारागाह ग्राम पंचायत
			123	0.5664	चारागाह	ग्राम पंचायत
			141	0.9072	चारागाह	चम्पु मोमचिया, अंजु, शंकर, किशन लाच्ची मेधा, गुना राजा
			142/923	0.24	चारागाह	ग्राम पंचायत
			143	0.32	बारानी	कालूलाल चम्पा लाल पिता कंचनलाल और कस्तुरी बेवा कंचनलाल
			144	0.023	बारानी 2	सुंदरलाल गणेशलाल पिता छोटेलाल किराद
			142/996	0.12	बारानी	सिवाय चक
			119	0.3888	बारानी	अबादी
			444	0.1792	गैर आबादी	मुरारी पिता हीरा चमार पन्ना पिता नाथु केदार प्रभु पिता छोटी खाटी
			166	0.728	बारानी	धर्मी पत्नी गुलाब रानी पत्नी बानु बंजारा
			181	0.4176	बंजर	सिवाय चक
			182	0.016	रास्ता	सिवाय चक
			598	0.0832	बारानी	सिवाय चक
			597	0.408	बारानी	मन्नु पिता हरलाल किराद प्यारे पिता चिंदु किराद
			586/988	0.048	बारानी	सतीश कुमार पिता फोसु राम जाति सुमार
			609	0.024	बारानी	बाबुलाल पिता देवी लाल 1/2 लुहार रामदयाल राजेश गावर्द्धन लाल गीता सुनीता पुत्री गोवर्द्धनलाल भागवानी बेवा
			606	0.016	बारानी सी.	श्री महाराज किशनलाल
			613/997	0.24	बारानी सी.	जगदीश पिता जीवन लाल किराद
			634	0.138	बंजर	सिवाय चक
			640	0.208	बंजर	सिवाय चक
			570/1191	0.192	बारानी	सरोज देवी पत्नी मनमोहन
			586	0.16	बारानी	
			613/1010	0.0112	नाहरी बारानी	फुंदी पिता सिबु जाति सहरिया
			586/989	0.128	नाहरी बारानी	गुन्नी मुन्ना मागी जाति सहरिया
			586/1186	0.16	बारानी	खलील पिता अब्दुल लतीफ केलवारा
			142/996/1	0.1728	बारानी	चम्पा पिता कंचन लाल किराद
			439	0.048	गैर मु. नाला	सिवाय चक
			438/1213	0.192	बारानी	डाला पिता फूला नायक
			585	0.0736	बारानी	धानु पिता किशना जाति चमार निवासी केलवारा

1	2	3	4	5	6	7
			437/1330	0.192	नाहरी बारानी	मदन पिता हटीला जाति सहरिया
			437/1200	0.256	बारानी	नवाला पिता गोपाल जाति सहरिया
			437/1214	0.256	बारानी	डोला पिता फूला जाति सहरिया
			437/1245	0.288	बारानी	सुर्तिया पिता अमर चंद जाति सहरिया
			598/1192	0.32	बारानी	केशरी पिता गिरिशलाल जाति किराद
			598/1193	0.322	माल	मुरारीलाल पिता भगवान लाल जाति किराद
			598/1235	0.448	नाहरी माल	बाबू पिता कालू जाति सहरिया
			598/1251	0.48	नाहरी माल	हावा पिता मुला जाति सहरिया
			438/1256	0.192	बारानी	हीरा पिता फूला जाति बंजरा
			590	0.16	बारानी	रतन पिता कालू जाति सहरिया
			607	0.192	बारानी	श्री जी महाराज
			639/1055	0.0128	बारानी	सीता राम पिता कालू राम जाति किराद निवासी सहरिया
			638/1053	0.0064	बारानी	धर्मी पत्नी गुलाब रानी जाति बंजरा
			642/1060	0.0013	बारानी	गफूर खां पिता अमजद खां जाति मुस्लिम
			642/1059	0.0003	बारानी	जीवन लाल पिता सुंदर लाल जाति किराद निवासी समरानिया
			642/1058	0.0008	बारानी	अब्बदुल करीम पिता बजीर खां
			641/1057	0.0006	बारानी	अब्बदुल करीम पिता बजीर खां
		(6) बांस खेड़ा	142	0.0832	बारानी 4	द बनवारी दयाचंद कालीचरण रामगोपाल राधेश्याम पिता मथुरालाल चिरौंजी रूपवती पुत्री भंवरलाल पिता माथरी बाई बेवा मथुरालाल पिता फूलचंद पिता नाथुलाल जाति किराद निवासी कालोनी शाहबा
			151/3	0.128	बंजर	मनीष कुमार पिता दिनेश कुमार जाति महाजन निवासी समरानिया
			153	0.2224	बंजर	सिवाय चक
			211	0.1408	बारानी 4	श्यामलाल पिता भंवरलाल जाति किराद
			144/1	0.424	बारानी	खेद पिता छोटे जाति किराद
			222	0.144	बारानी	फूलचंद राजमल श्यामलाल जाति किराद
			189/2	0.0176	बंजर	दयाचंद कालीचरण भंवरलाल रामचंद्र धाखों पुत्री भंवर जाति किराद
			184	0.0384	बारानी 4	कालू रागी पुत्री भजनी 1/2, चिरांजी लाल मोहन लाल, राकेश और सतीश पिता रंगलाल जाति किराद 1/2
			232	0.236	बारानी 4	कालू रागी पुत्री भजनी 1/2, चिरांजी लाल मोहन लाल, राकेश और सतीश पिता रंगलाल जाति किराद 1/2
			188	0.208	बंजर 1	श्यामलाल कालू देवीलाल ब्रिजराज पिता मथुरालाल 1/2 जमनालाल रामचरण पिता अर्जुन 1/2 जाति किराद
			234	0.2048	बंजर 1	मांगीलाल पिता देवलाल किराद
			193	0.416	गैर मु. नाला	सिवाय चक

1	2	3	4	5	6	7
			189/1	0.04	बंजर	द बनवारी दयाचंद कालीचरण समगोपाल राधेश्याम पिता मथुरालाल चिरांजी रूमवती पुत्री भंवरलाल पिता माथरी बाई बेवा मथुरालाल पिता फूलचंद पिता नाथुलाल जाति किराद निवासी कालोनी शाहबा
			206/1	0.48	बारानी 4	बनवारी लाल दयाचंद काली चरण राम गोपाल और राधा श्याम पिता मथरा लाल कलावती चिरांजी रामनाथी पुत्री भंवर लाल
			210	0.144	बारानी 4	श्यामलाल कालू देवीलाल ब्रिजराज पिता भंवरलाल 1/2 जयलाल रामचरण पिता अर्जुन 1/2 जाति किराद
			212	0.144	बारानी 4	कालू पिता पेमा जाति कोली निवासी गदरेटा
			220	0.0128	गैर मु. रास्ता	सिवाय चक
			195	0.032	नाहरी	जगदीश श्रीकृष्ण पिता मुन्नु किराद
		(7) बालापुरा	53	0.0704	नाहरी	घितर पिता हालकी रूपीबेवा हालकी कांति बाई चमार
			53/80	0.072	नाहरी	फुडी पिता मांगया जाति चमार निवासी समरानिया
			49	0.144	नाहरी	नरेन्द्र सिंह पिता श्रीलाल सिंह जाति कादरा निवासी गदरेटा
			48	0.0512	नाहरी	भंवरिलाल पिता गजानंद जाति किराद निवासी बनासखेरा मल
			47	0.024	नाहरी	भंवरिलाल पिता गजानंद जाति किराद निवासी बनासखेरा मल
			46	0.0112	नाहरी	भंवरिलाल पिता गजानंद जाति किराद निवासी बनासखेरा मल
			45	0.016	नाहरी	रमेशचंद प्रयागचंद जगदीशचंद बट्टीलाल पिता प्यारेलाल जाति महाजन निवासी शाहबाद
			44/66	0.096	नाहरी	प्रकशचंद पिता गजानंद 1/2 किराद निवासी पीपलखेरी अमरलाल भेसरवान बाला जाति किराद निवासी बनासखेरा 1/2
			57/112	0.0096	नाहरी	
			44/114	0.1152	नाहरी	भारीथ पिता गोमदा जाति मीणा निवासी चंदन तेली बूंदी
			44/115	0.16		कैलाश चंद पिता नारायणलाल जाति मीणा निवासी पंचोला जालावर
			62	0.296	बारानी 4	हरिगोविंद पिता कांसीराम मेदा रामकाली पुत्री कांसीराम गुलाबी बेवा कांसीराम जाति चमार निवासी बनासखेरा मल
			61	0.056	बारानी 4	हरिगोविंद पिता कांसीराम मेदा रामकाली पुत्री कांसीराम गुलाबी बेवा कांसीराम जाति चमार निवासी बनासखेरा मल

1	2	3	4	5	6	7
			57/107	0.4032	बारानी 4	नाथिया बेवा भील मोनो पुत्री अर्जुन 1/2 नाथिया बेवा भीमा मलखान सिंह अजायब सिंह धारा सिंह पिता भीमा एनबी. रेखा शांति एनबी. वाली माता खुद जाति कहार निवासी बनासखेरा हालकी
			57/120	0.9	बारानी 4	मुंकेदी जाति चमार निवासी बनासासखेरा
		(8) मामोनी	371	0.432	बारानी 3	सुंदर लाल निवासी मुलिया जाति गोंगीया
			372	0.1856	बारानी 3	उर्मिला पत्नी हजारी लाल, रमेश कौशल बाई, बिंदा बाई गोदा बाई शीला बाई पुत्री राजु गपाल पिता हजारी लाल 1/6 ध्यानचंद पिता भंवरलाल 1/6 विष्णु प्रसाद जगदीश प्रसाद पिता बद्री सूर्या प्रकाश पिता बद्री सूर्या प्रकाश पिता मीणा अल्खा पुत्री आशा पत्नी बदरी 1/3 मुन्नी बाई पुत्री सुगम चंद 1/3 जाति महाजन
			379	0.1344	बारानी 2	हजारी लाल पिता चुन्नी लाल कलावती पुत्री चुन्नी लाल जाति किराद
			382	0.096	बारानी 2	गनसाई श्याम लाल, बंसी लाल पिता रूप नाथ 4/5, दोरी रामवती पत्नी मदन लाल, रेखा ब्रिजराज राज कुमारी धीसी पुत्री मदन लाल 1/5 जाति किराद
			381	0.0002	बारानी 2	अमर लाल पिता हंसराज जाति किराद
			383	0.08	बारानी 2	रमेश चंद भंवर लाल और पुवा भंवर लाल जाति किराद
			384	0.1344	बारानी 2	नारायण हीरालाल देवकिशन पिता नाबो पुत्री मात्री बेवा गंसी जाति किराद
			637/2	0.016	बारानी 2	कांसीलाल रामचरण पिता शिवलाल किराद
			635/2	0.0096	केरा 2	जगन्नाथ पिता गजान्नाथ जाति किराद
			419	0.04	केरा 2	हजारीलाल पिता चुन्नीलाल कालावती पुत्री चुन्नीलाल जाति किराद
			420	0.024	केरा 2	जाना बेवा रामजीलाल सुरेश कस्तुरी पुत्री विद्या मुनी मिथिलेश पुत्री गणेशीलाल जाति किराद
			424	0.0256	केरा 2	गासी मुरारीलाल रामदयाल केशरीलाल पिता लालचंद
			426	0.144	बारानी 3	प्रेमचंद आनंदीलाल पिता रामलाल जाति किराद
			439	0.0256	बारानी 2	फोसु पिता खेमा 1/2 भोरो गीता पुत्री
			436	0.0096	बारानी 2	भंवर 1/2 जाति चमार
			438	0.0272	बारानी 2	हीरा सिंह जगन्नाथ
			227	0.0384	बारानी 2	उपकार पिता शिवलाल अहिर
			221	0.0608	बारानी 2	कंवरलाल पिता भैरु 1/2 अहीर
			220	0.0528	बारानी 2	गजनलाल प्रमा रामु पिता माघ सिंह मांगीलाल अहीर

1	2	3	4	5	6	7
			173	0.3776	बारानी 3	गजनलाल प्रमा रामु पिता माघ सिंह मांगीलाल अहीर
			216	0.0528	बारानी 3	गजनलाल पिता मेघा सिंह अहीर
			215	0.048	बारानी 3	गणेश मक्खन प्रसादी पिता मैरूलाल जाति कलाल
			203	0.1232	बारानी 3	संजय बेवा रामभरोस महाजन
			202	0.0016	बारानी 3	ब्रिजमोहन चंदर सेन
			199	0.024	बारानी 3	बुदी बेवा अमरु साहार
			171	0.0336	बारानी 3	गयाजीन लक्ष्मीनारायण पिता धन सिंह अहीर
			151	0.384	बारानी 3	श्री कमल भगवान सिंह कांसी नारायण पिता बाटासी पार्वती बाई पुत्री हरलाल गोनजाया
			150	0.176	बारानी 3	बाबु पिता भागीरथ नारेंदा पुत्री मोना बेवा भागीरथ अहीर
			146	0.072	बारानी 3 चाह. कृषि	बाबु पिता भागीरथ नारेंदा पुत्री मोना बेवा भागीरथ अहीर
			147	0.248	बारानी 3	बाबु पिता भागीरथ नारेंदा पुत्री मोना बेवा भागीरथ अहीर
			149	0.16	बारानी 3	बालमुकुंद गोधा श्रीचुंद भबुती 1/2 ओंकार पिता शिवलाल अहीर 1/2
			148	0.16	बारानी 3	बालमुकुंद गोधा श्रीचुंद भबुती 1/2 ओंकार पिता शिवलाल अहीर 1/3
			144	0.0624	बारानी 3	बालमुकुंद गोधा श्रीचुंद भबुती 1/2 ओंकार पिता शिवलाल अहीर 1/2
			145	0.048	बारानी 4	ओंकार पिता शिवलाल अहीर
			479	0.368	बारानी 3	जगदीश भागवती सुमान पिता नारायण महाजन मु
			477	0.048	बारानी 3	जगदीश भागवती सुमान पिता नारायण महाजन मु
			476	0.0544	बारानी 3	चिन्दु पिता धासी सहरिया
			475	0.0544	बारानी 3	प्रेमचंद फुंडीलाल गुलाबचंद पिता नारायणी पुत्री रामलाल कादारा
			474	0.024	बारानी 2	चिंदु पिता जमनालाल जाति किराद
			467	0.0416	बारानी 3	धासी पिता रातीराम नाई
			473	0.224	बारानी 2	सीतराम पिता बद्री जाति किराद
			470	0.0144	बारानी 2	पुनिया हटी किराद
			466	0.0304	बारानी 3	रामको बेवा मांगीलाल हजारी रामचरण पुखराज पिता अमरलाल जाति किराद
			465	0.0128	बारानी 3	प्रभुलाल गिराराज पिता गोपाल किराद
			460	0.128	बारानी 3 चाह. कृषि	जय गोविंद लखन सिंह पिता रामकन्या पुत्री सुमीत्रा बाई बेवा माडु सहरिया
			456	0.0544	बारानी 3 चाह. कृषि	ठाकुरदास पिता किसनदास बैरागी
			751	0.016	डान्डा	गोविंद गंगाराम किशन गोहानजा
			744	0.0002	डान्डा	धन्ना पिता रामजीलाल
			742	0.0368	डान्डा	केदार बनवारी पिता मथुरा 1/2 हरलाल पिता फुंडी 1/2 गोहानिया
			201	0.0096	बारानी 3	बुंदा बेवा अमरु जाति सहरिया

1	2	3	4	5	6	7
			729	0.0032	डान्डा	हरिकिशन पिता बालमुकुंद और गया बाइ पुत्री हीरालाल जाति किराद
			647	0.064	बंजर	सरकारी भूमि
			644	0.624	बंजर	सरकारी भूमि
			642	0.1728	बंजर	सरकारी भूमि
			417	0.112	बंजर	सरकारी भूमि
			638	0.1056	नाला	सरकारी भूमि
			418	0.288	बाहद	सरकारी भूमि
			421	0.008	आबादी	सरकारी भूमि
			422	0.0128	खादा	सरकारी भूमि
			423	0.0128	नाला	सरकारी भूमि
			428	0.1248	नाला	सरकारी भूमि
			435	0.0128	रास्ता	सरकारी भूमि
			440	0.0192	खादा	सरकारी भूमि
			262	0.0672	रास्ता	सरकारी भूमि
			222	0.1472	आबादी	सरकारी भूमि
			200	0.5664	भीड़	सरकारी भूमि
			198	0.0032	नाला	सरकारी भूमि
			196	0.016	बंजर	सरकारी भूमि
			172	0.032	नाला	सरकारी भूमि
			152	0.208	नाला	सरकारी भूमि
			468	0.0096	नाला	सरकारी भूमि
			746	0.408	बंजर	सरकारी भूमि
			750	0.016	बंजर	सरकारी भूमि
			745	0.0688	बंजर	सरकारी भूमि
			741	0.0112	बंजर	सरकारी भूमि
			743	0.0352	बंजर	सरकारी भूमि
			728	0.072	बंजर	सरकारी भूमि
		(9) बिहारीपुरा	178	0.16	जंगल	वन विभाग
			181	0.2416	जंगल	वन विभाग
			182	0.0032	जंगल	वन विभाग
			349	0.1232	जंगल	वन विभाग
			356	0.0128	जंगल	वन विभाग
			360	0.32	गैर मु.	सिवाय चक
			361	0.5302	गैर मु.	सिवाय चक
			365	0.578	जंगल	वन विभाग
			189	0.1776	गैर मु. कान्ही	सा. नि.वि.
			179	0.24	जंगल	वन विभाग
			185	0.128	गैर मु. आबादी	वन विभाग
			186	0.009	गैर मु. आबादी	वन विभाग
			368	0.128	गैर मु. आबादी	सा. नि.वि.
			176	0.192	गैर मु. सड़क	सा. नि.वि.
			360	0.304	गैर मु.	सिवाय चक
			175	0.192	गैर मु. खान्डी	सा. नि.वि.
			177	0.288	गैर मु. खान्डी	सा. नि.वि.
			174	0.768	वन	वन विभाग

1	2	3	4	5	6	7
			188	0.16	गैर मु. खान्डी	सा. नि.वि.
			357	0.0144	गैर मु. खान्डी	सा. नि.वि.
			358	0.176	गैर मु. सड़क	सा. नि.वि.
			359	0.048	गैर मु. खण्डी	सा. नि.वि.
			367	0.128	गैर मु. सड़क	सा. नि.वि.
			190	0.1136	वन	वन विभाग
		(10) शाहबाद	440	1.44	वन	वन विभाग
			439	2.8416	वन	वन विभाग
			437	1.632	वन	वन विभाग
			438	1.44	वन	वन विभाग
			435	1.728	वन	वन विभाग
			337	1.28	वन	वन विभाग
			436	0.48	वन	वन विभाग
			434	4.032	वन	वन विभाग
		(11) खुसालपुरा	117	0.129	बारानी 4	शिवलिया पिता फुडी जाति सहरिया निवासी खुसालपुरा
			118	0.16	बारानी 4	हरवंश जगदीश श्रीराम पिता ग्यारसा जाति सहरिया निवासी खुसालपुरा
			126/746	0.49	बारानी 4	भंवरलाल पिता हीरा जाति सहरिया निवासी खुसालपुरा
			283/785	0.1728	बंजर	जवाहर लाल पिता लाखु जाति सहरिया निवासी कुसालपुरा
			283/787	0.2048	बारानी 4	बिट्टल पिता कमला और साती बेवा कमला जाति सहरिया निवासी खुसालपुरा
			283/797	0.1568	बारानी 4	डालु रतनलाल पिता साभो पिको गैर खातेदार
			291	0.208	बारानी 4	शंकर श्याम पिता रंगीलाल और धाखो बेवा रंगीलाल मुकेश साभा सिंह मंजु कारु पिता रामप्यारी पुत्री केदार बेवा जगराम जाति सहरिया
			335	0.224	बारानी 4	कल्याण पिता बाबू जाति चौरसिया बामोरी निवासी साहबाद
			340	0.04	बारानी 4	पप्पु गजनलाल हरिचरण जंगलिया हाटो सिंह पिता कमलेश सुगनी पुत्री हेरा बेवा ग्यारसा कासी कुसुम मानी चोटी शर्मा पुत्री दारी शहरिया शाहबाद
			341	0.081	बंजर	पप्पु गजनलाल हरिचरण जंगलिया हाटो सिंह पिता कमलेश सुगनी पुत्री हेरा बेवा ग्यारसा कासी कुसुम मानी चोटी शर्मा पुत्री दारी शहरिया शाहबाद
			395	0.032	बारानी 4	राकेश मुकेश अमर सिंह पिता संतोष पुत्री मांगीबाई बेवा रामाभील निवासी खुसालपुरा
			403	0.12	बारानी 4	महासुख पिता सवलिया वारिस दोज्या परमा साभा कल्याण परमा सभा कल्याण महासुख

1	2	3	4	5	6	7
			428	0.544	बारानी 4	नारायण श्रीग मंगल मोहन पिता माना लालती बेवा जगराम शंकर श्याम पिता रांगी बेवा धाखी जाति सहरिया निवासी खुशालपुरा
			446	0.274	बारानी 4	सावरा कुमार पिता भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी शाहबाद
			455	0.6	बारानी 4	सावरा कुमार पिता भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी शाहबाद
			536	0.712	बारानी 4	कालुचरण पिता भंवरलाल जाति ब्राह्मण
			538	0.121	बारानी 4	मथुरा पिता रामजीलाल जाति मुरली मनोहर जी
			540	0.32	बंजर	माफी मंदिर श्री मुरली मनोहर जी
			65	0.16	बारानी 4	दोज्या पिता सुंदरा जाति सहरिया खुशालपुरा
			456	0.1216	बारानी 1	वन विभाग
			457	0.024	चाली 1	वन विभाग
			487	0.032	चाली 1	वन विभाग
			295	0.081	गैर मु. नाला	सा. नि.वि.
			83	0.04	बंजर	सिवाय चक
			84	0.04	बंजर	सिवाय चक
			284/800	0.024	बंजर	सिवाय चक
			336	0.121	बंजर	सिवाय चक
			337	0.08	नाली	सिवाय चक
			339	0.1568	बंजर	सिवाय चक
			390	0.192	बंजर	सिवाय चक
			391	0.08	गैर मु. रास्ता	सिवाय चक
			393	0.256	बंजर	सिवाय चक
			284/802	0.128	बंजर	सिवाय चक
			541	0.192	बंजर	सिवाय चक
			546	0.288	बंजर	सिवाय चक
			2	0.256	बंजर	सिवाय चक
		(12) बिरमानी	211/281	0.032	बारानी	फुंडी लैम्पी पिता रामचांदी पुत्री भोंडु जाति सहरिया खुशालपुरा
			211/282	0.0016	बारानी	फुंडी लैम्पी पिता रामचांदी पुत्री भोंडु जाति सहरिया खुशालपुरा
			210/241	0.0448	बारानी	फुंडी लैम्पी पिता रामचांदी पुत्री भोंडु जाति सहरिया खुशालपुरा
			211	0.1216	बंजर	सिवाय चक
			207/275	0.2688	बारानी	श्रीराम तेजसिंह नवलू पिता कुसुम खांडी पुत्री कुसुम कापी पुत्री
			175	0.16	बारानी	वन विभाग
			177	0.24	बारानी	सिवाय चक
			219	0.152	बारानी	सिवाय चक
			217/279	0.0002	बारानी	पच्चा लम्पी पिता फरपो रामो
			209/211	1.0304	बारानी	
			217	0.024	बारानी	कन्हैयालाल पिता बंशी जाति सहरिया खुशालपुरा
			208	0.4912	बारानी	कन्हैयालाल पिता बंशी जाति सहरिया खुशालपुरा

1	2	3	4	5	6	7
		(13) हनोतिया	29	0.02	बाराणी 3	कलावती बेवा चंद्र शेखर चांद योगेन्द्र कुमार सुरेश कुमार पिता सीता बाई मीणा बाई पुत्री धनचन्द महाजन शाहाबाद
			109	0.0032	बाराणी 4	चांद खां मुनीर खान पिता लाल खन्ना मुस्लिम देवरी
			225	0.06	बाराणी 4	चांद खां मुनीर खान पिता लाल खन्ना मुस्लिम देवरी
			107/282	0.0272	बाराणी 4	चांद खां मुनीर खान पिता लाल खन्ना मुस्लिम देवरी चिटिया कन्हैया पिता कांची 1/4 जाति चमार
			217	0.02	बाराणी 3	चीता पिता काचरी 1/4 पप्पु रेगुवर नन्दलाल पिता बेवा घाखो 1/4 पिता गभू 1/2 जाति चमार
			87	0.0064	बाराणी 2	चांद खां मुनीर खान पिता लाल खन्ना मुस्लिम देवरी
			91	0.0003	बाराणी 2	चांद खां मुनीर खान पिता लाल खन्ना मुस्लिम देवरी
			31	0.01	बीड	पोचन सिंह पिता कोटेलाल और कांचुराम पिता हरिराम जाति माली रायपुर कोलारस शिवपुर
			223	0.03	बाराणी 3	बाबु पिता नाटु बाबुटी कालो गाजिया सामदेव कापुरी कालान गुलबो पुत्री नटुआ और मानो बेवा नटुवा चमार
			229	0.0192	बाराणी 3	बाबु पिता नाटु बाबुटी कालो गाजिया सामदेव कापुरी कालान गुलबो पुत्री नटुआ और मानो बेवा नटुवा चमार
			90	0.0002	बाराणी 2	रामवती चीनजो पुत्री डुब्रिया चमार 2/3 माना पिता बुद्धा रेखा बाना पुत्री बुद्ध टियो बेवा बुधु 1/3 जाति चमार
			23	0.04	बाराणी 3	शंकर कल्याण संतोषी गहानी अहीर
			85	0.0013	बाराणी 2	शंकर कल्याण संतोषी पिता घासी 1/3 डुब्रिया काट्रिया पिता अमरलाल 2/3 अहीर
			94	0.0002	बाराणी 2	शंकर कल्याण संतोषी पिता घासी 1/3 डुब्रिया काट्रिया पिता अमरलाल 2/3 अहीर
			219	0.01	बाराणी 2	शंकर प्रभू नाकटू पिता प्यारे मुस्लिम मेदा बेवा प्यारे गीता बाई पुत्री प्यारे जाति चमार बुडा नोनेरा
			32	0.0096	बाराणी 3	श्याम लाल पिता किशोर जाति कांची
			89	0.04	बाराणी 2	श्रवण पिता हरिया सरस्वती पुत्री हरिया कस्तुरी बेवा हरिया 1/3 मांगी सिरिया पिता ज्ञानसीता 2/3 जाति चमार
			107/284	0.03	बाराणी 4	श्रवण पिता हरिया सरस्वती पुत्री हरिया कस्तुरी बेवा हरिया 1/3 मांगी सिरिया पिता ज्ञानसीता 2/3 जाति चमार चांद खां नुनीर खां मो. खां पिता लाल खां 1/4 मुस्लिम

1	2	3	4	5	6	7
			214	0.016	बारानी 3	सुखा प्रसादी पिता कालू फाथो रामकाली पुत्री मारो बेवा फोसु जाति चमार
			123	1.0656	बारानी 4	सुखा पिता फासु जाति चमार
			86	0.0992	माल 1	शंकरलाल घासी अहीर
			4	0.12	बंजर	सिवाय चक
			5	0.07	बंजर	सिवाय चक
			6	0.1	बंजर	सिवाय चक
			103	0.16	गैर मु. नदी	सिवाय चक
			107	0.9	गैर मु. खल	सिवाय चक
			110	0.08	गैर मु. खल	सिवाय चक
			117	0.48	बंजर	सिवाय चक
			118	0.61	बंजर	सिवाय चक
			93	0.0003	रास्ता	सिवाय चक
			125	0.2288	रास्ता	सिवाय चक
			198	0.016	बंजर	सिवाय चक
			199	0.296	रास्ता	सिवाय चक
			213	0.208	बंजर	सिवाय चक
			215	0.1072	बंजर	सिवाय चक
			224	0.2064	खाल	सिवाय चक
			226	0.03	बंजर	सिवाय चक
			124	0.5088	बंजर	सिवाय चक
			129	0.16	चारागाह	ग्राम पंचायत भीलखेरा मल
		(14) गंजन	346	0.1152	बारायी सोयम	अमरलाल पिता प्राण शंकर पिता नन्धु जाति कुम्हार निवासी देवरी
			75	0.0288	बाराइ सोयम	अनार सिंह पिता भंवर जाति अहिर
			159	0.01	बारायी सोयम	कालालो सिंह पुत्री फोसू जलमा पिता देवलाल अहीर
			162	0.0192	बारायी सोयम	कालालो सिंह पुत्री फोसू जलमा पिता देवलाल अहीर
			79	0.0192	बारायी सोयम	गुलाबा, श्यामल गुंची पिता देवलाल अहीर
			347	0.128	बारायी सोयम	चांद खां मुनीर खान मो. खान पिता लाल खां मुस्लिम निवासी देवरी
			348	0.16	बारायी सोयम	चांद खां मुनीर खान मो. खान पिता लाल खां मुस्लिम निवासी देवरी
			349	0.16	बारायी सोयम	चांद खां मुनीर खान मो. खान पिता लाल खां मुस्लिम निवासी देवरी
			158	0.03	बारायी सोयम	जानकी बाबा मुला 1/2 शंकर, धुज्या, रघुनी प्रसादी पहलवान माया सुवा गीता समाधी पुत्री जिघुरिया 1/2 जाति चमार
			234	0.008	बारायी सोयम	तुलसी बेवा जगहनी कलाल
			330	0.0002	बारायी सोयम	नासीर खां साकीर खान पिता नुरजहां जीवन बाई बेवा कालू 1/4 गफुर खां पिता अमीर खां अलताबर खां महताब खां, मुस्ताक महताब खां दिलशाह खां 9/0 शार खां, अंसारी खां पिता बाराकात अली 1/4 मुस्लिम निवासी देवरी
			227	0.1072	बारायी सोयम	मुरारी पिता धिस्ता जाति खार

1	2	3	4	5	6	7
			278	0.0096	बारायी सोयम	मुरारी पिता धिस्ता जाति खार
			285	0.06	बाराइ एवल	बच्चू पिता हल्का जाति खार
			226	0.096	बारायी सोयम	बच्चू राम बसंती पिता हल्का 1/2 घसीटा पिता नन्दु 1/2 जाति खार
			279	0.0288	बारायी सोयम	बच्चू राम बसंती पिता हल्का 1/2 घसीटा पिता नन्दु 1/2 जाति खार
			332	0.008	बारायी सोयम	भंवरलाल, बंसी पुरी पिता लाचीपुरी चुसायी निवासी देवरी
			224	0.2	बारायी सोयम	मुला लाल पिता बिहारी जाति किराद
			223	0.16	बारायी सोयम	मोती लाल पिता मुला सुंदर लाल पिता बिहारी 3/5 रंगी, ज्ञानीप्रभु पिता प्रमा 1/5 जाति किराद
			80	0.0288	बारायी सोयम	मिन्दु पिता रामा जाति चमार
			280	0.0002	बारायी सोयम	माना घाजु पिता घोहरी अहीर
			353	0.176	बारायी सोयम	मोहन, गोबंदी जगन्नाथ पिता प्यारे जाति किराद निवासी देवरी
			281	0.04	बाराइ एवल	महाराज सिंह, सुमराथ पिता लाल रामकाली पुत्री लाल नाथीया बेवा घाभु 2/3 अमर सिंह पिता मेगा घाखो बेवा मेगा 1/3 अहीर
			76	0.0288	बारायी सोयम	राजेन्द्र सिंह, लक्ष्मण सिंह पिता बाबू सिंह, मुन्नी, रतन बाई ममता राजकुमारी पुत्री बाभू सिंह गंगा बेवा बाभू सिंह 1/6 अनार सिंह, पुरण सिंह, पिता भंवरलाल, शांति काकली, कानो पुत्री भंवरलाल अहीर 5/6
			77	0.0096	बारायी सोयम	राजेन्द्र सिंह, लक्ष्मण सिंह पिता बाबू सिंह, मुन्नी, रतन बाई ममता राजकुमारी पुत्री बाभू सिंह गंगा बेवा बाभू सिंह 1/6 अनार सिंह, पुरण सिंह, पिता भंवरलाल, शांति काकली, कानो पुत्री भंवरलाल अहीर 5/7
			221	0.16	बारायी सोयम	राजेन्द्र सिंह, लक्ष्मण सिंह पिता बाबू सिंह, मुन्नी, रतन बाई ममता राजकुमारी पुत्री बाभू सिंह गंगा बेवा बाभू सिंह 1/6 अनार सिंह, पुरण सिंह, पिता भंवरलाल, शांति काकली, कानो पुत्री भंवरलाल अहीर 5/7
			352	0.16	बारायी सोयम	रतन लाल पिता हिरालाल 1/2 खियाली चांद रामस्वरूप रामपत पिता नाथवा सारवाधी बेवा नाथवा 1/2 चीवा निवासी देवरी
			331	0.0192	बारायी सोयम	विमला पत्नी परमपाल सिंह राजपुत निवासी मंजारा
			284	0.04	बारायी एवल	शंकर पिता पुन्ना ख्यालिया बेवा पुन्ना आनंदी, शाबाबो राम काली पुत्री पुन्ना 5/6 रघुवीर मनीराम गजरा पिता भगवानलाल गुड्डी काशुमल पुत्री भगवानलाल 1/6 जाति कहार

1	2	3	4	5	6	7
			217	0.2656	बारायी सोयम	शंकर पिता पुन्ना जाति चमार
			283	0.01	बाराण एवल	सुरथ सिंह पिता प्रभु खासर पिता गोपी अहीर
			336	0.19	बारायी सोयम	स्वरूप पुत्री गोलिया 1/4 तुलाराम पिता भाभुता 1/2 जाति खार
			337	0.208	बारायी सोयम	स्वरूप पुत्री गोलिया 1/4 तुलाराम पिता भाभुता 1/2 जाति खार
			354	0.12	बारायी सोयम	सावलिया पिता रतनलाल कालू सुवालाल पिता जगन्नाथ 1/2 किराद
			164	0.22	बारायी सोयम	हाजु पिता गनपथ 1/2 सरदार गुलाब करण गुरुदेव पिता कुसुम गीता पुत्री माना 1/2 अहीर
			282	0.0176	बाराणी एवल	ग्राम पंचायत
			163	0.03	चारागाह	ग्राम पंचायत
			165	0.12	चारागाह	ग्राम पंचायत
			205	0.31	चारागाह	ग्राम पंचायत
			212	0.52	चारागाह	ग्राम पंचायत
			216	0.23	चारागाह	ग्राम पंचायत
			219	0.45	चारागाह	ग्राम पंचायत
			214	0.216	चारागाह	ग्राम पंचायत
			286	0.0688	खांटी	सा. नि. वि.
			333	0.008	खांटी	सिवाय चक
			1	0.05	गैर मु. नदी	सिवाय चक
			210	0.21	गैर मु. नदी	सिवाय चक
			215	0.0192	रास्ता	सिवाय चक
			229	0.0016	गैर मु. बोधा	सिवाय चक
			230	0.016	बाराणी 2	सिवाय चक
		(15) देवरी	425	0.0096	बाराणी 2	हरिपुरी पिता कालू नाबो रेखा पुत्री मानो बेवा नाजवान पुत्री बंशीपुरी पिता लक्ष्मीपुरी बाबु रमेश रामगीर पिता गोकुलगीर जाति गुसायी निवासी देवरी
			429	0.285	माल	सावलिया पिता रतनलाल 1/2 कालुराम सुवालाल पिता जगन्नाथ रामकाली पुत्री जगन्नाथ 1/2 जाति किराद निवासी देवरी
			430	0.277	माल	बाबरिया पिता रामप्रसाद जाति ब्राह्मण
			434	0.324	माल	मंसु पिता माधो नाथु पिता कमालु जाति किराद निवासी देवरी
			435	0.1536	माल	छोटेला पिता देवलाल जाति सुनार निवासी देवरी
			439	0.16	माल	नाबो पुत्री अंकार जाति किराद निवासी देवरी निवास एसबीबीजे. शाहबाद
			450	0.0064	माल	शंकर मोहन गोविंदी पिता चतरा जाति किराद निवासी देवरी
			451	0.008	माल	नाराण प्रह्लादी पिता अर्जुन रामचरण पिता मांगीलाल चीन्जो पुत्री देवलाल जाति किराद निवासी देवरी
			454	0.08	माल	शंकर पिता प्यारे जाति किराद निवासी देवरी

1	2	3	4	5	6	7
			455	0.103	माल	कन्हैयालाल पिता लक्ष्मणलाल जाति गुसावी निवासी देवरी
			456	0.136	माल	जीवनराम खुवीर पिता ओंकार जाति किराद निवासी देवरी भूमि विकास बैंक भंवरगढ़
			471	0.1536	माल	शंकर पिता ज्यारे जाति किराद निवासी देवरी
			472	0.203	माल	लम्पी पिता देवलाल 1/2 नारण पिता लम्पी 1/2 जाति किराद
			473	0.238	माल	लम्पी पिता देवलाल 1/2 नारण पिता लम्पी 1/2 जाति किराद
			496	0.182	माल	बाबु सुभान पिता गफूर खां मुन्नी गुड्डी हसीना सकील पुत्री गफूर खां कालीया बेवा गफूर खां 1/2 नूर खां पिता रमजान खां जाति मुस्लिम निवासी देवरी
			482	0.072	माल	गोधाराम मदनलाल भागवानलाल पिता भैरु जाति चिपा
			494	0.061	माल	बाबु सुभान पिता गफूर खां मुन्नी गुड्डी हसीना सकील पुत्री गफूर खां कालीया बेवा गफूर खां 1/2 नूर खां पिता रमजान खां जाति मुस्लिम निवासी देवरी
			486	0.0704	माल	मदन सिंह पिता मांगीलाल जाति खंगर निवासी देवरी
			487	0.144	माल	बुद्धा हरबिलास तोरण सिंह कालो 1/2 राखो पुत्री काला 1/2 लालो बेवा काला 1/4 खेमसिंह पिता रामजीलाल गुड्डी बेवा रामजीलाल 1/3 जाति खानगर निवासी भूमि विकास बैंक भंवरगढ़
			574	0.062	गैर मु. रास्ता	सरकारी भूमि
			576	0.2512	माल	मन्दा जगन्नाथ रमेश पिता भैरु जाति खानगर निवासी देवरी
			577	0.1408	बारानी 1	रेटी पिता गुची जाति खनगर निवासी देवरी
			581	0.393	माल	गुरुप्रीत सिंह पिता मनजीत कौर बेवा सरदूल सिंह जाति चमार निवासी शिवपुरी म. प्र.
			582	0.106	माल 1	गुरुप्रीत सिंह पिता मनजीत कौर बेवा सरदूल सिंह जाति चमार निवासी शिवपुरी म. प्र.
			613	0.5088	बारानी 4	सोराफ खां पिता मुनीर खां जाति मुस्लिम निवासी देवरी निवासी एसबीबीजे. समरानियां
			614	0.1488	बारानी 1	बालकिशन रामजीलाल बंटी पिता माथरी बेवा बट्टी और रमेश चिंगा पिता नाराण छोटे पिता मुलिया जाति चिपा निवासी देवरी चिंगा निवासी भूमि विकास बैंक भंवरगढ़
			615	0.024	गैर मु. चारागाह	सिवाय चक

1	2	3	4	5	6	7
			616	0.016	बारानी 1	बालकिशन रामजीलाल बंटी पिता मावरी बेवा बट्टी और रमेश चिंगा पिता नाराण छोटे पिता मुलिया जाति चिंगा निवासी देवरी चिंगा निवासी भूमि विकास बैंक भंवरगढ़
			617	0.092	बारानी 4	दौलत सिंह पिता राम सिंह जाति खान्गार निवासी देवरी
			617/1	0.092	बारानी 4	महाराज सिंह पिता फूलाराम जाति कांची निवासी देवरी
			618	0.076	बारानी 4	सीताराम हावा राम विजय कुमार पिता ठाकुरलाल जाति किराद निवासी भैरु जाति चिंगा निवासी पाजनतोरी
			622	0.0384	बारानी 4	गोविंद प्रसाद भगवान लाल मदनलाल पिता भैरु श्री पुत्री भैरु जाति चिंगा निवासी देवरी
			625	0.112	बारानी 2	गोदराम मदनलाल भगवानलाल पिता भैरु जाति चिंगा
			626	0.016	बारानी 2	लक्ष्मण प्रसाद धनश्याम जगदीश पिता और नादू सारदा पुत्री भगवानलाल जाति ब्राह्मण निवासी देवरी
			629	0.032	नाहरी	हाल्की पिता मुंसी जाति कान्गर देवरी निवासी भूमि विकास बैंक भंवरगढ़
			635	0.026	बारानी 4	भगवती प्रसाद हरिओम मुकेश पिता चितरमल जाति महाजन निवासी देवरी एसबीबीजे शाहबाद
			632	0.0336	नाहरी बारानी	सफीउद्दीन पिता इमामुद्दीन जाति मुस्लिम निवासी देवरी
			636	0.043	बारानी 4	गोपीचंद पिता रमेशचंद जाति महाजन निवासी ग्वालियर
		(16) भोयल	455/1078	0.1008	बारानी 42	जगदीश पुरुषोत्तम मुकेश ब्रिजमोहन पिता कांता पुत्री कस्तुरी बेवा भजनलाल जाति किराद निवासी पाजनतोरी
			455	0.1456	बारानी 2	कुंदन पिता धन्ना गुरसी निवासी देवरी
			453	0.1024	बारानी 2	खेरु पिता पुन्दा घुस्सी निवासी पाजनतोरी
			448	0.0656	बारानी 2	सीता दासराम विजय कुमार पिता ठाकुरलाल जाति किराद पाजनतोरी
			448/1088	0.0096	बारानी 4	ठाकुरलाल पिता बट्टी जाति किराद निवासी पाजनतोरी
			459/1090	0.0384	चारागाह	ग्राम पंचायत
			450	0.152	रास्ता गैर मु.	सा.नि. वि.
			452	0.144	रास्ता गैर मु.	सा.नि. वि.
			458	0.24	रास्ता गैर मु.	सा.नि. वि.
		(17) पाजनतोरी	36	0.192	बारानी 3	प्रेम रामवती विजय प्रीति पुत्री प्रीतम जानी बेवा प्रीतम 1/2 जानकीलाल ग्यारसीलाल पिता जुकुनी 2/3 जाति नाई
			118/325	0.224	बारानी 4	कंचन लाल पिता गोबंदी जाति किराद
			24	0.1632	नाहरी	रामकाली बेवा माबू जाति चमार

1	2	3	4	5	6	7
			42	0.16	बारानी 4	देवीलाल पिता सुखा जाति बालाई
			35	0.192	बंजर	सिवाय चक
			31	0.144	बारानी 4	सिवाय चक
			33	0.1728	गैर मु. सड़क	सा. नि. वि.
			22	0.024	बारानी चाह. कृषि	नवला पिता मुलिया जाति बालाई
			47	0.16	आबादी	
			114	0.2144	चारागाह	नवला पिता मुलिया जाति बालाई
			115	0.184	चारागाह	ग्राम पंचायत
			21	0.064	चारागाह	ग्राम पंचायत
		(18) फरिदुआ जागीर	20	0.064	एन. के.	सिवाय चक
			21	0.1104	गैर मु. सड़क	सा. नि. वि.
			22	0.12	बारानी 2	रामवतवी पुत्री प्रीतम 1/2 जानकी ग्यारसी
			41	0.1296	बारानी 1	कापोरी देवी मयूरी बाई पुत्री सुरेन्द्र सिंह 1/2 भंवरबाई पुत्री चातर सिंह
			148	0.144	नाला	सिवाय चक
			263	0.16	चाही जाव	राम सिंह पिता किशन सिंह जाति राजपुत
			269	0.0864	बंजर 2	सिवाय चक
			161	0.096	खेड़ा 1	भंवर सिंह पिता भंवर बाई पुत्री रघुनाथ सिंह 1/2 आनंद कंवर बेवा सरदार सिंह 1/5
			257	0.0128	चाही 1	भंवर सिंह पिता भंवर बाई पुत्री रघुनाथ सिंह 1/2 आनंद कंवर बेवा सरदार सिंह 1/3
			253	0.168	चाही 2	भंवर सिंह पिता भंवर बाई पुत्री रघुनाथ सिंह 1/2 आनंद कंवर बेवा सरदार सिंह 1/4
			265	0.072	बारानी 1	साजन बाई बेवा भंवर सिंह जाति राजपुत
			162	0.128	खेड़ा 1	
			169	0.0176		
			265	0.072	बारानी 1	
			135	0.2496	वन	वन विभाग
			101	0.1504	वन	वन विभाग
			105	0.8	वन	वन विभाग
			104	0.352	वन	वन विभाग
			310	0.144	वन	वन विभाग
			314	0.176	वन	वन विभाग
			103	1.328	वन	वन विभाग
			132	0.448	वन	वन विभाग
			136	0.896	वन	वन विभाग
			98	0.0448	वन	वन विभाग
			100	0.192	वन	वन विभाग
			87	0.16	वन	वन विभाग
			312	0.32	वन	वन विभाग
			133	0.6912	वन	वन विभाग

1	2	3	4	5	6	7
			7	0.032	बंजर 2	वन विभाग
			5	0.016	बंजर 2	वन विभाग
			192	0.0032	बंजर 2	वन विभाग
			189	0.0832	आबादी	वन विभाग
			163	0.024	रास्ता	वन विभाग
			146	0.0064	नाला	वन विभाग
			196	0.024	बंजर	वन विभाग
			258	0.0448	बंजर	वन विभाग
			259	0.1248	बंजर	वन विभाग
			270	0.144	नाला	वन विभाग
			126	0.416	बंजर 2	वन विभाग
			128	0.48	पत्थर	वन विभाग
			131	0.3264	बारानी 4	भीखा राम पिता बंशीलाल जाति अहीर
			107	0.1456	बारानी 4	रामजीलाल कौलाश पिता पुनिया बेवा अंगद जाति सहरिया
			10	0.1792	बारानी 4	हल्कु पिता नावला जाति बालाई निवासी पाजनतोरी
			6	0.1152	बारानी 4	प्रकाश दौलतराम कालीचरण पिता खेरु जाति किराद निवासी बाजाटोरी
			44	0.288	बारानी 4	प्रकाश दौलतराम कालीचरण पिता खेरु जाति किराद निवासी बाजाटोरी
			160	0.008	खेड़ा 1	उम्मेद सिंह पिता देवी सिंह जाति राजपुत
			191	0.032	खेड़ा 2	उम्मेद सिंह पिता देवी सिंह जाति राजपुत
			40	0.448	बारानी 1	उम्मेद सिंह पिता देवी सिंह जाति राजपुत
			190	0.032	खेड़ा	नाकडु पिता प्यारे 1/2 सुगर सिंह पिता दारगान 1/2 जाति अहीर
			159	0.0003	बारानी 4	लीटरु मांगीलाल पिता हरचंदा जाति चमार निवासी पाजनतोरी
			23	0.192	बारानी 2	बाबूलाल पिता भैरूलाल जाति ब्रह्मण
			24	0.16	बारानी 2	बाबूलाल पिता भैरूलाल जाति ब्रह्मण
			35	0.0064	बारानी 2	कल्याण सिंह लक्ष्मण सिंह पिता रंजीत सिंह मोहन बाई सोहन बाई पुत्री रंजीत सिंह राजपुत
			36	0.0128	बारानी 2	राम किशन रामदेव पिता गुलाबा जेनो बेवा रामचरण कालीचरण पुत्री मीरा पुत्री कालीचरण मीरा पुत्री छूटी 1/2 डोलिया
			42	0.032	चाही 2जाव 2	नाकडु पिता प्यारे 1/2 सुगर सिंह पिता दारगान 1/2 जाति अहीर
			198	0.1664	चाही जाव	बंसी पिता मनडोरी जाति अहीर
			264	0.144	बारानी 4	सिवाय चक
			129	0.32	बारानी 4	रामजीलाल पिता मनफूल जाति सहरिया
			124	0.32	गैर मु. पत्थर	मांगीलाल पिता गोबंदी जाति किराद निवास पाजनतोरी
		(19) छेला	26	0.3408	गैर मु. पत्थर	वन विभाग राजस्थान
			28	0.1728	गैर मु. वन	वन विभाग राजस्थान
			29	0.104	गैर मु. वन	वन विभाग राजस्थान

1	2	3	4	5	6	7
			31	0.1944	गैर मु. वन	वन विभाग राजस्थान
			41	0.652	गैर मु. वन	वन विभाग राजस्थान
			42	0.5024	गैर मु. वन	वन विभाग राजस्थान
			49	0.384	गैर मु. वन	वन विभाग राजस्थान
			50	0.699	गैर मु. वन	वन विभाग राजस्थान
			55	0.028	गैर मु. वन	वन विभाग राजस्थान
			56	0.488	गैर मु. वन	वन विभाग राजस्थान
			60	0.16	गैर मु. वन	वन विभाग राजस्थान
			62	0.2912	गैर मु. वन	वन विभाग राजस्थान
			64	0.0208	गैर मु. वन	वन विभाग राजस्थान
			66	0.1344	गैर मु. वन	वन विभाग राजस्थान
			67	0.2208	गैर मु. वन	वन विभाग राजस्थान
			88	0.0272	गैर मु. वन	वन विभाग राजस्थान
			90	0.1696	गैर मु. वन	वन विभाग राजस्थान
			92	0.704	गैर मु. वन	वन विभाग राजस्थान
		(20) कस्बाथाना	17	0.0288	चारागाह	ग्राम पंचायत
			55	0.108	चारागाह	चारागाह ग्राम पंचायत
			57	0.0064	नाला	सिवाय चक
			69	0.08	नाला	सिवाय चक
			70	0.1152	बारानी 4	जुगलकिशोर पिता निरजा रीचा शैलेजा पुत्री मुन्नीबाई बेवा चन्द्रमोहन ब्रह्मण
			72	0.022	चारागाह	चारागाह ग्राम पंचायत
			73	0.0032	गैर मु. रास्ता	सिवाय चक
			74	0.016	चारागाह	चारागाह ग्राम पंचायत
			93	0.1456	बारानी 3	रामचरण नुसारी पिता किशोरी धाकरण सोनी पुत्री किशोरी जाति तेली
			94	0.016	बारानी 2	राजु लक्ष्मण दीपक पिता प्रसादी जाति तेली
			98	0.0224	बारानी 2	नारेन्द्र सिंह पिता किशन सिंह जाति राजपुत
			99	0.011	बारानी 3	नारेन्द्र सिंह पिता किशन सिंह जाति राजपुत 1/2 मोहन गोविंदा पिता जगनी 1/2 जाति अहीर
			102	0.4	चाही 1	नारेन्द्र सिंह पिता किशन सिंह जाति राजपुत 1/2 मोहन गोविंदा पिता जगनी 1/2 जाति अहीर
			103	0.71	बारानी 3	नारेन्द्र सिंह पिता किशन सिंह जाति राजपुत
			185	0.143	चारागाह	चारागाह ग्राम पंचायत
			186	0.57	चारागाह	चारागाह ग्राम पंचायत
			188	0.2176	चारागाह	चारागाह ग्राम पंचायत
			189	0.0048	गैर मु. बाहड़	सिवाय चक
			190	0.184	गैर मु. बाहड़	वन विभाग राजस्थान
			196	0.0032	गैर मु. बाहड़	वन विभाग राजस्थान
			197	0.072	गैर मु. बाहड़	वन विभाग राजस्थान
			199	0.0544	गैर मु. बाहड़	वन विभाग राजस्थान
			201	0.284	गैर मु. बाहड़	वन विभाग राजस्थान
			202	0.499	गैर मु. बाहड़	वन विभाग राजस्थान
			210	0.269	चारागाह	चारागाह ग्राम पंचायत

1	2	3	4	5	6	7
		(21) रेवणा	41	0.0485	गैर मु.	सिवाय चक
			60	0.0485	गैर मु.	सिवाय चक
			62	0.0162	बारानी 4	राजु लक्ष्मण दीपक पिता शाकुन कुंती घुड़ी द्रोपदी पुत्री प्रसादी जाति तेली निवासी कस्बाथाना
			64	0.012	बारानी 4	लालाराम पिता देवलाल धर्मी शोभा माबुटी पुत्री देवलाल 5/18 फूलवती बेवा कालीचरण 4/18 भाबिता लाल पिता मोघो 2/3 जाति चमार
			66	0.0002	गैर मु.	सिवाय चक
			67	0.0048	बादा	ओम प्रकाश जाति लुहार निवासी कस्बाथाना
			99	0.024	बारानी 2	
			100	0.0672	बारानी 2	लालाराम पिता देवलाल धर्मी शोभा माबुटी पुत्री देवलाल 5/18 फूलवती बेवा कालीचरण 4/18 भाबिता लाल पिता मोघो 2/3 जाति चमार
		(22) खिरिया	1	0.2032	वन	वन विभाग राजस्थान
			3	0.1376	वन	वन विभाग राजस्थान
			4	0.1376	वन	वन विभाग राजस्थान
			6	0.424	वन	वन विभाग राजस्थान
			7	0.03	गैर मु.	वन विभाग राजस्थान
			11	0.2656	वन	वन विभाग राजस्थान
			12	0.34	वन	वन विभाग राजस्थान
			14	0.208	वन	वन विभाग राजस्थान
			16	0.1088	वन	वन विभाग राजस्थान

[फा. सं. भा.रा.रा.प्रा./11014/टेक./पूर्व-पश्चिम-2/एलए/कोटा/2003]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March. 2005

S.O. 338(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, number S.O. 1054 (E) dated 28th September, 2004 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section- (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule appended to that notification for the public purpose of building of National Highway No. 76 on the stretch of land from km 438/000 to km 579/000 in District Baran, in the State of Rajasthan;

And whereas the substance of the notification was published in the Rajasthan Patrika dated the 16th October, 2004 and Dainik Bhasker dated the 16th October, 2004;

And whereas, objections have been received and same has been considered and disposed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto are to be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in Schedule annexed hereto, shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Land with or without structure falling within the land stretch from km 438.000 to km 579.000 on

National Highway No. 76 in the State of Rajasthan.

Baran: District

S. No.	Name of Tehsil	Name of village	Khasra No.	Land area in (Hectare)	Nature of Soil	Type of Land	Name of the Owner
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anta.	(1) Badwa	651	0.0725	Maal 1	Private	khaniyalal Bherulal S/o dalu Jati brahman Ro. Badawati hi bara
			652	0.0816	Maal 1	Private	khenyalal Bherulal S/o dalu Jati brahman Ro. Badawati hi bara
			660	0.0375	Maal 2	Private	Bhawnar lal Meena R/o Badawadi
			661	0.0368	Maal 2	Private	Bheru S/o Amra Jati Teli
			662	0.0416	Maal 2	Private	Naryan S/o Kaluram Jati Jatav
			671	0.016	Maal 2	Private	Kedar S/o Gansi 1/2 kalulal S/o Radha Rukama kamla daughter lala Meena 1/2 R/o bundi
			672	0.012	Maal 2	Private	Ragunath Chothmal S/o Kalyan kanyabai Putriya lala Meena 1/2 R/o Bundi
			676	0.026	Maal 2	Private	Ragunath Chothmal S/o Kalyan kanyabai Putriya lala Meena 1/2 R/o Bundi
			673	0.48	Gair mu. Road	Government	PWD
			675	0.24	Gair mu. Road	Government	PWD
			668	0.0064	Rastha	Government	Sivai chak
		(2) Palaitha	924	0.72	Teer	Private	Gopal Ramprasad Banwari S/o Nanda bewa Nanda Prabhulal S/o mediya Mali Palyatha
			926	0.039	Teer	Private	Mathura lal S/o kanwara Mali R/o Palyatha
			927	0.0365	Teer	Private	Mathura lal S/o kanwara Mali R/o Palyatha

1	2	3	4	5	6	7	8
			928	0.16	Teer	Private	Mathura lal S/o kanwara Mali R/o Palyatha
			929	0.192	Teer	Private	Jangnath Chmapalal Balkishan Jagdish S/o Chenda Chodibai putri Chenda mali R/o Palyatha
			930	0.042	Teer	Government	Sivai chak
			939	0.2176	Nala	Government	Siwai chak
			940	0.0325	Teer	Private	Sukhdev S/o Ganehs kehar R/o Palyatha
			941	0.0405	Teer	Private	Sukhdev S/o Ganehs kehar R/o Palyatha
			942	0.0625	Teer	Private	Seeta bewa Dhana Onkar S/o Genda Jati Kumhar R/o Palyatha
			942/1880	0.0036	Teer	Private	Krishankumar Kedarlal Mukutbhiari Mohanlal Krishanavtar S/o Kanti bai Ratan bai Mayaji bai Savitri bai d/o Ayodhyo bai bewa Chatrubhuj 1/2 Jati Mahajan R/o Palyatha
			947	0.058	Teer	Private	Mohansingh S/o Sujansingh Rajput R/o Palyatha
			948	0.0685	&	Private	Kalyan Gayrasha Kanha Girdhari S/o Mangla Mali R/o Palyatha
			949/1997	0.0288	Teer	Private	Kanha S/o Mangla Mali R/o Palyatha
			950	0.032	Gair Mu. Nala	Government	Sivai chak
			1015	0.0325	Teer	Private	Ramkaran Panchulal S/o Dhanalal Gopli bewa Panchibai D/o Dhanalal Mali R/o Palyatha
			1016	0.034	Teer	Private	Devisanker S/o Prabhulal babar R/o Palyatha
			1019	0.021	Chai 1	Private	Temple
			1020	0.063	Gari Mu. Khadi	Government	Sivai chak
			1021	0.0465	Barani 1	Private	Temple
			1022	0.027	Barani 1	Private	Motiya S/o Moriya 1/6 Jagnanath Chempalal Balkishan Jagdish S/o Chodi bai D/o Chenda 1/6 Ramprashad S/o Ramnaryan Badam bai Pistabai D/o Gorabai bewa Ramnarayan 1/6 Panchya S/o Gopal 1/6 keshar kesturi D/o Garshya 1/6 Mali R/o Palyatha

1	2	3	4	5	6	7	8
			1023	0.0225	Barani 1	Private	Motiya S/o Moriya 1/6 Jagnanath Chempalal Balkishan Jagdish S/o Chodi bai D/o Chenda 1/6 Ramprashad S/o Ramnaryan Badam bai Pistabai D/o Gorabai bewa Ramnarayan 1/6 Panchya S/o Gopal 1/6 keshar kesturi D/o Garshya 1/6 Mali R/o Palyatha
			665	0.16	Chai 1	Private	Motiya S/o Moriya 1/6 Jagnanath Chempalal Balkishan Jagdish S/o Chodi bai D/o Chenda 1/6 Ramprashad S/o Ramnaryan Badam bai Pistabai D/o Gorabai bewa Ramnarayan 1/6 Panchya S/o Gopal 1/6 keshar kesturi D/o Garshya 1/6 Mali R/o Palyatha
			663	0.096	Chai 1	Private	Bhanwariya Ramkaran S/o Ganpat 2/3 Naryan Gopal Banwari S/o Narmdabai Kunjibai Dropdibai Naryan D/o Nathibai Bewa Nanda 7/24 Prthiviraj Ghishyu Naba D/o Kanti Bai bewa Rampraksh 1/24 Mali R/o Palyatha
			668/2032	0.0465	Barni 1	Private	Prithviraj Vishnu S/o Ramprashad Mamta bai Anuradha Anita D/o Ramprashad Kanti Bai bewa Ramprashad pancho Naba. Mata Kanti bai Mali R/o Palyatha
			669	0.088	Jav 1	Private	Bhanwarlal S/o Kajoed Mali R/o Palyatha
			671	0.068	Gair Mu. Mandir	Government	Sivai chak
			672	0.012	Rastha	Government	Sivai chak
			699	0.0005	Banjad	Government	Sivai chak
			1475	0.017	Barni 2	Private	Balchand Banjranglal S/o Kajod Mali R/o Palyatha
			1481	0.0196	Gair Mu.doal	Government	Sivai chak
			1483	0.044	Chai 1	Private	Prabhulal S/o Madiya Mali R/o Palyatha

1	2	3	4	5	6	7	8
			1487	0.0184	Banjad	Government	Sivai chak
			1488	0.0576	Nahri 2	Private	Subhan Shah S/o Rahman Shah Fakir Shah Fakir
			1489	0.016	Nahri 2	Private	Subhan Shah S/o Rahman Shah Fakir Shah Fakir
			1490	0.0097	Nahri 2	Private	Peer Tathar Khan Sayed ji
			1491	0.0614	Nahri 2	Private	Peer Tathar Khan Sayed ji
			1492	0.001	Nahri 2	Private	Peer Tathar Khan Sayed ji
			1493	0.019	Nahri 2	Government	Sivai chak
			900	0.0051	Nahri 2	Private	SehdavSingh S/o Rajendra DevSingh Rajput R/o Palyatha
			901	0.0001	Gair mu. Abadi	Government	Sivai chak
			902	0.0028	Nahri 1	Private	SehdavSingh S/o Rajendra DevSingh Rajput R/o Palyatha
			903	0.0297	Nahri 1	Private	SehdavSingh S/o Rajendra DevSingh Rajput R/o Palyatha
			904	0.0041	Nahri 1	Private	Rajendra Singh S/o Ajitsingh Rajput R/o Palyataha
			922	0.0768	Gair Mu. Naher	Private	Irrigation dept.
			1535	0.0096	Nahri 1	Private	Gobrilal Mangilal Laturlal Pushpa Parvti D/o Ganesh Chamar R/o Palyatha
			1534	0.0307	Nahri 1	Private	Gobrilal Mangilal Laturlal Pushpa Parvti D/o Ganesh Chamar R/o Palyatha
			1533	0.0077	Nahri 1	Private	Gobrilal Mangilal Laturlal Pushpa Parvti D/o Ganesh Chamar R/o Palyatha
			1532	0.0276	Nahri 1	Private	Ganshi S/o Balbha Nai R/o palyatah
			1530	0.081	Nahri 1	Private	Shyoji S/o Gopal 1/2 Chittarlal S/o Naryan Nenabai bewa Naryan 1/2 Gurjar R/o Palyataha
			1529	0.0192	Nahri 1	Private	Shyoji S/o Gopal 1/2 Chittarlal S/o Naryan Nenabai bewa Naryan 1/2 Gurjar R/o Palyataha
			1529/2039	0.0166	Nahri 1	Private	Devilal S/o Dhulilal Mali R/o Palyatha
			1526	0.0102	Nahri 1	Private	Latoor lal S/o Ramnath 1/2 Rama S/o Dewa 1/2 Mali R/o Palyataha

1	2	3	4	5	6	7	8
			1525	0.0128	Nahri 1	Private	Rajendra Singh S/o Ajitsingh Rajput R/o Palyataha
			1524	0.0166	Nahri 1	Private	Rajendra Singh S/o Ajitsingh Rajput R/o Palyataha
			1523	0.0276	Nahri 1	Private	Rajendra Singh S/o Ajitsingh Rajput R/o Palyataha
			1520	0.0256	Nahri 1	Private	Mangilal Nathulal S/o Bansilal Mishrilal S/o
			1521	0.0159	Nahri 1	Private	Mangilal Nathulal S/o Bansilal Mishrilal S/o Ramaliram Srawan S/o Jamnarayan Barman R/o Puskar Ajmer Up Farmer Chutrbui Brahman
			1518	0.0023	Nahri 1	Private	Mohanlal S/o Jaganlal Dobi R/o Palyataha
			1519	0.0056	Nahri 1	Private	Mohanlal S/o Jaganlal Dobi R/o Palyataha
			1516	0.0154	Nahri 1	Private	Narendra Kumar Mukesh Kumar S/o Gopichand Bhawnari Bai Girraj bai Santosh Bai Babli Gayarasi Sarita D/o Prembai bewa Bherulal Dhakad R/o Palvaraha
			1509	0.096	Nahri 1	Private	Bhrulal S/o Nanda 1/2 Ramkaran S/o Udaha 1/2 Jati Dobi Muna bai Mubarakbai D/o Nurmohammed Muslim 1/2 R/o Palyataha
			1507	0.0015	Nahri 1	Private	Mukutbihari Kunjbihari Shyambihari Chandpraksah S/o Swatantra bai savitribai D/o Santi bai bewa Shreenath brahman R/o Palyataha
			1287	0.0384	Nahri 1	Private	Jamnalal Ramnaryan Mathuralal Dobi R/o Palyataha
			1307	0.0092	Nahri 2	Private	Bhrulal S/o Nanda 1/2 Ramkaran S/o Udaha 1/2 Jati Dobi Muna bai Mubarakbai D/o Nurmohammed Muslim 1/2 R/o Palyataha

1	2	3	4	5	6	7	8
			1308	0.0041	Nahri 2	Private	Bhrulal S/o Nanda 1/2 Ramkaran S/o Udaha 1/2 Jati Dobi Muna bai Mubarakbai D/o Nurmohammed Muslim 1/2 R/o Palyataha
			1313	0.0054	Barani Uttam	Private	Aap Vijay singh Ji Sahab S/o Aap Ajitsingh sahab Rajput Resident Palyataha
			1317	0.0205	Nahri 2	Private	Gobrilal S/o NengaDobi R/o Palyatha
			1318	0.0196	Nahri 2	Private	Mathura lal S/o Nenga Dobi R/o Palyataha
			1321	0.006	Nala	Government	Sivai chak
			1322	0.064	Nahri 2	Private	Bismilaha bai D/o Ganshi 1/3 Najir Jafar S/o Samir Khan 2/3 Muslim R/o Palyatha
		(3) Bundi	81	0.11	Maal 2	Private	Kehniyalal S/o Mathuralal Meena R/o Dhes
			80	0.1376	Maal 2	Private	Kehniyalal S/o Mathuralal Meena R/o Dhes
			75	0.06	Maal 2	Private	Natibai Joje ki pal Jati Meena R/o Dhe
			82	0.0448	Maal 2	Private	Yahwant Marag S/o birdhi lal Nayak kenwas Tehsil Sangod
			84	0.0448	Maal 2	Private	Bherulal S/o Ganesh karan S/o Ratan Nayak R/o kanwas Tehl. Sangod
			85	0.128	Maal 2	Private	Kantibai bewa Chittar Rajesh Kumari NB. Mata Kanti bai 1/8 Chita kahani D/o Bajrang Onkar bewa Bajrang 3/8
			117	0.04	Barani 1	Private	Birdhilal S/o Jivenlal Meena R/o Telwandi Kota
			118	0.008	Gair mu. Road	Private	Hazarilal S/o Kishorilal Bramin R/o baran
			74	0.0032	Maal 2	Government	Government Khata No.1 Government of Raj.
			83	0.0448	Maal 2	Government	Government Khata No.1 Government of Raj.
			119	0.016	Rastha	Government	Government Khata No.1 Government of Raj.
		(4) Batawadi	63	0.0732	Barani 2	Private	Chotiya S/o Nanda Dhakad R/o of Palyatha
			101	0.0528	Barani 2	Private	Gopilal S/o Onkar Meena
			3	0.392	Barani 2	Private	Bheru Birdha S/o Jivenkam Meena

1	2	3	4	5	6	7	8
			16	0.0594	Barani 1	Private	Birdhilal S/o Jivenlal Meena R/o Telwandi Kota
			25	-0.112	Maal 2	Private	Ramkaran Ramkishan Devishanker S/o Heeramohani bewa herra 1/3 sanbhag kalyan S/o Madho 1/3 Jamunalal Manakchand Girjaparashad S/o Chturbhuj D/o Badribai bewa Chturbhuj 3/12 Omprakash surendra Mahendra NB. S/o Dhanalal Meena D/o Badribewas Dhanalal 1/12 Jati Dhakad
			26/552	0.111	Maal 2	Private	Champalal Satyanaryan S/o Bhulibai D/o Shantibai bewa bansi 2/3 Dawarkilal Jamnalal Mothilal S/o Shivkaran bewa kajodi bewa Shivkaran bewa husiyar bai Jatubai D/o Babulal Urmila bewa Babulal 1/15
			61	0.2752	Maal 2	Private	Lakshman singh S/o Shreepal singh Rajput R/o of The Bhumi Vikash Bank Baran
			2	0.0752	Barani 2	Private	Rambilash Behrual S/o Dwarakabai D/o Chutrubewa Gopal Jati balai
			1	0.03	Barani 2	Private	Ramnath S/o Dhuliya Meena Raskera
			62	0.0048	Maal 2	Private	Danraj Omprakash Jaiprakash S/o Chendalal Meena
			102	0.072	Barani 2	Private	Gottam Budh Devkinandan S/o Manden lal Meena R/o Panchel Kurd
			24	0.04	Maal 2	Private	Bherulal Ratanlal Jodhraj S/o Birdha 3/4 hariprakash Ompraksah NB. Mata Gordhani Badribai D/o Kesrilal 1/12 Gulab bewa Kesrilal 1/12 Jati Dhakad
			122	0.2208	Barani 2	Private	Bherulal Ratanlal Jodhraj S/o Birdha 3/4 hariprakash Ompraksah NB. Mata Gordhani Badribai D/o Kesrilal 1/12 Gulab bewa Kesrilal 1/12 Jati Dhakad

1	2	3	4	5	6	7	8
			123	0.0352	Barani 2	Private	Shukahlal Chotulal Prabhulal Mathuralal Shanker Gurjar
			354	0.064	Barani 2	Private	Shukahlal Chotulal Prabhulal Mathuralal Shanker Gurjar
			264	0.0096	Barani 2	Private	Ramnath S/o Mangla Balai
			266	0.0016	Maal 2	Private	Chittar lal babloo singh S/o kestoori bewa Amersingh Rajput
			525	0.0288	Barani 2	Private	Chittarlal S/o Tunda Mu- bewa Tunda Jati Bali
			510	0.0022	Barani 2	Private	Devendra Kumar S/o kenyalal Bramin Kethunipoll Kota
			60	0.224	Maal 2	Private	Madanlal Balmukund sunderlal Lekhraj S/o Jamnalal Chintabai Dhanibai Birdhibai D/o Jamnalal & Dwarkabai Gorabaibewa Jamnalal Jati Meena R/o H.S.G.bank Badwa
			507	0.039	Barani 2	Private	Madanlal Balmukund sunderlal Lekhraj S/o Jamnalal Chintabai Dhanibai Birdhibai D/o Jamnalal & Dwarkabai Gorabaibewa Jamnalal Jati Meena R/o H.S.G.bank Badwa
			364	0.0224	Barani 2	Private	Pabhulal Anadilal Madanlal Ramkarn S/o Amra shankri bewa Amra Motiya Birdhi Ramnathi Nati D/o Amra Chamar R/o Badawa
			508	0.024	Barani 2	Private	Pabhulal Anadilal Madanlal Ramkarn S/o Amra shankri bewa Amra Motiya Birdhi Ramnathi Nati D/o Amra Chamar R/o Badawa
			265/564	0.0013	Barani 2	Private	Pabhulal Anadilal Madanlal Ramkarn S/o Amra shankri bewa Amra Motiya Birdhi Ramnathi Nati D/o Amra Chamar R/o Badawa
			363	0.0006	Barani 2	Private	Babulal S/o kishanal Jati Meena R/o Bundi
			362	0.1424	Barani 2	Private	Birdhilal S/o Mannalal 1/2 Birdhilal S/o Ramnathi bai Kamalbai D/o Mannalal 1/2 Jati Meghwal

1	2	3	4	5	6	7	8
			353	0.0832	Maal 1	Private	Shoyram Balkishan S/o Heera Keshar Kali Pakathi Bachoo Suresh Parakashi Bhooli Nati D/o Mathuralal & Mu. Bandribai bewa Mathuralal Jati Meena R/o Bundi
			321	0.088	Maal 1	Private	Rakesh Kumar Nirmalkumar S/o Kishore Chendrakala Indra Sanju D/o Birdhibai bewa kishore 1/4 Goplibewa Mangilal 1/4 Kisorebai Gordhani bai D/o Mangilal 1/2 Bramin Batawadi
			318	0.0192	Maal 1	Private	Devilal Jankilal Dhanalal S/o Pathu 3/4 Hamraj Rajendra Laxminaryan Hansraj S/o Rampyari Manabai Dropdi Meharbai Ladbai D/o kalyani bai bewa Behrural Jati Dhakad R/o Dhana & Pathu 1/4 R/o Baran Sahakari Bhoomi Vikash Bank Baran
			267	0.0288	Maal 2	Private	Mathuralal S/o Heeralal Jati Meena R/o Bundi
			308	0.0128	Barni 2	Private	Brijeshkumar S/o Birdhilal Jati Meena R/o Bundi Hall Talwandi H.N. 575
			311	0.04	Maal 2	Private	Brijeshkumar S/o Birdhilal Jati Meena R/o Bundi Hall Talwandi H.N. 575
			315	0.04	Maal 2	Private	Brijeshkumar S/o Birdhilal Jati Meena R/o Bundi Hall Talwandi H.N. 575
			309	0.0432	Khal	Siwai chak	Siwai chak
			506	0.0096	Rastha	Siwai chak	Siwai chak
			316	0.008	Khal	Siwai chak	Siwai chak
			317	0.0272	Khal	Siwai chak	Siwai chak
			99	0.0224	Barani 2	Siwai chak	Siwai chak
			15	0.0016	Khal	Siwai chak	Siwai chak
			18	0.1008	Nala	Siwai chak	Siwai chak
			104	0.0064	Rastha	Siwai chak	Siwai chak
			544	0.384	Khal	Siwai chak	Siwai chak
			223	0.0032	Abadi	Gr.Panchyat Bijora	Abadi Land Gram Panchyant Bijora
			526	0.3376	Charagah 1	Gr.Panchyat Bijora	Abadi Land Gram Panchyant Bijora
			255	0.392	Charagah 1	Gr.Panchyat Bijora	Abadi Land Gram Panchyant Bijora

1	2	3	4	5	6	7	8
			257	0.108	Charagah 1	Gr.Panchyat Bijora	Abadi Land Gram Panchyant Bijora
			258	0.144	Abadi	Gr.Panchyat Bijora	Abadi Land Gram Panchyant Bijora
			260	0.04	Abadi	Gr.Panchyat Bijora	Abadi Land Gram Panchyant Bijora
			262	0.1536	Abadi	Gr.Panchyat Bijora	Abadi Land Gram Panchyant Bijora
			263	0.016	Gari Mu. Road	Road N.H.77	Sarvjaneek Nirman Vibhag
		(5) Thikaria	81	0.0512	Nahri 1	Irrigation	Ramesh chand S/o Mooli Chand Jaat R/o Anta
			82/849	0.0048	Nahri 1	Irrigation	Suryapraksash S/o. Ramayan Panday R/o Bamori Anta Gair
			23	0.0224	Nahri 1	Irrigation	Rameswer S/o Kishangopal R/o Palyataha
			30	0.01	Nahri 1	Irrigation	Charagahg
			85	0.1024	Nahri 1	Irrigation	Shantilal S/o Mathuralal Jati Nai R/o SBBJ Anta
			86	0.0128	Nahri 1	Irrigation	Pushpa bewa Shankarnai
			79	0.076	Gair Mu. Naher	Irrigation	Irrigation Deppt.
			151	0.0128	Gair Mu. Naher	Irrigation	Irrigation Deppt.
			153	0.0096	Gair Mu. Naher	Irrigation	Irrigation Deppt.
			152	0.0064	Gair Mu. Naher	Irrigation	Irrigation Deppt.
			38	0.0048	Nahri 1	Irrigation	Mukutbihari Kunjbihari Shyambihari Chandrpraksah S/o Swatantra bai savitribai D/o Santi bai bewa Shreenath brahman R/o Palyataha
			37/787	0.226	Nahri 1	Irrigation	Shivraj singh S/o Madhosingh Rajput Nagada
			19	0.07	Nahri 1	Irrigation	Nareshkumar S/o Shreenath Neelama D/o Shreenath Jati Bramin Palyatha
			36	0.1016	Nahri 1	Irrigation	Nirjan Singh S/o Madhosingh Rajput R/o SBBJ Palyatha
			31	0.0032	Nahri 1	Irrigation	Jankibai W/o Moolilal Brijrajsingh S/o Moolilal 1/2 Shivrajsingh S/o Rameshsingh 1/2 Jati Jaat Thikiriya R/o H.S. G. Bank Anta

1	2	3	4	5	6	7	8
			88	0.1216	Nahri 1	Irrigation	Abdul Raais Abdul Naiem S/o Nathyakhan Rasheeda bano Mehrunisha Shamim Nasim D/o Kherunisha bewa Nathe Khan R/o Anta
			154	0.1488	Nahri 1	Irrigation	Shanker S/o Devlal Jati Bramin R/o Anta
			24	0.068	Nahri 1	Irrigation	Moh. Ayub moh. Yusuf Moh. Younis Mehfoz Alam A. Jabar S/o A. Gaffar Khan R/o Anta
			28	0.544	Nahri 1	Irrigation	Brajrajsingh S/o Moolilal Jati R/o Haddoti Gramin Bank Anta
		(6) Bamori	673	0.2192	Nahri 1	Agriculture Land	Purshotom S/o Khenyalal Jati Bramin R/o Anta
			331	0.0992	Nahri 1	Agriculture Land	Mustafa Hussain S/o Sabir Hussain Ali Hussain S/o AliBhai Jati Bhora Muslim R/o Anta
			330	0.0704	Nahri 1	Agriculture Land	Mohanlal S/o Bhanwarlal Jati Mali R/o Bamori
			670/1062	0.0128	Nahri 1	Agriculture Land	Mohanlal S/o Bhanwarlal Jati Mali R/o Bamori
			670	0.0016	Nahri 1	Agriculture Land	Mohanlal S/o Bhanwarlal 1/2 Sabubai W/o Mohanlal 1/2 Jati Mali
			317	0.1952	Nahri 1	Agriculture Land	Rewadilal S/o Mathuralal Panna 19/126 Mahaveer S/o Chander Chanha Kantibai N.B. D/o ChandRani bewa 4/9 Basni bai D/o Govinda 1/3 Nandkumar S/o RamGopal Jati Meghwal R/o Gulabbari Ladpura 1/14 Note:- Int.no. 448/21-9-04 se Nandkumar S/o Ramgaopal ke Hise dh Bhoomi me se 0.16 H. Bhoomi Act.908 me Nagar Palika Anta Me Darj Hai Sivai chack
			671	0.0058	Nahri 1	Agriculture Land	Kaneez W/o Abdul Kareem 1/2 Akhtar Hussain Kamaludeen Jakirudeen S/o Abdul Kareem (Fariyad Hussain Mahmood S/o Abdul Kareem) N.B. S/o 1/2 Jati Muslim R/o Anta

1	2	3	4	5	6	7	8
			668	0.096	Nahri 1	Agriculture Land	Kalulal Bansilal S/o Jagnanath Kamlabai bewa Mohanlal Jati mu. Tamoli R/o Anta
			669	0.44	Nahri 1	Agriculture Land	Kalulal Bansilal S/o Jagnanath Kamlabai bewa Mohanlal Jati mu. Tamoli R/o Anta
			667	0.2112	Nahri 1	Agriculture Land	Nanekhan S/o Abdul Majeed Jati Muslim P/o Anta
			666	0.48	Nahri 1	Agriculture Land	ChanderBhushan S/o Chanderpraksh Jati Bramin R/o Anta
			663	0.072	Nahri 1	Agriculture Land	ChanderBhushan S/o Chanderpraksh Jati Bramin R/o Anta
			662	0.104	Nahri 1	Agriculture Land	ChanderBhushan S/o Chanderpraksh Jati Bramin R/o Anta
			642	0.3216	Nahri 1	Agriculture Land	Mahaveer Prashad S/o Umashankar Dixit Bramin R/o Shopping center Kota
			643	0.8528	Nahri 1	Agriculture Land	Jamnashankar S/o Ramjeen Dixit Bramin R/o Shopping center Kota
			559	0.1264	Nahri 2	Agriculture Land	Pipplesingh S/o Jaghsingh Jati Jat sikh
			560	0.0672	Nahri 2	Agriculture Land	Pipplesingh S/o Jaghsingh Jati Jat sikh
			557/1059	0.288	Nahri 2	Agriculture Land	Charanjit singh Bakjitsingh Daljitsingh Balvindersingh S/o Dhramsingh Jati Jatav R/o Bamori
			564	0.1488	Chahi 2	Agriculture Land	Babulal Bherulal S/o Madholal Mali R/o Bamori
			565	0.272	Jav 2 0.11	Agriculture Land	Babulal Bherulal S/o Madholal Mali R/o Bamori
			609/1022	0.16	Nahri 2	Agriculture Land	Babulal Bherulal S/o Madholal Mali R/o Bamori
			608	0.2048	Nahri 2	Agriculture Land	Nalkoop hai
			602	0.3552	Chahi 2	Agriculture Land	Rajkumar Arvindkumar S/o Omprakash Smitakumari D/o Omprakash Jati Bramin R/o Anta
			600	0.08	Chahi 1	Agriculture Land	Rajkumar Arvindkumar S/o Omprakash Smitakumari D/o Omprakash Jati Bramin R/o Anta

1	2	3	4	5	6	7	8
			598	0.16	Chahi 1	Agriculture Land	Abdul Rahaman S/o Panna Mohad. Jati Lilghar R/o Anta
			739	0.1792	Barani 1	Agriculture Land	Kali bewa Nathu 2/3 Jati Gurjar R/o Bamori Mannalal S/o Nathulal 2/3
			738	0.1792	Chahi 1	Agriculture Land	Kali bewa Nathu 2/3 Jati Gurjar R/o Bamori Mannalal S/o Nathulal 2/3
			744	0.384	Chahi 1	Agriculture Land	Kali bewa Nathu 2/3 Jati Gurjar R/o Bamori Mannalal S/o Nathulal 2/3
			759	0.352	Chahi 1	Agriculture Land	Kali bewa Nathu 2/3 Jati Gurjar R/o Bamori Mannalal S/o Nathulal 2/3
			759/993	0.0176	Nahri 1	Agriculture Land	Ramswroop S/o Surajmal Jati Bramin R/o Anta
			1130	0.048	Nahri 1	Agriculture Land	Rameshwar Gajanand Murlidhar Mohanlal Shonlal Doolichand S/o Chitra Rampyari bewa Chitra Jati Kumawat R/o Anta
			334/1019	0.16	Nahri 1	Government land	Sivai chak
			310	0.0016	Gair Mu. Dtain	Government land	Sivai chak
			665	0.8736	Gair Mu. Dtain	Government land	Irrigation deppt.
			674	0.096	Nahri 1	Government land	Sivai chak
			672	0.0192	Gair Mu. Dtain	Government land	Sivai chak
			561	0.108	Gair Mu. Khal	Government land	Sivai chak
			565/1053	0.0864	Gair Mu. Rastha	Government land	Sivai chak
			661	0.0384	Gair Mu. Nala	Government land	Sivai chak
			639	0.096	Gair Mu. Nala	Government land	Sivai chak
			749	0.0768	Gair Mu. Rastha	Government land	Sivai chak
			755	0.0576	Nahri 1	Government land	Sivai chak
			610	0.12	Nahri 1	Government land	Sivai chak

1	2	3	4	5	6	7	8
		(7) Anta	1992	1.2048	Nahri 1	Agriculture Land	Nandsingh S/o Motisingh 1/2 Ajitsingh Bhadursingh S/o Gordhansingh sultan bai bewa Gordhansingh 3/12 Permchand S/o chotulal 8/48 Moolibai W/o Ramkishan & Girjibai W/o Ganpatlal Jati kumawat 1/12 R/o Anta
			2000	0.2688	Nahri 1	Agriculture Land	Prabhulal Balik Radhyshyam N.B. S/o Bajrang 2/3 Jati Mali Bajranglal S/o Chittarlal 1/3 Jati Rathi R/o Anta
			2001	0.5376	Nahri 1	Agriculture Land	Madanlal Gulshanram Omprakash S/o Dataram 5 Shila devi Sarladevi Gudi Meera D/o Dataram Mu. Jamunadevi bewa Dataram Jati Paniabi Khatri
			1318	0.1376	Nahri 1	Agriculture Land	Madanlal Gulshanram Omprakash S/o Dataram 5 Shila devi Sarladevi Gudi Meera D/o Dataram Mu. Jamunadevi bewa Dataram Jati Paniabi Khatri
			1319	0.1376	Nahri 1	Agriculture Land	Madanlal Gulshanram Omprakash S/o Dataram 5 Shila devi Sarladevi Gudi Meera D/o Dataram Mu. Jamunadevi bewa Dataram Jati Paniabi Khatri
			1320	0.336	Nahri 1	Agriculture Land	Madanlal Gulshanram Omprakash S/o Dataram 5 Shila devi Sarladevi Gudi Meera D/o Dataram Mu. Jamunadevi bewa Dataram Jati Paniabi Khatri
			1317	0.088	Nahri 1	Agriculture Land	Madanlal Gulshanram Omprakash S/o Dataram 5 Shila devi Sarladevi Gudi Meera D/o Dataram Mu. Jamunadevi bewa Dataram Jati Paniabi Khatri
			1263	0.0128	Nahri 1	Agriculture Land	Ramswroop S/o Surajmal Jati Bramin
			1323	0.3456	Nahri 1	Agriculture Land	Khemchand & Phokarchand S/o Udaiman Jati Khatri R/o Anta
			1264	0.0128	Nahri 1	Agriculture Land	Chittarlal Bhawanishankar S/o Jangnath Jati Kumawat R/o Anta

1	2	3	4	5	6	7	8
			1398	0.4992	Nahri 1	Agriculture Land	Babulal Murlimnohar S/o Chittarlal Jati R/o Anta
			1395	0.024	Nahri 1	Agriculture Land	Abdul Hameed Farookh Ahmed Abdul Fareed Abdul Khalil Pathan Ismail Parveen Rukhshana D/o Ismail Kalo bewa Ismail Jati Muslim R/o Baran
			1394	0.3376	Nahri 1	Agriculture Land	Tejyo S/o Birdha Jati Mali
			1392	0.6624	Nahri 1	Agriculture Land	Dhanalal S/o Deviram & Jagdish Mohan S/o Bhanwariya Mu. Ramkenya Bewa Bhanwariya & Bewa Teivo Jati Mali R/o Anta
			1408	0.096	Nahri 1	Agriculture Land	Temple
			1409	0.1328	Nahri 1	Agriculture Land	Temple
			1640	0.136	Nahri 1	Agriculture Land	Temple
			1637	0.0064	Nahri 1	Agriculture Land	Abdul Fareed Abdul Shareef Abdul Gani Mohad. Shaeed Shabjadi bewa Abdul Lateef Abdul Samad S/o Mohad. Ajim khan 2/3 Abdul Majid Abdul Rauf Gaffar 1/3 Jati Muslim R/o Anta
			1638	0.0016	Nahri 1	Agriculture Land	Abdul Fareed Abdul Shareef Abdul Gani Mohad. Shaeed Shabjadi bewa Abdul Lateef Abdul Samad S/o Mohad. Ajim khan 2/3 Abdul Majid Abdul Rauf Gaffar 1/3 Jati Muslim R/o Anta
			1633	0.144	Nahri 1	Agriculture Land	Bishmilla begum bewa Noorali Syeed Ishaq Ali syeed Mukhattar Ahmed S/o Noorali Jati Muslim R/o Anta
			1634	0.048	Nahri 1	Agriculture Land	Temple
			1635	0.6624	Nahri 1	Agriculture Land	Temple
			1603	0.1152	Nahri 1	Agriculture Land	Temple
			1590	0.2784	Nahri 1	Agriculture Land	KishanChand S/o Mangilal Jati Mahajan R/o Anta

1	2	3	4	5	6	7	8
			1595	0.048	Nahri 2	Agriculture Land	Brijkala Indrabai D/o Babulal Jati Nandwana Barmin R/o Manpura
			1608	0.2304	Nahri 2	Agriculture Land	Kishanlal S/o Tekchand Jati Khatri
			1609	0.0128	Nahri 2	Agriculture Land	Kishanlal S/o Tekchand Jati Khatri
			1624	0.1536	Nahri 2	Agriculture Land	Chittarlal S/o Madho Jati Mehar
			1641	0.144	Nahri 1	Agriculture Land	Shreelal Mangilal Brijmohan S/o Natya RamBhorsi bai S/o Nathya Nathibai bewa Nathya Ramnathi bewa kishna 1/4 Kenyalal Prabhulal Pannalal S/o Bandrya Harishchand S/o Ganshyam 1/4 Klaeshchand S/o Ramnaryan 5/18 Bhooli Ramnathi D/o Tejyo baran 2/9 Jati Mali R/o Anta
			1601	0.144	Nahri 2	Agriculture Land	Temple
			1991	0.0432	Gair Mu. Dtain	Water supply	Sivai chak
			1998	0.3264	Gair Mu. Dtain	Water supply	Sivai chak
			1331	0.0576	Rastha	Rastha	Sivai chak
			1323/1888	0.344	Nahri 1	Rastha	Sivai chak
			1296	0.1376	Gair Mu. Nala	Water supply	Sivai chak
			1393	0.0384	Gair Mu. Nala	Agriculture Land	Sivai chak
			1407	0.1632	Nahri 2	Agriculture Land	Sivai chak
			1639	0.0624	Nahri 2	Agriculture Land	Sivai chak
			1310	0.1344	Gair Mu. Nahar	Irrigation	Sivai chak
			1627	0.1728	Gair Mu. Nahar	Irrigation	Sivai chak
			1529	0.768	Gair Mu. Nahar	Main Nahar	Irrigation

1	2	3	4	5	6	7	8
		(8) Barkhera	282	0.2088	Nahri 2	Private	Ramswroop satyanarayan Mukutbhirai S/o Ramchandra Gyarshibaibewa Ramchandra 1/3 2/3 & Jati Dhakad R/o SBBJ N.M. 124,156,159
			281	0.016	Nahri 2	Private	Ramswroop satyanarayan Mukutbhirai S/o Ramchandra Gyarshibaibewa Ramchandra 1/3 2/3 & Jati Dhakad R/o SBBJ N.M. 124,156,160
			283	0.369	Nahri 2	Private	Jairam S/o Chotulal Gangabai Kantibai D/o chotulal Jati Mehar
			382	0.003	Nahri 2	Private	Tulsha bewa Devlal Prabhulal Rampratap S/o Devlal Shantibai Birdhibai Radhabai D/o Devlal 1/4 Chotibai bewa Durgalal Tejkaran kishanlal Dhanraj Rameshchend S/o Durgalal 1/4 Chothmal 1/4 Amra 1/4 S/o Bhura Jati Gurjar R/o Bamuliya Kalyna
			299	0.0504	Barani 1	Private	Moolchand Satyanaryan S/o Ramkishan Ramkenya bai Rukmani D/o Ramkishan Onkari bai bewa Ramkishan Nurka D/o Mathura 2/3 Rambabu S/o Dhanalal S/o Kedar bai Dhanalal 1/3 Jati Mehar
			298	0.0704	Barani 1	Private	Prithviraj S/o Mohanlal & surajbai Dwarkabai Dhanibai D/o Ganshi Jati Chamar
			287	0.176	Chahi 3	Private	Hariom S/o Lala Jati Dhakad N.M. 157
			302	0.0352	Gair Mu. Rastha	Government	Sivai chak
			301/538	0.016	Chahi 2	Private	Rambabu S/o Dhanalal Jati Mehar N.M. 142
			323	0.216	Nahri 2	Private	Chitya S/o Jagnanath Jati Dhakad N.M. 142
			334	0.0441	Chahi 3	Private	Rampratap S/o Manalal Jati Dhobi
			335	0.132	Nahri 2	Private	Rama S/o Bishna Jati Meghwal N.M.3

1	2	3	4	5	6	7	8
			361	0.4032	Nahri 2	Private	Shivraj Jagdish Ramswroop Girraj Satyanaryan Dhanraj S/o Shree Krishna Jati Dhakad R/o Jagdish Shivraj Girraj 3/6 SBBJ Anta N.M. 163.179
			370	0.2088	Nahri 2	Private	Ramdhan Ramehschad S/o Bherulal Pushabai bewa Jati Dhakad
			371	0.1152	Nahri 2	Private	Ramgopal S/o Nandkishore Geetabai Rameshbai Manbharbai D/o Nandkishore Birdhibai bewa Nandkishore 1/3 Girdhari Govinda S/o Kahna 2/3 Jati Dhakad
			372	0.144	Chahi 2	Private	Shivraj Jagdish Ramswroop Girraj Satyanaryan Dhanraj S/o Shree Krishna Jati Dhakad R/o Jagdish Shivraj Girraj 3/6 SBBJ Anta N.M. 163.179
			126	0.0064	Barani 1	Private	Shivraj Jagdish Ramswroop Girraj Satyanaryan Dhanraj S/o Shree Krishna Jati Dhakad R/o Jagdish Shivraj Girraj 3/6 SBBJ Anta N.M. 163.179
			373	0.1584	Nahri 2	Private	Hariom S/o lala & Jugalkishore Nawalkishore Virendra kumar S/o Hariom Jati Dhakad R/o Jagdish Shivraj Girraj 2/3 SBBJ Anta N.M. 163.179
			374	0.094	Nahri 2	Private	Panachand S/o Gopilal Sitabai D/o Gopilal Jati Dhakad N.M. 185
			377	0.035	Nahri 2	Private	Heeralal Jamnalal Birdhilal S/o Panalal & Ramjanki bai D/o Panalal Gopibaibewa Panalal Jati Dhakad R/o <u>Bhoomi Vikash Bank Baran</u>
			380	0.064	Nahri 2	Private	Tulsha bewa Devlal Prabhulal Rampratap S/o Devlal Shantibai Birdhibai Radhabai D/o Devlal 1/4 Chotibai bewa Durgalal Tejkarani kishanlal Dhanraj Rameshchend S/o Durgalal 1/4 Chothmal 1/4 Amra 1/4 S/o Bhura Jati Gurjar R/o Bamuliya Kalyna

1	2	3	4	5	6	7	8
			381	0.0544	Nahri 2	L.H.	Temple
			378	0.0128	Nahri 2	L.H.	Temple
			322	0.05	Nahri 2	Private	Temple
			297	0.048	Barani 1	Private	Temple
			320	0.0896	Gair Mu. Nala	Private	Kishore S/o Panalal Chotibai Pushpabai D/o Panalal Jati Chamar
			303	0.0368	Nahri 2	Private	Kishore S/o Panalal Chotibai Pushpabai D/o Panalal Jati Chamar
			321	0.0224	Nahri 2	Private	Kishore S/o Panalal Chotibai Pushpabai D/o Panalal Jati Chamar
			383	0.008	Nahri 2	Private	Tejkaran S/o Panalal Chotibai Pushpabai D/o Panalal Jati Chamar
			94	0.007	Gair Mu. Chah.	Private	Leela kumari W/o Satyanaran Jati Bramin
			96	0.0014	Barani 1	Private	Leela kumari W/o Satyanaran Jati Bramin
			101/519	0.0184	Maal 1	Government land	Sivai chak
			100/518	0.0048	Chahi 1	Private	Ramavatar S/o Kamlashankar Mamta D/o kamlashankar Kalavati W/o Kamlashankar 1/2 Shivnaryan S/o Phoolchand 1/2 Jati Gurjar R/o Bamuliya kalyna N.M. 164
			98	0.005	Barani 1	Private	Shreekrishna Prabhulal Radhyshyam S/o Mohanlal Kanchanbai Kaleshbai Rambilashi bai Ombai D/o Mohanlal Jati Dhakad
			277	0.0896	Nahari 2	Private	Vimla Kumari D/o Madanmohan Jati Mahajan R/o Anta
			379	0.0448	Nahari 2	L.H.	Temple
			273	1.1124	Nahari 2	Private	Ramkalyan Ramanand S/o surajmal Mangibai Prembai D/o Surajmal Jati Dhakad
			274	0.018	Nahari 2	Private	Ramanand S/o Surajmal Jati Dhakad N.M. 143
			301	0.2136	Chahi 2	Private	Moolchand Satyanaryan S/o Ramkishan Ramkenya bai Rukmani D/o Ramkishan Onkari bai bewa Ramkishan Nurka D/o Mathura 2/3 Rambabu S/o Dhanalal S/o Kedar bai Dhanalal 1/3 Jati Mehar

1	2	3	4	5	6	7	8
			302	0.0352	Gair Mu. Rastha	Government land	Sivai chak
			360	0.0576	Gair Mu. Rastha	Government land	Sivai chak
			101	0.006	Maal 1	Private	Rameshchand S/o Madholal Jati Bramin N.M. 117,175
		(9) Bamoliya Maharaj	823	0.365	Barani 2	Private	Shyamlal Ramavatar S/o Phoolchand Vimla Mamta Raju D/o Poolchand & Kanyabai bewa Phoolchand 1/4 Babulal chothmal S/o Devlal 1/2 Lalitabai bewa Birdhilal 1/4 Jati Gurjar .
			959	0.02	Gair Mu. Rastha	Private	Abdul Razzaq S/o Abdul Hameed Jati Muslim R/o Lalburj Kota
			960	0.045	Chahi 1	Private	Abdul Razzaq S/o Abdul Hameed Jati Muslim R/o Lalburj Kota
			972	0.008	Barani 1	Private	Madanlal S/o Mangla Jati Teli
			955	0.0064	Maal 1	Private	Adhlya S/o Moghya Jati Moghya
			948	0.004	Maal 1	Private	Shantibai bewa Nangram Jati Khatik Non .
			989	0.0056	Gair Mu. Khadi	Government Land	Sivai chak
			991	0.07	Gair Mu. Khadi	Government Land	Sivai chak
			990	0.16	Barani 3	Private	Kishanlal S/o Jagnath Jati Gurjar Murshin all khata Bhoomi Vikash Bank Shakha Anta
			992	0.4808	Barani 3	Private	Ramraj S/o Mangilal Jati Paswan
			1040	0.05	Maal 1	Private	Madanlal S/o Kenyalal badrilal Suresh kumar Nareshkumar S/o Madanlal Jagmohan S/o Savitabai Renubai D/o Tulsha bewa Choonilal Jati Gurjar
			1044/1079	0.064	Maal 2	Private	Bherulal S/o Bhura Jati Mali Paswan
			837	0.875	Gair Mu. Khadi	Government	Sivai chak

1	2	3	4	5	6	7	8
			950	0.3205	Maal 1	Private	Bansilal Motilal S/o Ganeshram Jayna Unokh Kali D/o Ganeshram 5/6 Mahaveer Dinesh S/o Manjubai Kalibai Roshanbai D/o Kastooribai bewa Chitarlal 1/6 Jati Mali
			951	0.2416	Maal 1	Private	Ramcharan S/o Bherulal Jati Mali R/o State bank of Bikaner and Jaipur
			953	0.176	Maal 1	Private	Prabhu S/o Ganshi Jati Chamar Non .
			913	0.39	Maal 1	Private	Ramnaryan Ganshyam S/o Bajrang Mujanya bewa Bajrang Jati Mek 913/1 52 & 2/3 Ganshyam o Jana Bhoomi Vikash Bank R/o Baran
			912	0.2288	Maal 1	Private	Ramswroop Ganshyam S/o Bajrang Janya bewa Bajrang Jati Mer 9/2 2.6 & 2/3 Ganshyam Jayanabai Bhoomi Vikash Bank
			911	0.0032	Maal 1	Private	Ramswroop Ganshyam S/o Bajrang Janya bewa Bajrang Jati Mer 9/2 2.6 & 2/3 Ganshyam Jayanabai Bhoomi Vikash Bank
			905	0.0032	Maal 1	Private	Madho S/o Birdhi Jati Mali
			769	0.1152	Barani 2	Private	Nandkishore S/o Nolya Pholabai Chotabai Pushpabai D/o Nolya 1/2 Mohanlal S/o Bajrangi Janki D/o 1/2 Jati koli
			820	0.0128	Barani III	Private	Gobrilal Ganshilal S/o Birdhilal Jati Mali
			818	0.09.	Gair mu. Miner	Government Land	Irrigation dept.
			540	0.216	Gair mu. Miner	Government Land	Irrigation dept.
			966	0.0016	Chahi 2	Private	Gobrilal Ganshilal S/o Birdhilal Jati Mali
			962	0.0208	Barani 1	Private	Ramgopal S/o Mathuralal Jati Dhakad .
			538	0.0256	Nahri 2	Private	Arjunkumar Mahendra kumar S/o Pritam Jati Khatri R/o Anta
			539	0.0576	Nahri 2	Private	Arjunkumar Mahendra kumar S/o Pritam Jati Khatri R/o Anta

1	2	3	4	5	6	7	8
			542	0.352	Nahri 2	Private	Arjunkumar Mahendra kumar S/o Pritam Jati Khatri R/o Anta
			906	0.072	Maal 1	Private	Changanlal S/o Gopilal 174/598 Jati Mali Govind Maheswar S/o Rajendra Kumar 125/598 Jati Anta Bhanwarlal Badrilal
			636	0.2025	Barani 1	Private	Ragunadan Moolchand Chendramohan Brijmohan shyambhari Mukutbhirai S/o Nathulal Kanchenbai bewa Nathulal Santosh Kamlesh D/o Kamlesh Jati Bramin
			637	0.03	Gair Mu. Chah.	Government Land	Sivai chak
			656	0.081	Gair Mu.Rastha	Government Land	Sivai chak
			684	0.108	Barani	Government Land	Sivai chak
			715	0.04	Gair Mu. Chah.	Government Land	Sivai chak
			773/1066	0.0016	Barani 2	Government Land	Sivai chak
			634	0.2408	Chahi 2	Private	Kishanchand S/o Mangilal Jati Mahajan R/o Anta centarl Bank of india NTPC
			633	0.5576	Chahi 1	Private	Gulabchand Mahajan Govindlal Shivnarayan S/o Gulabchand Chamlibai W/o Gulabchand Jati Gurjar
			668	0.024	Chahi 1	Private	Komalraj S/o Sitaram Jati Dhakad
			662	0.5432	Chahi 1	Private	Tejkaran S/o Kasrilal Jati Gurjar
			667	0.0896	Chahi 1	Private	Tejkaran S/o Kasrilal Jati Gurjar
			666	0.0192	Chahi 1	Private	Ramzani S/o Chand khan Suwani bewa Chand khan Kaniza & Kallo D/o Chand khan Jati Muslim
			664	0.0896	Chahi 1	Private	Ramzani S/o Chand khan Suwani bewa Chand khan Kaniza & Kallo D/o Chand khan Jati Muslim
			714	0.16	Chahi 1	Private	Babulal Radhyshyam S/o Ramnaryan 1/2 Ramgopal S/o Bajranglal 1/2 Jati Dhakad

1	2	3	4	5	6	7	8
			713	0.0768	Chahi 1	Private	Bhart Chotya S/o Gomda Jati Mali
			712	0.096	Chahi 1	Private	Bhart Chotya S/o Gomda Jati Mali
			711	0.1215	Chahi 1	Private	Nandkishore Kalulal S/o Parvati D/o Onkari bewa Amarlal Jati Gurjar
			708	0.304	Chahi 1	Private	MadanMohan S/o Ramnath Jati Bramin .
			709	0.0192	Gair Mu. Chah	Private	MadanMohan S/o Ramnath Jati Bramin .
			702	0.201	Chahi 2	Private	Narvda D/o Shukha Jamnalal Ramgopal S/o Ganeshram 3/4 Suraj S/o Nandraj Sonu kiran D/o Nandlal Chanderkanta Nandlal 1/4 S/o D/o Mata Chanderkanta Jati Koli
			774	0.144	Chahi 2	Private	Prabhulal S/o Motilal Jati Mali
			773	0.1476	Chahi 2	Private	Bhanwarlal S/o Moghya 1/2 Mangli bewa Bhima Chitarlal Bhima Ramnathi Badribai D/o Bhima Meghwal
			776	0.046	Chahi 2	Private	Bhanwarlal S/o Moghya 1/2 Mangli bewa Bhima Chitarlal Bhima Ramnathi Badribai D/o Bhima Meghwal
			777	0.0585	Barani 1	Private	Bhanwarlal S/o Moghya 1/2 Mangli bewa Bhima Chitarlal Bhima Ramnathi Badribai D/o Bhima Meghwal
			721	0.002	Chahi 1	Private	Bajranglal S/o Shukdav Jati Kumhar
			699	0.0048	Gair Mu. Rastha	Government Land	Sivai chak
			645	0.0288	Gair Mu. Rastha	Government Land	Sivai chak
			717	0.028	Chahi 1	Private	Najrudeen Anverudeen Mohammed Hanif S/o Hussain Bax Moh. Jatun bewa Hussain bax Jabun D/o Hussain bax Jati Muslim
			716	0.098	Chahi 1	Private	Alladeen S/o Badrudeen Bai bewa Badrudeen Jati Muslim
			663	0.108	Chahi 1	Private	Ramkaran S/o Mohanlal Jati Mali

1	2	3	4	5	6	7	8
			647	0.0168	Chahi 1	Private	Himatraj S/o Sitaram Jati Dhakad N.M.285
			644	0.052	Chahi 1	Private	Pukhraj S/o Sitaram Jati Dhakad
			642	0.064	Barani 1	Private	Chotelal S/o Pathulal Jati Bramin
			641	0.0112	Chahi 2	Private	Kishanlal S/o Mangilal Jati Mahajan R/o Anta
			638	0.0832	Barani 1	Private	Ragunadan Moolchand Chendramohan Brijmohan shyambhiari Mukutbhirai S/o Nathulal Kanchenbai bewa Nathulal Santosh Kamlesh D/o Kamlesh Jati Bramin
			614	0.34	Chahi 3	Private	Rameshwar S/o Modholal Jati Bramin
			775	0.09	Chahi 2	Private	Bhanwarlal S/o Mongya 1/2 Mangli bewa Bhima Chitarlal S/o Bhima Ramnathi BadriBai D/o Bhima Jati Meghwal
			909	0.036	Maal 1	Private	Mohasina S/o Motilal 1/2 Shamad S/o Shkoor Najma Senaf D/o shkoor Mohasina bewa shkoor 1/2 Jati Muslim
			906	0.0002	Maal 1	Private	Chaganlal S/o Gopilal 174/598 Jati Mali
			961	0.1888	Barani 1	Private	Chitarsingh S/o Dhoolsingh Jati Rajpoot
			962/1075	0.0208	Beed	Private	Shyamlal Ramavatar S/o Phoolchand Vimla Mamta Raju D/o Poolchand & Kanyabai bewa Phoolchand 1/4 Babulal chothmal S/o Devlal 1/2 Lalitabai bewa Birdhilal 1/4 Jati Gurjar .
			820/1077	0.02	Gair mu. Abadi	Government land	Sivai chak
			821	0.0672	Barani 2	Private	Sivai chak
			908	0.072	Chahi 3	Private	Dhana S/o Madholal 1/2 Jagdish Radhyashyam S/o Pana Jati Dhakad
			769	0.1152	Barani 3	Private	Nandkishore S/o Nolya Pholabai Chotabai Pushpabai D/o Nolya 1/2 Mohanlal S/o Bajrangi Janki D/o 1/2 Jati koli

1	2	3	4	5	6	7	8
			617	0.008	Nahri 2	Private	Bherulal Bhanwarlal Kishanlal Chendraprakash S/o Devlal Jati Gurjar
			628	0.044	Chahi 1	Private	Bansilal S/o Chetra ChendraMohan S/o Badrilal Jati Dhakad
			656	0.081	Gair Mu. Rastha	Government land	Sivai chak
			18	0.048	Gair Mu. Rastha	Government land	Ashasood bewa Piyush Sood Shahil Sood S/o Piyush sood Jati Sood R/o Kota
			19	0.0336	Gair Mu. Chah.	Government land	Ashasood bewa Piyush Sood Shahil Sood S/o Piyush sood Jati Sood R/o Kota
			20	0.0192	Chahi 2	Private	Ashasood bewa Piyush Sood Shahil Sood S/o Piyush sood Jati Sood R/o Kota
			21	0.003	Gair mu. Mainer	Government land	Irrigation dept.
			952	0.033	Maal 2	Private	Budhsingh S/o Bajrang singh Jati Rajput
			727	0.054	Gair mu. Nala	Government land	Sivai chak
			739	0.09	Gair mu. Sadak	Government land	P.W.D.
			1046	0.05	Maal 2	Private	Devlal S/o Bhanwarlal Jati Gurjar
			665	0.0512	Chahi 1	Private	Latoorlal S/o Dhanalal Jati Koli
2 Baran	(1) Batawada		436	0.0736	Nala	Government	Siwai chak
			444	0.1552	Barani II	Private	Motilal S/o Shankerlal Mankanwari D/o Shankerlal Jati Kumhar
			445	0.0078	Barani I	Private	Motilal S/o Shankarlal 1/10 Jati Kumhar Ganshyam Omparakash S/o Gopal 1/10 Jati Luhar
			446	0.009	Nahari II	Private	Kamla bai Ramkishan Jati Brahamin R/o Uko Bank Baran
			522	0.07	Chahi I	Private	Kamla bai Ramkishan Jati Brahamin R/o Uko Bank Baran
			518	0.0336	Chahi I	Private	Kamla bai Ramkishan Jati Brahamin R/o Uko Bank Baran

1	2	3	4	5	6	7	8
			528	0.0003	Chahi I	Private	Badrilal Surajmal Ramkishan Sarwan Dhanraj S/o Jagnath Jadav Bewa Jaganath Etc.
			525	0.016	Chahi I	Private	Ramkishan Ramkalyan Ramgopal Ramprashad S/o Chittarlal Pushpa Bai D/o Chittarlal Kela Bai Bewa Chittarlal Jati Meena
			322	0.0016	Jaav	Private	Ramkishan Ramkalyan Ramgopal Ramprashad S/o Chittarlal Pushpa Bai D/o Chittarlal Kela Bai Bewa Chittarlal Jati Meena
			326	0.248	Kheda	Private	Ramkishan Ramkalyan Ramgopal Ramprashad S/o Chittarlal Pushpa Bai D/o Chittarlal Kela Bai Bewa Chittarlal Jati Meena
			524	0.08	Chahi I	Private	Kalulal S/o Heeralal Jati Meena
			507	0.072	Nahari II	Private	Kalulal S/o Heeralal Jati Meena
			523	0.09	Chahi I	Private	Natibai Jaoje Ramkalyan Jati Meena
			521	0.0608	Chahi I	Private	Ginshi bai D/o Bherulal Jati Meena
			505	0.04	Beed	Private	Ginshi bai D/o Bherulal Jati Meena
			516	0.0016	Chahi I, Jaav I	Private	Badrilal S/o Tunda Meena R/o Raskhera
			515	0.0003	Chahi I	Private	Badrilal S/o Tunda Meena R/o Raskhera
			517	0.016	Chahi I	Private	Nandkishore S/o Gopilal Jati Meena
			509	0.064	Nahari II, Kughj	Private	Nandkishore S/o Gopilal Jati Meena
			211	0.765	Mall I	Private	Nandkishore S/o Gopilal Jati Meena
			514	0.0225	Nahar	Government	P.W.D.
			513	0.016	Chahi I, Jaav I	Private	Madanlal S/o Jagnath & Dhakha D/o Jagnath 1/2 Ramdayal Etc.
			803	0.2625	Mall I	Private	Madanlal S/o Jagnath & Dhakha D/o Jagnath 1/2 Ramdayal Etc.
			506	0.032	Beed	Private	Madanlal S/o Jagnath & Dhakha D/o Jagnath 1/2 Ramdayal Etc.
			512	0.0528	Chahi I, Jaav I	Private	Madanlal S/o Jagnath Jati Meena

1	2	3	4	5	6	7	8
			502	0.1152	Nahari II	Private	Madanlal S/o Jagnath Jati Meena
			508	0.014	Nahari II	Private	Ramgopal S/o Chittarlal Jati Meena
			504	0.0096	Nahari II	Private	Kedarlal S/o Motilal Jati Meena
			500	0.0768	Chahi I Jaav I	Private	Kedarlal S/o Motilal Jati Meena
			492	0.19	Chahi I	Private	Kedarlal S/o Motilal Jati Meena
			490	0.009	Nahari II	Private	Kedarlal S/o Motilal Jati Meena
			501	0.036	Nahari II	Private	Jailal S/o Kahana 1/3 Ramkanya Bewa kahana 1/3 Radhyshayma Etc.
			491	0.0064	Chahi II Jaav II	Private	Chodhmal S/o Naga Jati Meena
			493	0.0048	Chahi II Jaav II	Private	Chodhmal S/o Naga Jati Meena
			494	0.0002	Chahi II Jaav-II	Private	Chodhmal S/o Naga Jati Meena
			391	0.0384	Rastha	Government	Siwai chak
			336	0.1288	Beed	Private	Gobrilal S/o Mangilal Jati Meena
			321	0.0192	Mall I	Private	Nathuram S/o Karmalal Jati Khati
			167	0.0063	Mall I	Private	Nathuram S/o Karmalal Jati Khati
			805	0.152	Mall I	Private	Nathuram S/o Karmalal Jati Khati
			338	0.2176	Mall I	Private	Lal singh S/o Kansingh Jati Rajput
			339	1.044	Nahari I	Private	Lal singh S/o Kansingh Jati Rajput
			233	0.0032	Mall I	Private	Chittarlal Ramprashad S/o Prabhu lal Gordhanibai Santosh bai D/o Prabhulal Jati Mali
			232	0.2976	Mall I	Private	Dhanni bai bewa Jatiram & Gopal/Sohanlal Rameshwar S/o Jairam Jati nai
			231	0.027	Mall I	Private	Dhanni bai bewa Jatiram & Gopal/Sohanlal Rameshwar S/o Jairam Jati nai
			229	0.1485	Mall I	Private	Dhanni bai bewa Jatiram & Gopal/Sohanlal Rameshwar S/o Jairam Jati nai
			227	0.012	Mall I	Private	Madanlal Surajmal Nandkishore Ramsharan S/o Badrilal Chotibai bewa Badrilal Jati Meena

1	2	3	4	5	6	7	8
			228	0.0768	Mall I	Private	Ramchander S/o Heeralal Jati Meena R/o Mundla Bishodi
			204	0.2688	Mall I	Private	Madanmohan S/o Ramkishan Jati Brahamin 1/3 Govind S/o Rambabu 1/3 Harimohan etc.
			184	0.022	Rastha	Government	Siwai chak
			182	0.0864	Nalie	Government	Siwai chak
			180	0.009	Maal I	Private	Chotibai W/o Badrilal Ramsharan S/o Badrilal Jati Meena
			181	0.0936	Maal I	Private	Jaiprakash S/o Surajmal Jati Panjabi R/o Baran Etc.
			183	0.0432	Maal I	Private	Jaganath Ragunath S/o Moolchand 1/3 Satayanarayan Laxminaryan Birdhilal S/o Pushapa Etc.
			177	0.032	Maal I	Private	Jaganath S/o Gopal Jati Nai
			802	0.198	Maal I	Private	Jaganath S/o Gopal Jati Nai
			210	0.5568	Maal I	Private	Ramkalyan S/o Chittarlal Jati Meena
			176	0.0348	Maal I	Private	Surendra Rajendra Narendra Jankilal Yogesh Rajesh Etc.
			164	0.016	Maal I	Private	Badrilal Surajmal Ram kishan Sarwan Dhanraj S/o Jagnath etc.
			795	0.39	Maal I	Private	Rajendra Kumar S/o Ramswroop Jati Mahajan
			807	0.012	Maal I	Private	Mukeshchand S/o Nathuram Jati Jangid
			154	0.24	Government	Government	P.W.D.
		(2) Haripura	1	0.08	Nalie	Government	Siwai chak
			2	0.096	Maal I	Private	Lalit kumar S/o Sunder lal Jati Mahajan
			7	0.0928	Maal I	Private	Lalit kumar S/o Sunder lal Jati Mahajan
			3	0.608	Gair Mu.Sadak	Government	P.W.D.
			39	0.0992	Gair Mu.Sadak	Government	P.W.D.
			4	0.0032	Gair Mu. Rastha	Government	Siwai chak

1	2	3	4	5	6	7	8
			8	0.0992	Maal I	Private	Manju W/o Satyaendra kumar Jati Mahajan
			10	0.1248	Maal I	Private	Siwai chak
			11	0.1296	Maal I	Private	Ramcharan S/o Devlal Jati Gushai
			30	0.1056	Maal I	Private	Temple
			31	0.1484	Maal I	Private	Temple
			32	0.1536	Maal I	Private	Ramshwroop Jugalkishore S/o Prabhulal Nath
			38	0.112	Maal I	Private	Chotulal S/o Bherulal Jati Meena
			37	0.0576	Maal I	Private	Gograj S/o Goru Jati Meena
			40	0.0048	Gair Mu. Rastha	Government	Siwai chak
			43	0.185	Mall I	Private	Ramhet Murari Jagdish Chturbhuj Doolichand Omprakash S/o Prahalad Jati Meena 1/2 Chotu lal S/o Bharu Lal 1/2.
			42	0.1024	Mall I	Private	Ramhet Murari Jagdish Chturbhuj Doolichand Omprakash S/o Prahalad Jati Meena Chotulal S/o Bherulal Meena
			44	0.0988	Mall I	Private	Surja Beti Jeeven Jati Meena
			45	0.0032	Mall I	Private	Bhanwari Bewa Jati Nayank
		(3) Fatehpur	186	0.0256	G.M. Rasta	Government	Siwai chak
			188	0.0013	Banzer	Government	Siwai chak
			189	0.0048	Banzer	Government	Siwai chak
			433	0.0128	Banzer	Government	Siwai chak
			435	0.0096	Banzer	Government	Siwai chak
			1211	0.048	G.M. Rasta	Government	Siwai chak
			1220	0.024	G.M. Rasta	Government	Siwai chak
			1221	0.0192	G.M. Rasta	Government	Siwai chak
			1222	0.03	G.M. Rasta	Government	Siwai chak
			1223	0.0128	G.M. Rasta	Government	Siwai chak
			1249	0.0003	G.M. Talai	Government	Siwai chak
			556	0.0144	Caaragah	Government	Charagah

1	2	3	4	5	6	7	8
			555	0.032	Caaragah	Government	Charagah
			432	0.0064	G.M. Rasta	Government	P.W.D.
			933	0.0672	G.M. Sadak	Government	P.W.D.
			197	0.024	G.M. Minar	Government	Irreg. Depart.
			203	0.032	G.M. Minar	Government	Irreg. Depart.
			207	0.0096	G.M. Minar	Government	Irreg. Depart.
			212	0.0544	G.M. Minar	Government	Irreg. Depart.
			1206	0.016	G.M. Minar	Government	Irreg. Depart.
			1202	0.24	G.M. Minar	Government	Irreg. Depart.
			1251	0.0192	G.M. Minar	Government	Irreg. Depart.
			723	0.04	G.M. Nahar	Government	Irreg. Depart.
			198	0.024	G.M. Minar	Government	Irreg. Depart.
			199	0.0256	G.M. Minar	Government	Irreg. Depart.
			202	0.064	G.M. Minar	Government	Irreg. Depart.
			431	0.016	G.M. Minar	Government	Irreg. Depart.
			987	0.352	G.M. Minar	Government	Irreg. Depart.
			450	0.01	G.M. Minar	Government	Irreg. Depart.
			449	0.048	Nahari-II	Private	Mangilal, Chatera etc.S/o Narayan
			448	0.4032	Nahari-II	Private	Mangilal, Chatera etc.S/o Narayan
			447	0.2016	Nahari-II	Private	Mangilal, Chatera etc.S/o Narayan
			446	0.088	Nahari-II	Private	Mangilal, Chatera etc.S/o Narayan
			445	0.0016	Nahari-II	Private	Mangilal, Chatera etc.S/o Narayan
			452	0.01	Nahari-II	Private	Mangilal, Chatera etc.S/o Narayan
			557	0.2544	Nahari-I	Private	Kanheya Lal, S/o Badri Lal
			443	0.0016	Nahari-II	Private	Kasri lal S/o Dalu
			444	0.03	Nahari-II	Private	Kasri lal S/o Dalu
			201	0.0656	Nahari-II	Private	Kasri lal S/o Dalu
			454	0.0128	Nahari-II	Private	Suraj Mal., Ram Swaroop S/o Gajanan

1	2	3	4	5	6	7	8
			440	0.2	Nahari-I	Private	Mohd. Basir S/o Nathe Shah
			441	0.16	Nahari-II	Private	Mohd. Basir S/o Nathe Shah
			436	0.144	Nahari-II	Private	Prahlad, Rameshwar, Hajari Lal, RAM Prasad etc. S/o Chaturbhuj
			437	0.144	Nahari-II	Private	Prahlad, Rameshwar, Hajari Lal, RAM Prasad etc. S/o Chaturbhuj
			438	0.288	Nahari-I	Private	Bhim Raj S/o Radhe Lal
			434	0.0016	Nahari-II	Private	Chatara S/o Panna Dhaker
			934	0.032	G.M. CHA.	Private	Ramswroop Purshotom Balmukund Khemraj 1/3 Ramjankibai D/o Shreelal 1/3 Bhemraj S/o Radhyalal 1/3 Bramin N.N. 760,762
			935	0.032	Chahi-I	Private	Siwai chak
			932	0.1728	Nahari-I	Private	Rajendra, Jag Mohan etc. S/o Shravan
			147/ 2259	0.0336	Nahari-II	Private	Mohini Bai W/o Narmdeshwer
			147	0.0032	Nahari-II	Private	Mohini Bai W/o Narmdeshwer
			931	0.056	Nahari-I	Private	Uma Devi W/o Ram Prasad
			931/ 2270	0.0672	Nahari-I	Private	Prabhu Lal S/o Devi Lal
			196	0.0272	Nahari-I	Private	Nemi Chand S/o Bheru Lal
			206	0.064	Nahari-I	Private	Gandi Lal S/o Dalu
			137	0.224	Nahari-II	Private	Kelashbai bewa Babulal 1/3 Ramnath Ramprashad S/o Shankar 2/3 Jati Harijan
			211	0.048	Nahari-I	Private	Kishan Bai etc. W/o Moti Singh
			208	0.0048	Nahari-I	Private	Kishan Bai etc. W/o Moti Singh
			213	0.0016	Nahari-I	Private	Kishan Bai etc. W/o Moti Singh
			976	0.064	Nahari-II	Private	Kanheya Lal etc. S/o Gandi Lal
			1210	0.1056	Nahari-I	Abadi	Onkar, Gajanan, Ganesh S/o Mathura
			1205	0.008	Nahari-I	Private	Khem Raj S/o Chaturbhuj
			1204	0.0704	Nahari-I	Private	Jagdish, Bhawani Shanker S/o Chanda
			1219	0.2784	Nahari-I	Private	Jagdish, Bhawani Shanker S/o Chanda
			1201	0.016	Nahari-I	Private	Jagdish S/o Magan Lal
			992	0.016	Nahari-I	Private	Jagdish S/o Magan Lal
			1212	0.024	Nahari-I	Private	Mathura S/o Kajol
			980	0.144	Nahari-II	Private	Sita Devi W/o Dhanna Lal
			988	0.0448	Nahari-II	Private	Sita Devi W/o Dhanna Lal
			979	0.0096	Nahari-II	Abadi	Sita Devi W/o Dhanna Lal

1	2	3	4	5	6	7	8
			981	0.0016	Nahari-II	Private	Sita Devi W/o Dhanna Lal
			991	0.0256	Nahari-I	Private	Sita Devi W/o Dhanna Lal
			989	0.0006	Nahari-I	Private	Sita Devi W/o Dhanna Lal
			1240	0.0288	Nahari-I	Private	Mathuralal Ramprashad S/o Jankilal Kasturibai S/o Manibai bewa Jankilal Dhakad R/o Sambalpur
			1241	0.16	Nahari-I	Private	Mathura Ram Prasad S/o Janki
			1243	0.096	Nahari-I	Abadi	Ratanlal Gajanand S/o Champalal Kesar bewa Champalal Jati Dhakad R/o Sambalpur
			1242	0.304	Nahari-I	Abadi	Seema W/o Vijy Sharma
			1247	0.3168	Nahari-I	Private	Seema W/o Vijy Sharma
			1203	0.1024	Nahari-I	Private	Balmukand S/o Chaturbhuj
			1207	0.0736	Nahari-I	Private	Prabhu Lal S/o Mangi Lal
			1208	0.0128	Nahari-I	Private	Prabhu Dayal S/o Chhitar Lal
			970	0.152	Nahari-I	Private	Bajarang Lal etc. S/o Jagannath
			969	0.0003	Nahari-I	Private	Bajarang Lal etc. S/o Jagannath
			1248	0.2752	Nahari-I	Private	Hari Mohan S/o Ram Kishan
			1250	0.1152	Nahari-I	Private	Hansraj S/o Kallu Prasad
			997	0.0512	Nahari-I	Abadi	Shive Narayan S/o Sukha Lal
			998	0.032	Nahari-I	Private	Shive Narayan S/o Sukha Lal
			999	0.112	Nahari-I	Private	Shive Narayan S/o Sukha Lal
			971	0.072	Nahari-I	Private	Ram Karan S/o Sukha Lal
			972	0.064	Nahari-I	Private	Ram Karan S/o Sukha Lal
			973	0.112	Nahari-I	Private	Ram Karan S/o Sukha Lal
			937	0.2112	Nahari-I	Private	Mohan Lal, Govardhan S/o Madho
			938	0.192	Nahari-I	Private	Mohan Lal, Govardhan S/o Madho
			941	0.0128	Nahari-I	Private	Ram Prasad S/o Duli Chand
			949	0.432	Nahari-I	Private	Laxman, Mangiya S/o Hira
			955	0.0256	Nahari-I	Private	Laxman, Mangiya S/o Hira
			954	0.0006	Nahari-I	Private	Bherulal Chtersingh Chernsingh S/o Laxman Mohnibai S/o Laxman 1/8 & Rambhrosh Papu S/o Manghya Gudibai D/o Manghya 1/8 Para Ganga 3/4 Jati Jatav
			977	0.0384	Nahari-II	Private	Mangilal S/o Chirmoli
			948	0.18	Nahari-I	Private	Mangilal S/o Chirmoli
			978	0.0544	Nahari-II	Abadi	Mangilal etc. S/o Laxmani

1	2	3	4	5	6	7	8
			982	0.08	Nahari-II	Private	Mangilal etc. S/o Laxmani
			1195	0.032	Nahari-I	Private	Radhe Shyam S/o Nathu Lal
			983	0.18	Nahari-II	Private	Ramkanya Bai W/o Shiv Narayan
			950	0.0128	Nahari-I	Private	Hem Raj, Dolat Ram S/o Balya
			1000	0.128	Nahari-I	Private	Rambeer Kumar , Kishor etc. S/o Hemraj
			200	0.0128	Nahari-I	Private	Suraj Mal, Mahabeer etc. S/o Shri Lal
		(4) Chandpur	14	0.08	G.M. Sadak	Government	P.W.D.
			18	0.0192	G.M. Sadak	Government	P.W.D.
		(5) Sambalpur	19	0.0352	Abadi	Abadi	Gram Panchayat Sambelpur
			28	0.248	Abadi	Abadi	Radhyakishan S/o Mangilal Gurjar 60 Sec.Meter Kacca Room Gram Panchyat Khel 25 Sec.Meter Pucci
			34	0.056	G.M.Abad i	Government	Gram Panchayat Sambelpur
			31	0.008	Bide	Private	Dhanna S/o Dhuliya
			32	0.008	Nahari-II	Private	Dhanna S/o Dhuliya
			39	0.0224	Rasta	Government	Siwai chak
			40	0.1056	Abadi	Government	Gram Panchayat Sambelpur
			358	0.4112	Nahari-II	Private	P.WD.Shri Thakurji Tempel's land
			288	0.0008	Nahari-II	Private	Bhanwer Lal S/o Khana
			293	0.008	Nahari-II	Private	Bhanwer Lal, Gajanan S/o Khana
			366	0.0608	Nahari-II	Private	Prasadilal S/o Narotamlal Jati Balai R/o Pehela The. Karal Distt. Shyopur (M.P.)
			359	0.2448	Nahari-II	Private	Gajanand S/o MathuraLal
			280	0.2496	Barani-II	Private	Ram Kishan etc. S/o Gyarsa (1/2) Goverdhan etc. S/o Madan(1/2)
			281	0.2688	Barani-II	Private	Nainga etc. S/o Kaliya
			282	0.1792	Barani-II	Private	Nainga etc. S/o Kaliya
			283	0.3296	Barani-II	Private	Nainga etc. S/o Kaliya

1	2	3	4	5	6	7	8
			284	0.0384	G.M. Rasta	Private	Ganshilal Ratanlal Babu S/o Kahna Radhabai Shantibai D/o Kahna 1/4 Gangaram Babulal S/o Nathya Dhakhabai D/o Nathya 1/4 Hariram Manoj Radhyshyam S/o Ramnath Kelabai Sayudabai D/o Ramnath Rampyari bewa Ramnath 1/4 Dhana S/o Goru 1/4 Jati Saher
			285	0.3072	Barani-II	Private	Ganshilal Ratanlal Babu S/o Kahna Radhabai Shantibai D/o Kahna 1/4 Gangaram Babulal S/o Nathya Dhakhabai D/o Nathya 1/4 Hariram Manoj Radhyshyam S/o Ramnath Kelabai Sayudabai D/o Ramnath Rampyari bewa Ramnath 1/4 Dhana S/o Goru 1/4 Jati Saher
			276	0.0928	G.M. Nahar	Government	Siwai chak
			287	0.0112	G.M. Rasta	Government	Siwai chak
			36	0.0224	G.M. Rasta	Government	Siwai chak
			41	0.7264	Abadi	Government	Siwai chak
			367	0.0432	Charagah	Government	Gram Panchayat Sambelpur
			367/ 464	0.0064	Charagah	Government	Gram Panchayat Sambelpur
			327	0.1344	Charagah	Government	Gram Panchayat Sambelpur
			328	0.096	Charagah	Government	Gram Panchayat Sambelpur
			33	0.0032	Charagah	Government	Gram Panchayat Sambelpur
			333	0.9216	Nahari-I	Private	Balmukand S/o Ramnaryan Jati Dhakad
			342	0.2976	Nahari-I	Private	Chittar S/o Ramnaryan Jati Dhakad
			324	0.4608	Nahari-I	Private	Jodhraj S/o Hira Lal 2/3 Suresh S/o HiraLal 1/6 deru Widow of Hira Lal 1/6
		(6) Kalyanpur Ghata	238	0.096	G.M. Nahar	Government	P.W.D.
			257	0.1024	Nahari-II	Private	Pawan Kumar S/o Madan Mohan

1	2	3	4	5	6	7	8
			261	0.0672	Nahari-II	Private	Mangilal, Ram Charan S/o Hattya
			259/321	0.1408	Barani-II	Private	Ramesh Chander S/o Vitthal(1/2), Draoupadi W/o Ripusadan, Bhairav Dutt S/o Ripusadan, Kali Bai etc D/o Ripusadan, Lila Bai D/o Ripusadan(1/2)
			276	0.0032	Barani-II	Private	Ramesh Chander S/o Vitthal(1/2), Draoupadi W/o Ripusadan, Bhairav Dutt S/o Ripusadan, Kali Bai etc D/o Ripusadan, Lila Bai D/o Ripusadan(1/2)
			277	0.208	Barani-II	Private	Ramesh Chander S/o Vitthal(1/2), Draoupadi W/o Ripusadan, Bhairav Dutt S/o Ripusadan, Kali Bai etc D/o Ripusadan, Lila Bai D/o Ripusadan(1/2)
			279	0.0032	Barani-II	Private Land	Jagannath S/o Sheobaksh
			237	0.128	Nahari-II	Private Land	Ram Kishan S/o Mangilal
			255/ 311	0.8064	Nahari-II	Private Land	Ram Kishan S/o Mangilal
			255	0.464	Nahari-II	Private Land	Ram Kishan S/o Mangilal
			257/ 310	0.0384	Nahari-II	Private Land	Ram Kishan S/o Mangilal
			256	0.3456	Nahari-II	Private Land	Laxmi Bai D/o Moti Lal
3	Kishanganj	(1) Rani Barod	414/859	0.512	Barani So.		Mohan Meghdoot Dayaram Premraj Narayan Rammurti Geeta D/o Naryan Gayatri Bewa Naryan Jati Mali Ranibarod
			769	0.0768	Gair Mu. Rastha		Government of Rajasthan
			387	0.5248	Barani So.		Jaghmohan S/o Sarwanlal Jati Jatav R/o Fethapur
			392	0.0384	Khall		Government of Rajasthan
			404	0.576	Barani So.		Vinod Bhiari Punant Bhirai Kunjbhiari BrijBhiari Prabhan Vithil Bhiari Chendrvati PrakashVati GayanVati Satyavati Dayavati Leelavati Mamta Pradhan Kirtgadevi bewa vithil Bihari Jati Kayasth R/o Kishanganj

1	2	3	4	5	6	7	8
			418	0.416	Barani So.		Maffe Peer Shahab Baseer Nazeer Wazeer Gulmohammed S/o Nuriya Gobri Bai bewa Nuriya 1/3 Chand S/o Ramzani 1/3 Keshwa S/o Periya 1/3 Jati Muslim
			412	0.112	Barani So.		Chendrakela Guddi D/o Poolilal Chotibai Bewa Moolilal Jati Ranibarod
			366	0.384	Gair Mu. Sadak		PWD
			766	0.0128	Barani II		Ramswroop S/o Surajmal Gurjar
			657/886	0.096	Barani II		Mangilal S/o Nandkishore Jati Brahamin
			659	0.4416	Barani II		Prabhulal S/o Shukhlal Mali R/o Ranibaroad
			659/1	0.128	Barani II		Chaganlal S/o Shukhlal Mali R/o Ranibarod
			660	0.192	Khall		Government of Rajasthan
			671	0.384	Barani So.		Likayat Ali Sharif S/o Babu Khan Mariyam Mooli D/o Babukhan 1/2 Abdul Whaeed S/o Ashraf Ali 1/2 Jati Muslmaan R/o Kishanganj
			666	0.48	Barani So.		Ginshibai Joje Payar Mohammed Muslim Ranibarod
			662	0.1056	Barani So.		Mangilal Ramcharan Sharwankumar Nandkishore Jagdish Prabhulal Jaati Kumhar R/o Kishanganj
			662/843	0.0448	Barani So.		Chittarlal Namichand Omprakash S/o Jamnalal 5/6 Mangibai Bewa Jamnalal 1/6 Jati Luhar kishanganj
			762	0.6176	Barani So.		Ramkaran Dhanraj Sanjyo Prabhan Sitaram 5/6 Prabdabai bewa Sitaram Gurjar 1/6 R/o Ranibarod
			766/869	0.1056	Barani So.		Kelash bai W/o Prabhulal Gurjar
			760	0.048	Nala		Government of Rajasthan
			774	0.544	Barani So.		Ramkaran Dhanraj Sanjyo Prabhan Sitaram 5/6 Prabdabai bewa Sitaram Gurjar 1/6 R/o Ranibarod

1	2	3	4	5	6	7	8
			775	0.0096	Gair Mu. Chah.		Ramkaran Dhanraj Sanjyo Prabhan Sitaram 5/6 Prabdabai bewa Sitaram Gurjar 1/6 R/o Ranibarod
			776	0.0448	Nahar		Irregation Department
			777	0.256	Barani So.		Girjabai W/o Rameshchand Bramin Ranibarod
			771	0.0032	Barani So.		Ramkaran Dhanraj Sanjyo Prabhan Sitaram 5/6 Prabdabai bewa Sitaram Gurjar 1/6 R/o Ranibarod
			778/809	0.24	Barani So.		Girjabai W/o Rameshchand Bramin Ranibarod
			788	0.32	Pathar		Government of Rajasthan
		(2) Kishanganj	779	0.0144	Chahi I	Private	Manohar S/o Gordhan Jati Dhakad
			1428	0.0003	Gair Mu.Chah.	Private	Rameshchand S/o Kalyanmal Jati Brahmin
			1432	0.192	Barani So.	Private	Rameshchand S/o Kalyanmal Jati Brahmin
			546	0.8576	Barani So.	Private	Trilokchand S/o Bansilal kalal
			1380	0.1408	Barani So.	Private	Krishnmurari S/o Dhanalal Kantibai Madhubai Natibai Dwarkanbai D/o Dhanalal 1/4 Rameshchand S/o Prabhulal 1/4 Bherulal Kalulal Banshilal S/o Heeralal Dhaliebai Birdhibai D/o Heeralal 5/12 Devishankar Mahaveer Chandarprakash Hansraj S/o Jagdish Rajesh bai D/o Kelashbai Bewa Jagdish 1/12 Jati Dhakad
			1444	0.032	Barani So.	Private	Jagdish Tejya S/o Heera Badam Shanti Chota D/o Heera Panachi Bewa 5/6 Shankar Tolaram Jugraj S/o Narayan Keshar D/o Narayan Ramnathi Bewa Narayan 1/6 Jati Sahariva
			1447	0.3565	Barani So.	Private	Kishanlal S/o Ramchander Jati Chamar R/o Iklera
			562	0.4928	Barani So.	Private	Brijmohan S/o Manghya Jati Gurjar
			562/1	0.0162	Barani So.	Private	Heeralal S/o Manghya Jati Gurjar
			545/1535	0.16	Barani So.	Private	Devilal Gajanand S/o Ramchander Jati Dhakad R/o BansThuni

1	2	3	4	5	6	7	8
			565	0.0081	Gair Mu. Chah.	Private	Chandalal Bhawanishankar Ganesh Bhoolibai Ganesh 1/3 Bhawariya S/o Monghya 1/3 Chotulal Balram S/o Bajrang Jati Dhakad
			629	0.448	Chahi So.	Private	Tulsiram S/o Kahana Chita Dwarka Shanti Anshu D/o Khana 5/7 Babulal Satyanaryan Ramswaroop Radhyashyam S/o Heeralal Basnti Jayanki Chandi D/o Heeralal Ameribai Bewa Heeralal 1/7 Ghanshyam 1/7 Radhyashyam S/o Dhanalal Ghishibai Bewa Dhanalal 4/7 Jati Dhakad
			571	0.0162	Barani I	Private	Moolchand S/o Gajanand Jati Dhakad
			787/1	0.2976	Maal So.	Private	Nathulal Kahnyalal Hamraj Doolichand S/o Gangaram Jati Dhakad
			715/1533	0.128	Maal So.	Private	Nandkishore Jankilal Roopnaryan Naryanlal Jagdish Prashad S/o Bherulal Goolab bai Bherulal Dhakad
			787/2	0.128	Maal So.	Private	Nandkishore Jankilal Roopnaryan Naryanlal Jagdish Prashad S/o Bherulal Goolab bai Bherulal Dhakad
			787/1542	0.0162	Maal So.	Private	Nandkishore Jankilal Roopnaryan Naryanlal Jagdish Prashad S/o Bherulal Goolab bai Bherulal Dhakad
			1449/1	0.1134	Gair Mu. Forest	Government	Sivai Chak
			1399	0.256	Nala	Government	Sivai Chak
			1443	0.0646	Nala	Government	Sivai Chak
			1457/1	0.0324	Gair Mu. Forest	Government	Government
			1449	1.0248	Gair Mu. Forest	Government	Forest Department
			1453	0.608	Gair Mu. Forest	Government	Forest Department
			1457	0.16	Gair Mu. Forest	Government	Forest Department

1	2	3	4	5	6	7	8
			786	0.0324	Gair Mu. Ch.	Private	Nathulal Kahnyalal Hamraj S/o Gangaram 1/2 Bhanwarlal S/o Baldav 1/2 Jati Dhakad
		(3) Hirapur	397	0.2025	Forest	Government	Forest Department
			401	0.5834	Forest	Government	Forest Department
			421	0.0842	Barani II	Private	Abdul Gani S/o Laal Khan Jati Muslmaan
			421/1	0.032	Barani II	Private	Nishar Ahmed S/o Laal Khan Jati Muslmaan
			425	0.079	Barani II	Private	Hmeed Whaeed Gaffar S/o Mooner Khan Fakroo N.B. S/o Faryaad N.B. Walie Hmeed Salim Kalu Khan S/o Shkoor Shaboo Bewa Shkoor Jati Muslmaan
			426	0.1377	Barani II	Private	Hmeed Whaeed Gaffar S/o Mooner Khan Fakroo N.B. S/o Faryaad N.B. Walie Hmeed Salim Kalu Khan S/o Shkoor Shaboo Bewa Shkoor Jati Muslmaan
			427	0.1134	Barani II	Private	Azaad Rashid S/o Idho bewa Amadoo Jati Muslmaan Rashid N.B. Walie Mata
			428	0.0324	Barani II	Private	Gool Mohammed S/o ChoteKhan Jati Muslmaan
		(4) Bansthuni	169	0.064	Charagah	Government	Charagah
			170	0.048	Barani III	Private	Vimala Devi W/o Madanlal Jati Dhobi R/o Kishanganj
			171	0.0256	Barani III	Private	Ramesh S/o Bherulal Jati Lodha R/o Jalawar
			172	0.024	Barani III	Private	Ramesh S/o Bherulal Jati Lodha R/o Jalawar
			173	0.0128	Barani III	Private	Sultan Khan S/o Wazeer Khan Jati Muslim R/o Heerapur
			174	0.1206	Barani III	Private	Sultan Khan S/o Wazeer Khan Jati Muslim R/o Heerapur
			179/640	0.0064	Barani III	Private	Natulal S/o Madan Nath 1/4 Babulal Jodhranj S/o Madannath 3/4 Jati Nath

1	2	3	4	5	6	7	8
			180	0.032	Barani III	Private	Prabhulal S/o Khana 1/4 Gajanand Ramkishan S/o Ganshi 2/6 Shanakriya Kalyan S/o Deva 1/6 Ganshyam Jagdish S/o Tundiya Kamlabai Bewa Tundiya 1/8 Jankilal N.B. S/o Gopal Kalabai Bewa Gopal N.B. Kalabai 1/24 Kalulal S/o Kanchan bai Bewa Mathura 1/24 Jati Shariya R/o Heerapur
			182	0.016	Barani III	Private	Sultan Khan S/o Wazeer Khan Jati Muslim R/o Heerapur
			185	0.0064	Rastha	Government	Sivai Chak
			186	0.048	Barani III	Private	Pana Ramesh S/o Ramnath Jati Shariya R/o Heerapur
			187	0.0192	Nadi	Government	Sivai Chak
			188	0.0288	Forest	Government	Forest Department
			190	0.0336	Barani III	Private	Devlal Gopal Amarlal Ramkuwar Panchya Kahnya S/o Gokul Gomdi D/o Gokul Chokoli bai bewa Gokul 1/2 Nanga S/o Tunda 1/2 Jati Gurjar
			192	0.0144	Nadi	Government	Sivai Chak
			195	0.1312	Barani III	Private	Gopal Moriya S/o Naryan 2/3 Girraj Ramlal (Balik) Papu N.B. S/o Kallu Kalyani Bewa Kallu 1/3 Jati Shariya
			199	0.208	Barani III	Private	Natulal S/o Dhanalal Jamna Bai Bewa Dhanalal Jati Shariya
			194	0.1104	Barani III	Private	Nanga S/o Tunda Jati Gurjar
			44	0.0972	Barani III	Private	Devlal Prabhu Moti Gangaram Bishna S/o Panchaya Jati Shariya R/o Heerapur
			44/644	0.081	Barani III	Private	Shankrji Joje Panchaya Jati Shariya
			46	0.0972	Barani III	Private	Dhoolilal S/o Gayrashiram 1/2 Ramchander Panalal S/o Gandhya 1/2

1	2	3	4	5	6	7	8
			47	0.1215	Barani III	Private	Leelabai D/o Ramkalyan Jati Brahmin R/o Kishanganj
			48	0.1134	Barani III	Private	Mohanibai D/o Goriya Jati Shariya R/o Barkhera
			50	0.0648	Barani III	Private	Nathulal S/o Kajod Puniya N.B. S/o Babu Jahayna Bewa Babu N.B. Papu S/o Kalyan 1/4 Kahana Chotya S/o Gholiya 1/4 Jankilal Sharwan Ramdayal Rajendar S/o Sariya Dooli Bewa Sariya 1/4 Jati Sahariya
			51	0.0162	Barani III	Private	Maharaj Anwar S/o Naimudeen R/o Bhisti Pada Kota Mohammed Nateen S/o Mohammed Ali R/o Phool Bhiari Mandir Patan Poll Kota Jati Muslim
			52	0.0567	Barani III	Private	Shankrji D/o Kaliya Jati Shariya
			54	0.0648	Barani III	Private	Babulal Gyarashiram Papu N.B. S/o Sarwan Guddi D/o N.B. Kamlabai Bewa Sarwan Jati Harizen
			93	0.0034	Sadak	Government	Forest Department
			95	0.032	Khada	Government	PWD
			96	0.08	Sadak	Government	PWD
			97	0.048	Sadak	Government	PWD
			98	0.0567	Chattan	Government	Sivai Chak
			99	0.0368	Sadak	Government	PWD
		(5) Faldi	33	0.194	Gair Mu. Barda	Government	Sivai Chak
		(5) Rampuriya	26	0.0736	Forest	Government	Forest Department
			27	0.016	Forest	Government	Forest Department
			61	0.0816	Forest	Government	Forest Department
			68	0.07104	Charagah	Government	Gram Panchyat Bansthuni
			29	0.0304	Khera II	Private	Kahnyalal S/o Ramnarayan Mahsvery
			58 / 2	0.032	Khera II		Gram Panchyat
			15	0.0567	Abadi	Abadi	Gram Panchyat

1	2	3	4	5	6	7	8
			12	0.08	Abadi		Gram Panchyat
			3	0.4051	Forest	Government	Forest Department
			5	0.0162	Abadi		Gram Panchyat
		(7) KapdiKher	36	0.0321	Nahari Beed	Private	Ramshingh S/o Nandsingh Jati Jaat Kaprikhera S/o Mahendrasingh S/o Mhanendarsingh Jati Shikh Jaat 1/6
			41	0.1164	Nahari Beed	Private	Raghuveer singh S/o Nandusingh Jati Jaat R/o Kaparikhera
		(8) Bhanwar Garh	922	0.16	N.B.1	Private	Bhanwarlal S/o Shreelal Jati Jaat
			923	0.1152	N.B.1	Private	Rajaram S/o Nandkishore Jaati Jaat
			924	0.1088	N.B.1	Private	Manoj kumar S/o Shankarsingh Jaati Jaat
			925	0.064	N.B.1	Private	Indrabai W/o Brij Mohan Jaati Jaat
			933	0.0576	Gair Mu. Rastha	Government	Sivai Chak
			934	0.0096	N.B.1	Private	Ramesh Chand S/o Badrilal Jaati Brahamin
			937	0.0992	N.B.1	Private	Ramesh Chand S/o Badrilal Jaati Brahamin
			935	0.0672	N.B.1	Private	Radhyashyam S/o Hargovind Jaati Jaat
			152	0.208	N.B.1	Private	Radhyashyam S/o Hargovind Jaati Jaat
			936	0.1024	N.B.1	Private	Amarlal Mootbana Thkoliya Jati Dhakad
			938	0.144	N.B.1	Private	Abdul Shafi Abdul Gaffar S/o Peer Khan Febra S/o Noor Khan Babu S/o Morkhan Mariyam Jumi D/o Morkhan Ibra Abdul Whaeed Abdul Shakoor 1/2 Ashagar Ali 2/2 Jijmaan Khan Jati Muslim
			939	0.448	N.B.1	Private	Mahendra Kumar S/o Bhawaniram Jati Jatav
			940	0.128	N.B.1	Private	Chaturbhuj S/o Jagnath Jati Jaat
			941	0.112	N.B.II	Private	Chaturbhuj S/o Jagnath Jati Jaat
			942	0.08	N.B.1	Private	Chaturbhuj S/o Jagnath Jati Jaat
			947	0.0384	Gair Mu. Nahar	Government	Sivai Chak

1	2	3	4	5	6	7	8
			909	0.1568	N.B.1	Private	Madanlal Durgalal S/o Gordhan 2/3 Devlal S/o lalu 1/2 Jati Dhakad
			910	0.1536	N.B.1	Private	Omprakash S/o Devlal 1/2 Shankar S/o Khemchand 1/2 Jati Dhakad
			911	0.1024	N.B.1	Private	Purshotam S/o Haribhalab 1/6 Madangopal 1/6 S/o Champalal 1/6 Harishchand S/o Kishangopal 1/6 Gajendra Mahendra Mohan S/o Chendranarayan R/o Baran 1/3 Urmila W/o Chittarlal R/o Jalwara 1/2 Shasi W/o Chanderprakash R/o Baran 1/2 Bhagwati bai Goonmaliya Bewa ChanderNarayan 1/2 Ravindra kumar Indresh Kumar S/o Umashankar bai bewa Umashankar Jati Mahajan
			915	0.08	N.B.1	Private	Purshotam S/o Haribhalab 1/6 Madangopal 1/6 S/o Champalal 1/6 Harishchand S/o Kishangopal 1/6 Gajendra Mahendra Mohan S/o Chendranarayan R/o Baran 1/3 Urmila W/o Chittarlal R/o Jalwara 1/2 Shasi W/o Chanderprakash R/o Baran 1/2 Bhagwati bai Goonmaliya Bewa ChanderNarayan 1/2 Ravindra kumar Indresh Kumar S/o Umashankar bai bewa Umashankar Jati Mahajan
			191	0.144	N.B.1	Private	Purshotam S/o Haribhalab 1/6 Madangopal 1/6 S/o Champalal 1/6 Harishchand S/o Kishangopal 1/6 Gajendra Mahendra Mohan S/o Chendranarayan R/o Baran 1/3 Urmila W/o Chittarlal R/o Jalwara 1/2 Shasi W/o Chanderprakash R/o Baran 1/2 Bhagwati bai Goonmaliya Bewa ChanderNarayan 1/2 Ravindra kumar Indresh Kumar S/o Umashankar bai bewa Umashankar Jati Mahajan

1	2	3	4	5	6	7	8
			158	0.056	Nahari Banzad	Private	Purshotam S/o Haribhalab 1/6 Madangopal 1/6 S/o Champalal 1/6 Harishchand S/o Kishangopal 1/6 Gajendra Mahendra Mohan S/o Chendranarayan R/o Baran 1/3 Urmila W/o Chittarlal R/o Jalwara 1/2 Shasi W/o Chanderprakash R/o Baran 1/2 Bhagwati bai Goonmaliya Bewa ChanderNarayan 1/2 Ravindra kumar Indresh Kumar S/o Umashankar bai bewa Umashankar Jati Mahajan
			914	0.0864	N.B.1	Private	Kalu S/o Gopal Jati Jaat Mandir
			222	0.16	N.B.1	Private	Kalu S/o Gopal Jati Jaat Mandir
			224	0.192	N.B.1	Private	Kalu S/o Gopal Jati Jaat Mandir
			745	0.648	N.B.1	Private	Chittarlal S/o Balmukund Jaat Brahamin
			746	0.68	N.B.1	Private	Motilal S/o Prabhulal Jati Khakti
			708	0.0288	N.B.1	Private	Dineshchand S/o Chaturbhuj Brahamin
			710	0.032	N.B.1	Government	Sivai Chak
			742	0.08	N.B.1	Government	Sivai Chak
			734	0.064	N.B.1	Government	Sivai Chak
			732	0.096	N.B.1	Government	Sivai Chak
			744	0.352	N.B.1	Private	Chittar Bhagwati S/o Nanda Monghya S/o Khana 1/2 Jati Dhakad
			743	0.08	N.B.1	Private	Chittar Bhagwati S/o Nanda Monghya S/o Khana 1/2 Jati Dhakad
			741	0.12	N.B.1	Private	Motilal S/o Bhagchand 1/2 Rameshchand Mangilal Laxman/Bhojaya Dhakha Parwati Chamalie Bewa Madholal 1/2
			1205	0.0096	N.B.1	Private	Motilal S/o Bhagchand 1/2 Rameshchand Mangilal Laxman/Bhojaya Dhakha Parwati Chamalie Bewa Madholal 1/2
			736	0.16	N.B.I	Temple	Temple
			715	0.32	N.B.I	Temple	Temple

1	2	3	4	5	6	7	8
			733	0.096	N.B.I	Private	Harishchand Ganshyam S/o Heeralal Narani Bewa Heeralal 1/2 Balmukund Jankilal Kahnyalal S/o Motilal Ramkanya Champa Kalie D/o Motilal Bartan bai S/o Girdhari Ramakishore Laxman S/o Jairam Dkhabai bewa Jairam Jajaya D/o Sarswati bewa Madanlal 1/2 Jati Kolie
			731	0.0384	Khandi	N.H.76	N.H.76
			135	0.0288	N.B.I	Private	Madanlal Kahnyalal Kadarlal Keshv S/o Lattor Jati Khati
			139	0.048	N.B.I	Private	Mohammed Ismile Mohammed Ibrahim Mohammed Ishaaq S/o Shajad Khan Ajijan Bewa Shajad Khan Jati Muslim
			140	0.064	N.B.II	Private	Devlal S/o Bherulal Jati Dhakd
			726	0.436	N.B.I	Private	Jogendra kumar Ashok kumar Harishchand S/o Bherulal Balchand bai Urmila bai Gayatribai D/o Bherulal Jati Jaat
			727	0.16	N.B.I	Private	Jogendra S/o Bherulal Jati Jaat
			728	0.128	N.B.I	Private	Jogendra S/o Bherulal Jati Jaat
			719	0.0672	N.B.I	Government	Sivai Chak
			714	0.16	N.B.I	Government	Sivai Chak
			713	0.096	N.B.I	Government	Sivai Chak
			717	0.0128	N.B.I	Government	Sivai Chak
			718	0.1344	N.B.I	Private	Umashankar S/o Badrilal Jati Brahamin
			720	0.0003	N.B.I	Private	Umashankar S/o Badrilal Jati Brahamin
			716	0.128	N.B.I	Private	Kallu Amarlal Chotya S/o Ramlal Badalibai Gulabbai D/o Ramlal 1/2 Balkishan Ashok S/o Tarachand Pushpabai Bewa Tarachand 1/2 Balram S/o Bherulal Jati Dhakad
			712	0.32	N.B.I	Private	Hukumchand Brijmohan S/o Rajaram Jati Jatav
			711	0.0013	N.B.I	Private	Ganesh Mohan Gulabchand Ghanshyam S/o Motilal Reshmobewa Motilal 1/2 Govindlal S/o Shukhlal 1/2 Jati Khati

1	2	3	4	5	6	7	8
			218	0.576	N.B. So	Private	Dhremdra S/o Hargovind Jati Jaat
			201	0.364	N.B. So	Private	Balmukund S/o Gorioya Jati Dhakad
			1429	0.0256	N.B. So	Private	Balmukund S/o Gorioya Jati Dhakad
			214	0.16	N.B. So	Private	Kamla bai W/o Balmukund Jati Dhakad
			202	0.0208	N.B. So	Private	Mangilal Bhagwanlal S/o Mangla Chanderkanta Vimla Nati Bai D/o Sardar bai Bewa Mangla Dhakad
			196	0.256	Barani So.	Government	Sivai Chak
			197	0.128	Gair Mu. Nala	Government	Sivai Chak
			200	0.48	Banzad	Government	Sivai Chak
			190	0.0032	Gair Mu. Nala	Government	Sivai Chak
			1270	0.064	N.B.	Government	Sivai Chak
			205	0.032	N.B. II	Private	Balram S/o Bheru Jati Dhakad
			203	0.1066	N.B. III	Private	Babulal S/o Ramnarayan Jaati Dhakad
			192	0.048	N.B. So.	Private	Heera D/o Laxminarayan Dhakad
			176	0.192	N.B. So.	Private	Heera D/o Laxminarayan Dhakad
			188	0.016	N.B. So.	Private	Mohan Babu Deva S/o Kallu & Panchu Raju Prahalad S/o Guddi Meena D/o Bepan bewa Prabhu Jati Harizen
			160	0.032	N.B. III	Private	Salagram S/o Anadilal Jati Jaat
			151	0.0064	Nahari Banzad	Private	Salagram S/o Anadilal Jati Jaat
			1409	0.0128	Forest	Land of Forest	Forest Department
			1490	0.192	Forest	Land of Forest	Forest Department
			1489	0.128	Forest	Land of Forest	Forest Department
			1491	0.192	Forest	Land of Forest	Forest Department
			1488	0.064	Forest	Land of Forest	Forest Department
			1487	0.096	Forest	Forest	Forest Department
			1486	0.16	Forest	Forest	Forest Department
			1485	0.224	Forest	Forest	Forest Department
			66	0.256	Forest	Forest	Forest Department

1	2	3	4	5	6	7	8
			39	0.2885	Forest	Forest	Forest Department
			41	0.128	Forest	Forest	Forest Department
			43	0.144	Forest	Forest	Forest Department
			44	0.0672	Forest	Forest	Forest Department
			31	0.176	Forest	Forest	Forest Department
			30	0.16	Forest	Forest	Forest Department
			48	0.192	Forest	Forest	Forest Department
			49	0.224	Forest	Forest	Forest Department
			62	0.1568	Forest	Forest	Forest Department
			1497	0.32	Forest	Forest	Forest Department
			223	0.08	Forest	Forest	Forest Department
			234	0.096	Forest	Forest	Forest Department
			1495	0.0272	Forest	Forest	Forest Department
			1498	0.16	Nahari Barani	Government	Sivai Chak
			1449	0.0096	Barani Chah.	Private	Premnaryan S/o Jammalal Urmila D/o Jammalal AudhyaBewa Jammalal 1/2 Chaturbhuj Babulal Ramchader Omprakash S/o Nanda Janki Gulalb Gomda D/o Nanda & Tulshi bewa Nada 2/3 Jati Dhakad
			1451	0.064	Barani Chah.	Private	Brijkishore S/o Maturalal Jati Brahmin
			1448	0.0128	Barani Chah.	Private	Ramnarayan S/o Kishanlal Jati Dhakad
			1457	0.0256	Barani So.	Private	Hariom S/o Ramgopal Jati Meena R/o Rampura Bhagatan The. Mangrol
			1459	0.0288	Barani So.	Private	Papu S/o Mohanlal Jati Jangal Patwa 1/2 Padmabai W/o Surendrakumar Mahajan 1/2
			1464	0.0384	Barani So.	Private	Vidhyabai W/o Rameshwerprashad 1/2 Jati Meena Sorkand Kasturi bai W/o Teja lal Jati Meena R/o Meelabas The. Meelabas Disstrict dosha
			1499	0.0176	Barani So.	Private	Pushi D/o Narshya & Dholie Bewa Narshya Jati Sahariya
			1506	0.032	Barani So.	Private	Mohanlal S/o Bajranglal & Govind lal S/o Puniya Jati sahariya
			1526	0.0192	Barani So.	Private	Gulab bewa Gobriya Kelash Kalie Cheti Urmila D/o Gobriya Ahadiya Birdilal S/o Gobri & Dropdhi D/o Gobri 1/2 Sahariya
			1538	0.0384	Barani So.	Private	Gulab bewa Gobriya Kelash Kalie Cheti Urmila D/o Gobriya Ahadiya Birdilal S/o Gobri & Dropdhi D/o Gobri 1/2 Sahariya

1	2	3	4	5	6	7	8
			1527	0.0256	Barani So.	Private	Pannalal S/o Deviram Jati Sahariya
			1533	0.0224	Barani So.	Private	Omprakash Mahaveer S/o Devilal Jati Sahariya
			1534	0.0128	Barani So.	Private	Gahanshyam Babulal Ramkanwar Ganjanad S/o Dwarka bai D/o Phoolabai Bewa Nathu 1/2 Gayrshya S/o Chetu Puniya D/o Chetu 1/2 khera W/o Parshaya 1/2
			1539	0.096	Charagah	Gram Panchyat	Gram Panchyat Bhanwargarh
			1557	0.128	Charagah	Gram Panchyat	Gram Panchyat Bhanwargarh
			1537	0.736	Non Agricultural	Government	Sivai Chak
			1570	0.048	Barani So.	Private	Bhanwarlal S/o Budha Jati Khai
			1956	0.0013	Barani So.	Private	Bhanwari bai W/o Tejpal singh Jati Jaat
			1957	0.0013	Talabi	Private	Bhanwari bai W/o Tejpal singh Jati Jaat
			1955	0.0032	N.B.I	Private	Arjun singh S/o Nandkishore Jati Jaat
			1259	0.0576	N.B.II	Private	Balmukund Ganesh S/o Kesholal & Tulshi Badri D/o Kesholal & Govind Bewa Kesholal Jati Khachi
			1269	0.0768	N.B.III	Private	Bhiari S/o Ratna Jati Jaat
			1274	0.1408	N.B.so	Private	Trilokchand S/o Kalyan Jati Jaat
			1351	0.176	N.B.III	Private	Gulab bewa Gobriya Kelash Kalie Cheti Urmila D/o
			1324	0.096	Nahari Barani I	Private	Surendra Vijay Shambhu S/o Mana Bewa Jogendra Chandri bewa Babu Bhanwarlal Ranveer S/o Gordhan 1/2 Ramesh Harishchand Ramsingh Ramratan S/o Puniya Savitri D/o Puniya & Janki Bewa Puniya 1/2 Jati Sahariya
			206	0.0056	N.B.II	Private	Dhanalal S/o Nandlal Jati Dhakad
			207	0.144	N.B.II	Private	Prabhulal Dhanalal Ganeshram/ Kalu S/o Nanda Mogi bai/Ganga Kamla bai Laxmabai D/o Nanda & Dhakaha Bewa Jati Dhakad

1	2	3	4	5	6	7	8
			1431	0.032	Nahari Chah.	Private	Bheru S/o Birdha Vimla bai D/o Ramnarayan Dhakad
			1432	0.032	Barani Chah.	Private	Balram S/o Deva Jati Dhakad
			1316/1	0.0128	Barani So.	Private	Bhanwarlal Rambeer S/o Gordhan & Surender Vijay Shambhu S/o Mana bewa Jogendra & Chendri bewa Babu Jati Sahariya
			1316	0.096	Banzad	Government	Sivai Chak
			198	0.064	Khandi	N.H.76	N.H.76
			159	0.208	Khandi	N.H.76	N.H.76
			193	0.192	Khandi	N.H.76	N.H.76
			194	0.164	Khandi	N.H.76	N.H.76
			1419	0.0512	Gair Mu. Abadi	Government	Prabhulal S/o Ganshilal Jati Dhakad, Kahnyalal S/o Shankarlal Jati Dhakad ka Kabja, Moolchand S/o Devilal Jati Dhakad (house & Abadi Land ka Patta Hai), Brijmohan S/o Kishanlal Jati Telie, Madan S/o Moolchand Jati Dhakad, Vinoad S/o Manak chand Jati Mahajan, Ramprashad S/o Budhalal Jati Sahariya
			1566	0.256	Gair Mu. Abadi	Government	Rameshchand S/o Roopnarayan Baragi
			1568	0.1312	Gair Mu. Abadi	Government	Balmukund S/o Goriya Jati Dhakad R/o Bhanwargah, Motilal Anadilal S/o Moolchand Dhakad, Anadilal S/o Goriya Jati Dhakad, Jagdish S/o Ramnaryan Jati Dhakad, Bachoo S/o Moolchand Jati Dhakad, Gahanshyam S/o Jamuna lal Jati Khachi, Umashankar S/o Ratanlal Brahamin, Amarlal S/o Gopal Dhakad
			1041	0.1728	Nahari Barani I	Private	Harnaryan S/o Heeralal Jati Kanchi
			1039	0.0014	Nahari Barani I	Private	Bhojmal Chittarlal S/o Dhana Jati Dhakad
			1042	0.1024	Nahari Barani I	Private	Balmukund S/o Goriya Jati Dhakad
			1043	0.0672	Nahari Barani II	Private	Moolchand Heeralal Jati Dhakad
			1195	0.08	Nahari Barani II	Private	Chittar S/o Madho Gulab Madho 1/2 Gandhi Nati Sita D/o Ramchander Kalie bewa Ramchender 1/2 Jati Dhakad

1	2	3	4	5	6	7	8
			1197	0.0384	Gair Mu. Nala	Government	Sivai Chak
			1198	0.001	Nahari Barani II	Private	Devlal S/o Bhrulal Jati Dhakad
			1249	0.0096	Nahari Barani II	Private	Devlal S/o Bhrulal Jati Dhakad
			1199	0.0006	Non Agriculture	Government	Sivai Chak
			1200	0.0768	Nahari Barani II	Private	Hargovind Bashi Bheru S/o Lachiram Jati Dhakad
			1201	0.192	Nahari Barani II	Private	Radhakishan S/o Mathuralal Jati Khathi
			1204	0.224	N.B.So	Private	Devkishan Madan S/o Ramchander & Shanti D/o Ramchander Jati Kachi
			1206	0.0006	N.B.So	Private	Mohanlal S/o Bajrang S/o Ramchander & Shanti D/o Ramchander Jati Kachi
			1218	0.008	Gair Mu. Samshan	Government	Sivai Chak
			1256	0.006	Nahari Barani II	Private	Mannalal S/o Harlal Jati Kachi
			1266	0.0672	Gair Mu. Pahal N.B.	Government	Sivai Chak
			1268	0.0384	Gair Mu. Pahal N.B.	Government	Sivai Chak
			1267	0.0096	Nahari Barani So.	Private	Balmukund Chittar S/o Kahana 1/2 Gobrilal S/o Bheru & Bhooli Sita Rukmani Sushila D/o Bheru 1/2 Jati Dhakad
			1273	0.1536	Nahari Barani So.	Private	Balmukund Chittar S/o Kahana 1/2 Gobrilal S/o Bheru & Bhooli Sita Rukmani Sushila D/o Bheru 1/2 Jati Dhakad
			1276	0.0064	Private	Private	Balmukund Chittar S/o Kahana 1/2 Gobrilal S/o Bheru & Bhooli Sita Rukmani Sushila D/o Bheru 1/2 Jati Dhakad
			1323	0.064	Nahari Barani	Private	Balmukund Chittar S/o Kahana 1/2 Gobrilal S/o Bheru & Bhooli Sita Rukmani Sushila D/o Bheru 1/2 Jati Dhakad
			1275	0.0864	Nahari Barani III	Private	Balmukund Chittar S/o Kahana 1/2 Gobrilal S/o Bheru & Bhooli Sita Rukmani Sushila D/o Bheru 1/2 Jati Dhakad
			1253	0.001	Nahari Barani III	Private	Bhiari S/o Ratanlal Jati Jaat

1	2	3	4	5	6	7	8
			1254	0.0064	Nahari Barani III	Private	Bhiari S/o Ratanlal Jati Jaat
			1247	0.0064	Naheri B.So	Private	Kishnibai Joyati Badri Jati Kanchi
			1250	0.0192	Naher	Government	Sivai Chak
			1251	0.0384	Non Agricultural	Government	Sivai Chak
			1306	0.089	N.Ba. II	Private	Laxmichand S/o Jagnath Mahajan
			1307	0.032	Nahari Ba. So.	Private	Laxmichand S/o Jagnath Mahajan
			1308	0.032	Nahari Ba. So.	Private	Laxmichand S/o Jagnath Mahajan
			1310	0.008	Bag Villa Lagani	Private	Laxmichand S/o Jagnath Mahajan
			1311	0.057	Gair Mu. Chah.	Private	Laxmichand S/o Jagnath Mahajan
			1312	0.0384	Naheri Ba. III	Private	Laxmichand S/o Jagnath Mahajan
			1309	0.008	Non Agricultural	Government	Sivai Chak
			1317	0.0128	N.B. So.	Private	Tarachand S/o Narayan Jati Brahmin
			1318	0.0006	N.B.III	Private	Bajranglal S/o Shreelal Jannabai Bewa Shreelal 2/3 Manoj S/o Ramchanran Shakun Bewa Ramchander N.B. Bajranglal 1/2
			1321	0.0064	N.B.III	Private	Kalu S/o Gopal Jati Jaat
			1322	0.08	N.B.I	Private	Babulal Omprakash Mangilal S/o Shreelal Jati Jaat
			1325	0.0192	Nahari Barani II	Private	Jankilal S/o Devlal Shantibai D/o Devlal 1/2 Moolchand S/o Jagnath 1/2 Jati Dhakad
			1320	0.0001	Nahari Barani II	Private	Moliya S/o Heeralal Jati Dhakad
			1326	0.0064	Nahari Barani I	Private	Balram Balveer Ranveer Prahalad Jati Jaat
			1954	0.048	Nahari Barani	Private	Government
			1567	0.024	N.B.	Government	Sivai Chak
		(9) Nayagaon Alias Ram Nagar	75/1	0.2	Gair Mu. Forest	&	Forest Department
			85	0.24	Forest	&	Forest Department
			80/10	0.096	Barani So.	Irreg.	Phula Joje Mangal Singh Ahadi R/o Chidaliya
			57/20	0.0608	Barani So.	Irreg.	Jagnath S/o Bhanwar Sahariya R/o Panawatha

1	2	3	4	5	6	7	8
			84	0.5856	Gair Mu. Forest	Irreg.	Forest Department
4	Shahabad	(1) Pinawada	102/314	0.84	Barani IV		Ratnu S/o Beka Jati Nayank 1/2 Chindaliya Karansingh Kalyansingh Puransingh S/o Pema Jati Adadi R/o Chindaliya 1/2
			102/252	0.0224	Barani So.		Amarsingh S/o Gokul Dhakho Bewa Gokul Jati Shariya
			103	0.008	Barani III		Dhanraj S/o Kanwar Kungar Bewa Kanwarlal & Heeralal S/o Gomda Mukndilal S/o Kishorikumar Mathri Rago D/o Kishori 1/3 Naryan S/o Kala Kasturi Bewa Kala 1/3 Inder Prashadi S/o Bhajana Kasturi Bewa Razana Jati Shariya 1/3 N.N. 327
			156	0.1152	Barani III		Majboot Singh S/o Roopsingh Jati Ahadi
			157	0.0768	Barani III		Sumitra Bai W/o Jalam singh Jati Aradi
			158	0.1152	Barani III		Gajrajsingh Naryansingh S/o Nandlal Jati Aradi R/o Chindaliya
			159	0.4832	Barani III		Garsem Singh Santoshsingh S/o Chandensingh & Purankor Bewa Chandensingh Shikh Jaat R/o kalwara N.N.267
			185	0.2688	Gair Mu. Nadi		River Nadi Nallah
			138	0.0192	Banzer 2		Banzer
			155	0.192	Barani III		Bachoo singh S/o Arjunsingh Jaati Odiya
			154	0.192	Barani III		Kalabai W/o Rajendrasingh Jaati Dhankiya
			118/318	0.1152	Barani IV		Maansingh Maniram S/o Ishwar Deepa Jaati Ahadi R/o Penawada
			118/259	0.128	Barani IV		Kishanlal Sharwan S/o Chooti & Sundarbewa Chooti Jaati Shariya
			144	0.064	Barani IV		Kahna S/o Dangu Jaati Shariya K.N. 296
			144/206	0.0736	Barani IV		Sumitra Bai W/o Jalam singh Jati Aradi
			144/207	0.0384	Barani III		Dalu S/o Ganshu Jaati Chamar

1	2	3	4	5	6	7	8
			144/208	0.0288	Barani III		Harishankar Ghanshyam Balik Durgalal Bundel singh Haricharan Poous Bavriya Paruti bewa Bavdiya Jaati Ahadi
			143	0.024	Barani III		Kalabai W/o Rajendrasingh Jaati Dhankiya
		(2) Kelwara	443	0.0485	Barani 4	Private	Badrilal, Chironjilal, Haribhab S/o Gajanand, Kasturi Bai Bewa Gajanand Ramnarayan Budh Prakash S/o Chotelal Telje
			445	0.0728	Barani 4	Private	Nijbuniya Bewa Abdul Jabbar & Samim Bano Rubina Bano Rizwan Bano D/o Jati Abdul Hafeez Muslim
			511	0.1056	Barani 4	Private	Nijbuniya Bewa Abdul Jabbar & Samim Bano Rubina Bano Rizwan Bano D/o Jati Abdul Hafeez Muslim
			512	0.0432	Barani 4	Private	Mali Mandir Shrenath Ji Nathuwara
			514	0.0455	Barani 4	Private	
			575	0.835	N.B.So.	Private	Taz Mohad. Karmilhlai, ChandMohammed Hayyad Mohammed S/o Puttran & Khatun Bewa Khusi Jati Muslim
			532	0.0202	Barani IV	Private	Purabhchand S/o Motilal Jati Kalal
			534	0.2041	Barani V	Private	Balmukund S/o Chintu Jati Teli
			440	0.432	Gair Mu. Nala	Government	Sivai Chak
			536	0.0371	Barani IV	Private	BudhiPrakash Ashadilal S/o Chotiya Jati Shariya
			537	0.1856	Barani IV	Private	
			439	0.3867	Barani IV	Private	Kanwarlal S/o Latoor 1/2 Mariya S/o Sawanya & Pishta S/o Mariya 1/2 Jati Shariya
			447	0.0566	Barani V	Private	Raghunath, Ramesh S/o Jeevenlal & Rampyari, Bhagwati D/o Geeta bewa Jeevenlal 1/2 Kenhyalal Kanwarlal, Ramlal, Laxminaryan Ghanshyam S/o Dhakha bai bewa Laxmichand 1/2 Jati Koli

1	2	3	4	5	6	7	8
			502	0.0303	Barani IV	Private	Sunil Kumar S/o Heerachand Jati Khetri
			501	0.512	Barani III	Private	Temple Shree Gopal Ji
			538	0.032	Gair Mu. Nala	Government	Sivai Chak
			542	0.1821	Barani IV	Private	Manakchand, Haribhlabh, Purabhchand S/o Tulshabai D/o Mathuri Jati Teli
		(3) Uni	149/2	0.0224	Barani ChAgricul tare	Private	C hutturbhuj Ganshilal Jaati Telie Kalwara
			148	0.0032	Barani ChAgricul tare	Private	Mankchand Shyalal Kewalprashad Amritlal Ashok Kumar S/o Ganpat Bhuri Bewa Ganpat Telie Kallwara
			145	0.112	Barani ChAgricul tare	Private	Succhasingh S/o Kartaarsingh Jaat sikh Unie
			151	0.0192	Barani ChAgricul tare	Private	Harisingh S/o Chunni Ahadi Unie
			154	0.0176	Barani ChAgricul tare	Private	Harisingh S/o Chunni Ahadi Unie
			133	0.0448	Barani ChAgricul tare	Private	Bhagwansingh S/o Devilal Kolie
			153	0.0512	Barani ChAgricul tare	Private	Bhagwansingh S/o Devilal Kolie
			142/393	0.24	Barani ChAgricul tare	Private	Shreelal S/o Kishori Ahadi Unie
			142	0.1008	Barani ChAgricul tare		Charagah
			272	0.0128	Khera	Private	Shani S/o Tika Ramhinai Devilal Dayachand 2/3 Kirad R/o Unie
			132	0.0002	Barani ChAgricul tare	Private	Harisingh S/o Chunni Ahadi Unie
			130	0.0003	Gair Mu. Abadi		Gair Mu. Abadi
			131	0.1824	Gair Mu. Nala		Gair Mu. Nala
			117	0.0768	Banzed		Sivai Chak
			118	0.0032	Gair Mu. Rastha		Sivai Chak
			124	0.1632	Forest		Forest

1	2	3	4	5	6	7	8
			123	0.1344	Banzed		Sivai Chak
			280	0.24	Banzed 2		Sivai Chak
			119	0.096	Banzed 2		Jalu S/o Natu Sahariya
			280/517	0.16	Barani ChAgricul tare		Manu S/o Chuti Jaati Chamer Unie
			280/516	0.1232	Barani ChAgricul tare		Kushum Devi S/o Rav singh Jaat Kalwara.
			280/518	0.24	Barani ChAgricul tare		Rameshchand S/o Mangilal Meghwal Kelwara
			279	0.16	Gair Mu. Talai		Gair Mu. Talai
			278	0.0096	Gair Mu. Talai		Gair Mu. Talai
			276	0.48	Banzed		Sivai Chak
			269	0.0752	Banzed		Maffe Shree Bheruji Virajmaan
			268	0.0352	Abadi		Abadi
			267	0.04	Abadi		Sivai Chak
			266	0.0112	Abadi		Gair Mu. Rastha
			265	0.1056	Banzed		Sivai Chak
			264	0.0096	Gair Mu. Abadi		Gair Mu. Abadi
			263	0.0064	Gair Mu. Abadi		Sivai Chak
			249	0.5088	Banzed		Bhajna S/o Ramdhan Kirad
			169	0.4656	Barani ChAgricul tare		Bhajna S/o Ramdhan Kirad
			168	0.024	Barani ChAgricul tare		Kaluram Premchand Ramzilal S/o Sunderlal & Bewa Karai 1/2 Kirad
			167	0.336	Barani ChAgricul tare		Kishanlal S/o Dolati Chamer
			160/1	0.1	Banzed		Bhajna S/o Ramratan Jaati Kirad
			270	0.08	Banzed		Bhajna S/o Ramratan Jaati Kirad
			169/1	0.288	Barani ChAgricul tare		Bhajna S/o Ramratan Jaati Kirad
			273	0.08	Gair Mu. Rastha		Rastha
			158	0.0672	Barani ChAgricul tare		Phoolchand S/o Ramlal Teli R/o Kelwara
	(4) Pahari		96	0.608	Banzed		Sivai Chak
			85	0.4544	Banzed		Sivai Chak
			94	0.0512	Nala		Sivai Chak

1	2	3	4	5	6	7	8
			86	0.64	Banzed		Sivai Chak
			86/462	0.0003	Forest		Forest
			14	0.16	Rastha		Sivai Chak
			85/11	0.192	Barani ChAgricul tare		Chanya S/o Devlal
			95	1.12	Banzed		Sivai Chak
			97	0.416	Banzed		Sivai Chak
			8	0.4256	Chagragh		Charagah Gram Panchyat
			7	0.0048	Nala		Sivai Chak
			2	0.0048	Chagragh		Charagah Gram Panchyat
			3	0.136	Chagragh		Charagah Gram Panchyat
			4	0.1312	Chagragh		Charagah Gram Panchyat
			5	0.1936	Banzed		Sivai Chak
			15	0.128	Banzed		Sivai Chak (Babri Prakesh S/o Mannu Lal, Parshadi Lal S/o Pundi Lal, Nirbal S/o Mathura Lal, babu/ Mukander Sheria
		(5) Khushiyara	13	0.8704	Charagah	Government	Charagah
			17	1.072	Charagah	Government	Charagah
			127	0.6816	PWD	Government	PWD
			132	0.8128	Charagah		Charagah
			124	0.04	Charagah	Government	Charagah Gram Panchayat
			123	0.5664	Charagah	Private	Gram Panchayat
			141	0.9072	Charagah	Private	Champu Momchiya, Anju Shanker, Kishan Lacchi,
			142/923	0.24	Charagah	Gram Panchayat	Gram Panchayat
			143	0.32	Barani	Private	Kalulal Champa Lal S/o Kanchanlal & Kasturi Bewa Kanchanlal
			144	0.023	Barani II	Private	Sunderlal Ganeshlal S/o Chhotelal Kerad
			142/996	0.12	Barani	Government	Siwak chak
			119	0.3888	Barani	Private	Abadi
			444	0.1792	Gair Abadi	Private	Murari S/o Heera Chamar, Panna S/o Nathu Kedar, Prabhu S/o Chhoti Khati
			166	0.728	Barani	Charagah	Dharmi W/o Gulab Rani W/o Banbu Banzara
			181	0.4176	Banzed	Siwai Chak	Government
			182	0.016	Rastha	Government	Siwai Chak
			598	0.0832	Barani	Government	Government

1	2	3	4	5	6	7	8
			597	0.408	Barani	Private	Mannu S/o Herlal Kerad Payare S/o Chintu Kerad
			586/988	0.048	Barani	Private	Satish Kumar S/o Fosu Ram Cast Sumar
			609	0.024	Barani	Private	Babulal S/o Devi Lal 1/2 Luhar Ramdayal Rajesh Goverdhan Lal Geet Sumita D/o Goverdhan lal Bhagwani Bewa
			606	0.016	Barani SO	Private	Sri Ji Maharaj Kishanlal
			613/997	0.24	Barani So	Private	Jagdish S/o Jivan lal Kerad
			634	0.138	Banzed	Government	Siwai Chak
			640	0.208	Banzed	Government	Siwai Chak
			570/1191	0.192	Barani	Private	Saroj Devi W/o Manmohan
			586	0.16	Barani	Private	Bhajanya, Ramalu etc.
			613/1010	0.0112	Nahri Barani	Private	Fundi S/o Shibu Sahariya
			586/989	0.128	Nahri Barani	Private	Chunni Munna Magi Sahariya
			586/1186	0.16	Barani	Private	Khalil S/o Abdul Latif Kelwara
			142/996/1	0.1728	Barani	Private	Champa S/o Kanchan lal Kirad
			439	0.048	Gari Mu. Nala	Government	Sawai Chaik
			438/1213	0.192	Barani	Private	Dola S/o Fula Nayank
			585	0.0736	Barani	Private	Dhannu S/o Kishna Cast Chamar R/o Kelwara
			437/1330	0.192	Nahari Barani	Private	Madan S/o Hateela Cast Sahariya
			437/1200	0.256	Barani	Private	Nawala S/o Gopal Cast Sahariya
			437/1214	0.256	Barani	Private	Dola S/o Phula Cast Sahariya
			437/1245	0.288	Barani	Private	Surtiya S/o Amar Chand Cast Sahariya
			598/1192	0.32	Barani	Private	Keshri S/o Girish lal Cast Kerad
			598/1193	0.322	Mall	Private	Murari lal S/o Bhagwanlal Cast Kerad
			598/1235	0.448	Nahari Mall	Private	Balu S/o kalu Cast Sahariya
			598/1251	0.48	Nahari Mall	Private	Hawa S/o Mula Cast Sahariya
			438/1256	0.192	Barani	Private	Heera S/o Phula Cast Banzara
			590	0.16	Barani	Private	Ratana S/o Kalu Cast Sahariya
			607	0.192	Barani	Private	Shri Ji Maharaj

1	2	3	4	5	6	7	8
			639/1055	0.0128	Barani	Private	Sita Ram S/o Kalu Ram Cast Kerad R/o Samaraniya
			638/1053	0.0064	Barani	Private	Dharmi W/o Gulab Rani Cast Banzara
			642/1060	0.0013	Barani	Private	Gafoor Khan S/o Amzed Khan Cast Muslim
			642/1059	0.0003	Barani	Private	Jeevan lal S/o Sunder Lal Cast Kerad R/o Simraniya
			642/1058	0.0008	Barani	Private	Abdul Kaarim S/o BaZir Khan
			641/1057	0.0006	Barani	Private	Abdul Kaarim S/o BaZir Khan
		(6) Banskhera	142	0.0832	Barani 4		Banwarilal Dayachand Kaliecharan Ramgopal Radhyashyam S/o Mathuralal Chironji Roopwati D/o Bhanwarlal S/o Mathribai Bewa Mathuralal S/o Phoolchand S/o Nathulal Jaati Kirad R/o Kalony Shabad
			151/3	0.128	Banzed I		Manish Kumar S/o Dinesh Kumar Jaati Mahajan R/o Samraniya
			153	0.2224	Banzed		Sivai Chak
			211	0.1408	Barani 4		Shyamlal S/o Bhanwarlal Jati Kirad
			144/1	0.424	Barani 4		Khaed S/ok Chotte Kirad
			222	0.144	Barani 4		Phoolchand Rajmal S/o Shyamlal Jati Kirad
			189/2	0.0176	Banzed I		Dayachand Kaliecharan Bhanwarlal Ramchander Dhakho D/o Bhanwar Jaati Kirad
			184	0.0384	Barani 4		Kalu Ragi D/o Bhajni 1/2, Chiranji Lal, Mohan lal, Rakesh & Satish S/o Rang Lal Cast Kirad 1/2
			232	0.236	Barani 4		Kallu Ragi D/o Bhajni 1/2 Chironjilal Mohanlal Rakesh Satish S/o Ranglal Jaati Kirad 1/2
			188	0.208	Banzed I		Shyamlal Kallu Devlal Brijraj S/o Mathuralal 1/2 Jammalal Ramcharan S/o Arjun 1/2 Jaati Kirad
			234	0.2048	Banzed I		Mangilal S/o Devlal Kirad
			193	0.416	Gair Mu. Nala		Sivai Chak

1	2	3	4	5	6	7	8
			189/1	0.04	Banzed I		Banwari Dayachand Kaliecharan Ramgopal Radhyashyam S/o Bhanwarlal Kalawati Chironji Ramnathi D/o Bhanwarlal Jawarlal Banwari Naran Kalesh S/o Punna Jankibai D/o Punna Turma Bewa Punna Jati Kirad
			206/1	0.48	Barani 4		Banwari Lal, Daya chand, Kali Charan, RamGopal & Radhya Shyam S/o Mathra Lal, Kalawati, Chironji, Ram Nathi D/o Bhawar Lal
			210	0.144	Barani 4		Shyamlal Kallu Devilal Brijraj S/o Bhanwarlal 1/2 Jailal Ramcharan S/o Arjun 1/2 Jaati Kirad
			212	0.144	Barani 4		Kallu S/o Pema Kolie R/o Gathreta
			220	0.0128	Gair m. rasta		Sivai Chak
			195	0.032	Nhari		Jagdish Shreekishan S/o Mannu Kirad
		(7) Balapura	53	0.0704	Nhari		Chittar S/o Halke Rupibewa Halke Kanti Bai Chamer
			53/80	0.072	Nhari		Fundi S/o Manghya Jaati Chamer R/o Samraniya
			49	0.144	Nhari		Narendra singh S/o Shreelal singh Jaati Kadra R/o Gadreta
			48	0.0512	Nhari		Banwarilal S/o Gajanand Jaati Kirad R/o Banskhera Maal
			47	0.024	Nhari		Banwarilal S/o Gajanand Jaati Kirad R/o Banskhera Maal
			46	0.0112	Nhari		Banwarilal S/o Gajanand Jaati Kirad R/o Banskhera Maal
			45	0.016	Nhari		Rameshchand Prayagchand Jagdishchand Badrilal S/o Payarelal Jaati Mahajan R/o Sahabad
			44/66	0.096	Nhari		Prakashchand S/o Gajanand 1/2 kirad R/o Piplekheri Amarlal Bhesrawan Bala Jati Kirad R/o Banskhera 1/2
			57/112	0.0096	Nhari		Ramesh Chand Cast Chamar

1	2	3	4	5	6	7	8
			44/114	0.1152	Nhari		Bharirth S/o Gomda Jaati Meena R/o Chandentelie Bundi
			44/115	0.16	Barani 5		Kalesh chand S/o Narayanlal Jaati Meena R/o Panchola Jalawar
			62	0.296	Barani 4		Hargovind S/o Kanshiram Meda Ramkalie D/o Kanshiram Gulabi Bewa Kanshiram Jaati Chamer R/o Banskhera Maal
			61	0.056	Barani 4		Hargovind S/o Kanshiram Meda Ramkalie D/o Kanshiram Gulabi Bewa Kanshiram Jaati Chamer R/o Banskhera Maal
			57/107	0.4032	Barani 4		Nathiya Bewa Bheel Mono D/o Arjun 1/2 Nathiya Bewa Bheema Malkhansingh Ajayabsingh Dharasingh S/o Bheema N.B. Rekha Shanti N.B. walie Mata Khud Jaati Khangar R/o Banskhera Halke
			57/120	0.9	Barani 4		Halke Munkdi Jaati Chamer R/o Banskhera
		(8) Mamoni	371	0.432	Barani-III		Sunder Lal S/o Mulya Cast Gongiya
			372	0.1856	Barani-III		Urmil W/o Hajari Lal, Ramesh Kaushal Bai, Binda Bai, Goda Bai, Sheel Bai D/o Raju Gapal S/o Hajari Lal 1/6, Dhyan Chand S/o Bhanwar Lal 1/6, Wishnu Prashad, Jagdish Pradesh S/o Badri, Surya Prakesh S/o Badri, Surya Prakesh S/o Meena alkha, D/o Asha W/o Badri 1/3, Muni Bai D/o Sugham Chand - 1/3. Cast Mahaian
			379	0.1344	Barani-II		Hajari Lal S/o chuni Lal, kalawati D/o Chuni Lal cast Kirad
			382	0.096	Barani-II		Ganshai Shyam Lal, Bansi Lal S/o Roop Nath4/5, Doshi Ramwati W/o Madan Lal, Rekha Brijash, Raj Kumari, Ghinsi D/o Madan Lal 1/5 Cast Kirad

1	2	3	4	5	6	7	8
			381	0.0002	Barani-II		Amar Lal S/o Hansraj Cast Kirad
			383	0.08	Barani-II		Ramesh Chand, Bhanwar Lal & Puncta Bhanwar Lal Cast Kirad
			384	0.1344	Barani-II		Narayan Heeralal Devkishan S/o Nabbo D/o Mathri Bewa Ganshi Cast Kirad
			637/2	0.016	Barani-II		Kansilal Ramcharan S/o Shivilal Kirad
			635/2	0.0096	Kera-II		Jagnath S/o Gajannath Kirad
			419	0.04	Kera-II		Hazarilal S/o Choonilal Kalawati D/o Choonilal Jati Kirad
			420	0.024	Kera-II		Janna Bewa S/o Ramjilal Suresh Kashri D/o Vidha Muni Mithlesh D/o Ganeshilal Jati Kirad
			424	0.0256	Kera-II		Ghani Murarilal Ramdayal Kesrilal S/o Lalchand etc.
			426	0.144	Barani-III		Premchand Anandilal S/o Ramlal Jati Kirad etc.
			439	0.0256	Khera-II		Foshu S/o Khema 1/2 Bhoro Geeta D/o etc.
			436	0.0096	Khera-II		Bhanwar 1/2 Cast Chamar
			438	0.0272	Khera-II		Heerasingh S/o Jagan nath Aheer
			227	0.0384	Barani-II		Unkar S/o Shivilal Aheer
			221	0.0608	Barani-II		Kanwarlal S/o Bheru 1/2 Aheer etc.
			220	0.0528	Barani-II		Gajanlal Prama Ramu S/o Maghsingh Mangilal Aheer etc.
			173	0.3776	Barani-III		Gajanlal Prama Ramu S/o Maghsingh Mangilal Aheer etc.
			216	0.0528	Barani-III		Gajanlal S/o Meghsingh Aheer
			215	0.048	Barani-III		Ganesh Makhan Prasadi S/o Bharolal Kalal
			203	0.1232	Barani-III		Sanjoya Bewa Rambhraosh Mahajan
			202	0.0016	Barani-III		Brijmohan Chander sen etc.
			199	0.024	Barani-III		Bunda Bewa Amroo Sahar
			171	0.0336	Barani-III		Gayajeen Laxminaryan S/o Dan Singh Aheer
			151	0.384	Barani-III		Shri Kamal Bhagwansingh Kanshi Narayan S/o Batashi Parwati Bai D/o Harlal Gonjaya

1	2	3	4	5	6	7	8
			150	0.176	Barani-III		Babu S/o Bhagirath Narande D/o Mona Bewa Bhagirath Aheer
			146	0.072	Barani ChAgricul tare		Babu S/o Bhagirath Narande D/o Mona Bewa Bhagirath Aheer
			147	0.248	Barani-III		Babu S/o Bhagirath Narande D/o Mona Bewa Bhagirath Aheer
			149	0.16	Barani-III		Balmukund Godha Shreechuand Bhbuti 1/2 Onkar S/o Shivilal Aheer 1/2
			148	0.16	Barani-III		Balmukund Godha Shreechuand Bhbuti 1/2 Onkar S/o Shivilal Aheer 1/3
			144	0.0624	Barani-III		Balmukund Godha Shreechuand Bhbuti 1/2 Onkar S/o Shivilal Aheer 1/3
			145	0.048	Barani-IV		Onkar S/o Shivilal Aheer
			479	0.368	Barani-III		Jagdish Bhagwati Suman S/o Narayan Mahajan Mundiyyar
			477	0.048	Barani-III		Jagdish Bhagwati Suman S/o Narayan Mahajan Mundiyyar
			476	0.0544	Barani-III		Chintu S/o Ghanshi Sahariya
			475	0.0544	Barani-III		Premchand Fundilal Gulabchand S/o Naryani D/o Ramlal Kadara
			474	0.024	Barani-II		Chintu S/o Jamnalal Cast Kirad
			467	0.0416	Barani-III		Ganshi S/o Ratiram Nai
			473	0.224	Barani-II		Sitaram S/o Badri Kirad
			470	0.0144	Barani-II		Puniya Hati Kirad
			466	0.0304	Barani-III		Ramko Bewa Mangilal Hazari Ramcharana Pukhraj S/o Amarlal Kirad
			465	0.0128	Barani-III		Prabhulal Giraraj S/o Gopal Kirad
			460	0.128	Barani ChAgricul tare		Jai Govind Lakhn Singh S/o Ramkanya D/o Sumitra bai Bewa Modu Sahariya
			456	0.0544	Barani ChAgricul tare		Thakurdas S/o Kishandas Baragi
			751	0.016	Danda		Govind Gangaram S/o Kishan Gohanja

1	2	3	4	5	6	7	8
			744	0.0002	Danda		Dhanna S/o Ramjilal Suresh Kasheri S/o Ganeshlal Vidha Muni Mithlesh & Janna Bewa Ganeshlal Kirad
			742	0.0368	Danda		Kedar Banwari S/o Maathura 1/2 Harlal S/o Fundi 1/2 Gohaniya
			201	0.0096	Barani III		Bunda Bewa Amroo Sahariya
			729	0.0032	Danda		Harkishan S/o Balmukund & Gayabai D/o Heeralal Kirad
			647	0.064	Banzed		Government Land
			644	0.624	Banzed		Government Land
			642	0.1728	Banzed		Government Land
			417	0.112	Banzed		Government Land
			638	0.1056	Nala		Government Land
			418	0.288	Bahad		Government Land
			421	0.008	Abadi		Government Land
			422	0.0128	Khada		Government Land
			423	0.0128	Nala		Government Land
			428	0.1248	Nala		Government Land
			435	0.0128	Rastha		Government Land
			440	0.0192	Khada		Government Land
			262	0.0672	Rastha		Government Land
			222	0.1472	Abadi		Government Land
			200	0.5664	Bhead		Government Land
			198	0.0032	Nala		Government Land
			196	0.016	Banzed		Government Land
			172	0.032	Nala		Government Land
			152	0.208	Nala		Government Land
			468	0.0096	Nala		Government Land
			746	0.408	Banzed		Government Land
			750	0.016	Banzed		Government Land
			745	0.0688	Banzed		Government Land
			741	0.0112	Banzed		Government Land
			743	0.0352	Banzed		Government Land
			728	0.072	Banzed		Government Land
		(9) Bhiharipura	178	0.16	Jangal		Forset Depart.
			181	0.2416	Jangal		Forset Depart.
			182	0.0032	Jangal		Forset Depart.
			349	0.1232	Jangal		Forset Depart.
			356	0.0128	Jangal		Forset Depart.
			360	0.32	Gair m.		Sivai Chak
			361	0.5302	Gair m.		Sivai Chak
			365	0.578	Jangal		Forset Depart.
			189	0.1776	Gair m- kandhi		PWD
			179	0.24	Jangal		Forset Depart.

1	2	3	4	5	6	7	8
			185	0.128	Gair m- Abadhi		Forset Depart.
			186	0.009	Gair m- Abadhi		Forset Depart.
			368	0.128	Gair m- khadhi		PWD
			176	0.192	Gair m- sadak		PWD
			360	0.304	Gair m-		Sivai Chak
			175	0.192	Gair m- khndhi		PWD
			177	0.288	Gair m- khndhi		PWD
			174	0.768	Jangal		Forset Depart.
			188	0.16	Gair m- khadhi		PWD
			357	0.0144	Gair Mu. Khandi		PWD
			358	0.176	Gair Mu. Sadak		PWD
			359	0.048	Gair Mu. Khandi		PWD
			367	0.128	Gair Mu. Sadak		PWD
			190	0.1136	Forest		Forest Depart
		(10) Shahabad	440	1.44	Forest		Forest Depart.
			439	2.8416	Forest		Forest Depart.
			437	1.632	Forest		Forest Depart.
			438	1.44	Forest		Forest Depart.
			435	1.728	Forest		Forest Depart.
			337	1.28	Forest		Forest Depart.
			436	0.48	Forest		Forest Depart.
			434	4.032	Forest		Forest Depart.
		(11) Khushalpura	117	0.129	Barani 4	Private Irreg.	Savliya S/o Fundi Cast Sahariya R/o Kushalpura
			118	0.16	Barani 4	Irreg.	Harvansh Jagdish Shreeram S/o Gayarsha Cast Sahariya R/o Kushalpura
			126/746	0.49	Barani 4	Irreg. Private	Bhanwarlal S/o Heera Cast Sahariya R/o Kushalpura
			283/785	0.1728	Banzed	Non Irrigation Private	Jawarharlal S/o Lakhu Cast Sahariya R/o Kushalpura
			283/787	0.2048	Barani 4	Non Irrigation Private	Bittal S/o Kamla & Sarti Bewa Kamla Cast Sahariya R/o Kushalpura
			283/797	0.1568	Barani 4	Non Irrigation Private	Dalu Ratanlal S/o Sabho Pincho Gair Khatedar

1	2	3	4	5	6	7	8
			291	0.208	Barani 4	Non Irrigation Private	Shanker Shyam S/o Rangilal & Dhakho Bewa Rangilal Mukesh Sabhasingh Manju karua S/o Rampyari D/o Kadar Bewa Jagram Cast Sahariva
			335	0.224	Barani 4	Non Irrigation Private	Kalyan S/o Babu Cast Chorsiya Bamori R/o Sahabad
			340	0.04	Barani 4	Non Irrigation Private	Papu Gajanlal Haricharan Jangliya Hatosingh S/o Kamlesh Sugni D/o Hero Bewa Gayrsha Kashi Kushum Mani Choti Sarmo D/o Dari Sahriya Shabad
			341	0.081	Banzed	Non Irrigation Private	Papu Gajanlal Haricharan Jangliya Hatosingh S/o Kamlesh Sugni D/o Hero Bewa Gayrsha Kashi Kushum Mani Choti Sarmo D/o Dari Sahriya Shabad
			395	0.032	Barani 4	Non Irrigation Private	Rakesh Mukesh Amer Singh S/o Santosh D/o Mangibai Bewa Ramabhill R/o Kushalpura
			403	0.12	Barani 4	Non Irrigation Private	Mahashukh S/o Savliya (Death) Varish Dojya Parma Sabha Kalyan Mahashukh
			428	0.544	Barani 4	Non Irrigation Private	Narayan Shriya Mangal Mohan S/o Mana Lalati Bewa Jagram Shankar Shyam S/o Rangi Bewa Dhakhi Cast Sahariya R/o Kushalpura
			446	0.274	Barani 4	Irreg. Private	Shawara Kumar S/o Bhanwarlal Cast Bramhin R/o Shahbad
			455	0.6	Barani 4	Irreg. Private	Shawara Kumar S/o Bhanwarlal Cast Bramhin R/o Shahbad
			536	0.712	Barani 4	Irreg. Private	Kalucharan S/o Bhanwarlal Cast Brahmin R/o Shahbad
			538	0.121	Barani 4	Irreg. Private	Mathura S/o Ramjilal Cast Murli Manohar Ji
			540	0.32	Banzed	Non Irrigation	Maffe Temple Shree Murli Manohar Ji
			65	0.16	Barani 4	Irreg. Private	Dojya S/o Sundera Cast Shahriya Kushalpura
			456	0.1216	Barani I		Forest Dept.
			457	0.024	Chali I		Forest Dept.
			487	0.032	Chali I		Forest Dept.

1	2	3	4	5	6	7	8
			295	0.081	Gair Mu. Nala	Sadak	PWD
			83	0.04	Banzed	Non Irrigation	Siwai Chak
			84	0.04	Banzed	Non Irrigation	Siwai Chak
			284/800	0.024	Banzed	Non Irrigation	Siwai Chak
			336	0.121	Banzed	Non Irrigation	Siwai Chak
			337	0.08	Nalie	Non Irrigation	Siwai Chak
			339	0.1568	Banzed	Non Irrigation	Siwai Chak
			390	0.192	Banzed	Non Irrigation	Siwai Chak
			391	0.08	Gair Mu. Rastha	Non Irrigation	Siwai Chak
			393	0.256	Banzed	Non Irrigation	Siwai Chak
			284/802	0.128	Banzed	Non Irrigation	Siwai Chak
			541	0.192	Banzed	Non Irrigation	Siwai Chak
			546	0.288	Banzed	Non Irrigation	Siwai Chak
			2	0.256	Banzed	Non Irrigation	Siwai Chak
		(12) Birmani	211/281	0.032	Barani	Private	Fandi Lampi S/o Ramchandi D/o Bhondu Cast Sahariya Khushalpur
			211/282	0.0016	Barani	Private	Fandi Lampi S/o Ramchandi D/o Bhondu Cast Sahariya Khushalpur
			210/241	0.0448	Barani	Private	Fandi Lampi S/o Ramchandi D/o Bhondu Cast Sahariya Khushalpur
			211	0.1216	Banzed	Private	Siwai Chak
			207/275	0.2688	Barani	Private	Shree Ram Tejsingh Navlu S/o Kushum Khandi D/o Kusum Kapi D/o etc.
			175	0.16	Barani	Private	Forest Dept.
			177	0.24	Barani	Private	Siwai Chak
			219	0.152	Barani	Private	Siwai Chak
			217/279	0.0002	Barani	Private	Pacha Lampi S/o Phspo Ramo etc.
			209/211	1.0304	Barani	Private	Government
			217	0.024	Barani	Private	Kahanyalal S/o Banshi Sahariya Khushalpur
			208	0.4912	Barani	Private	Kahanyalal S/o Banshi Sahariya Khushalpur

1	2	3	4	5	6	7	8
		(13) Hanotia	29	0.02	Barani III	Private	Kalavati Bewa Ghanchand Shiker Chand Yougendra Kumar Suresh Kumar S/o Sita Bai Meena Bai D/o Ghanchand Mahajan Sahabad
			109	0.0032	Barani 4	Private	Chandkhan Muneer Khan S/o Lal Khna Muslim Devri
			225	0.06	Barani 4	Private	Chandkhan Muneer Khan S/o Lal Khna Muslim Devri
			107/282	0.0272	Barani 4	Private	Chandkhan Muneer Khan S/o Lal Khna Muslim Devri. Chitiya Kanhnya S/o Kachri 1/4 Cast Chamar
			217	0.02	Barani III	Private	Chita S/o Kachari 1/4 Pappu Reguvar Nandlal S/o Bewa Dhakho 1/4 S/o Gabhu 1/2 Cast Chamar
			87	0.0064	Barani II	Private	Devilal S/o Krishna Cast Chamar
			91	0.0003	Barani II	Private	Devilal S/o Krishna Cast Chamar
			31	0.01	Beed	Private	Pochan Singh S/o Cotelal & Kahchuram S/o Hariram Cast Malie Raipur. The Kolaras Distt. Shivpuri
			223	0.03	Barani III	Private	Babu S/o Natua Babuti Kallo Gajiya Samdav Kapuri Kalan Gulbo D/o Natua & Mano Bewa Natua Chamar
			229	0.0192	Barani III	Private	Babu S/o Natua Babuti Kallo Gajiya Samdav Kapuri Kalan Gulbo D/o Natua & Mano Bewa Natua Chamar
			90	0.0002	Barani II	Private	Ramwati Chinjo D/o Dubriya Chamar 2/3 Mana S/o Budhu Rekha Bana D/o Budhu Tiyo Bewa Budhu 1/3 Cast Chamar
			23	0.04	Barani III	Private	Shanker Kalyan Santoshi Gahani Aheer
			85	0.0013	Barani II	Private	Shanker Kalyan Santoshi S/o Ghani 1/3 Dubriya katriya S/o Amralal 2/3 Aheer
			94	0.0002	Barani II	Private	Shanker Kalyan Santoshi S/o Ghani 1/3 Dubriya katriya S/o Amralal 2/3 Aheer

1	2	3	4	5	6	7	8
			219	0.01	Kheda II	Private	Shanker Prabhu Naktu S/o Payre Muslim Meda Bewa Payra Geeta Bai D/o Payra Chamar R/o Buda Nonera
			32	0.0096	Barani III	Private	Shyam Lal S/o Kishore Jait Kachi
			89	0.04	Barani II	Private	Sarwan S/o Hariya Sarswati D/o Hariya Kasturi Bewa Hariya 1/3 Mangi Siriya S/o Gansita 2/3 Chamar
			107/284	0.03	Barani 4	Private	Sarwan S/o Hariya Sarswati D/o Hariya Kasturi Bewa Hariya 1/4 Mangi Siriya S/o Gansita 1/2 Chamar Chand Khan Nuneer Khan Mohammed Khan S/o Lal Khan 1/4 Muslim Devlie
			214	0.016	Barani III	Private	Shukha Prashadi S/o Kallu Fatho Ramkali D/o Maro Bewa Foshu Chamar
			123	1.0656	Barani 4	Private	Shukha S/o Foshu Chamar
			86	0.0992	Mall I	Private	Shankerlal Ghani Aheer
			4	0.12	Banzed		Siwai Chak
			5	0.07	Banzed		Siwai Chak
			6	0.1	Banzed		Siwai Chak
			103	0.16	Gair Mu. Nadi		Siwai Chak
			107	0.9	Gair Mu. Khal		Siwai Chak
			110	0.08	Gair Mu. Khal		Siwai Chak
			117	0.48	Banzed		Siwai Chak
			118	0.61	Banzed		Siwai Chak
			93	0.0003	Rastha		Siwai Chak
			125	0.2288	Rastha		Siwai Chak
			198	0.016	Banzed		Siwai Chak
			199	0.296	Rastha		Siwai Chak
			213	0.208	Banzed		Siwai Chak
			215	0.1072	Banzed		Siwai Chak
			224	0.2064	Khall		Siwai Chak
			226	0.03	Khall		Siwai Chak
			124	0.5088	Banzed		Siwai Chak
			129	0.16	Charagah	Private	Gram Panchyat Bheelkhera Mall
		(14) Ganjan	346	0.1152	Barai Soyam	Private	Amarlal S/o Pran Shanker S/o Nandhu Cast Kumhar R/o Devri
			75	0.0288	Barai Soyam	Private	Anar Singh S/o Bhawarlal Cast Aheer
			159	0.01	Barai Soyam	Private	Kalalo Singh D/o Foasu, Jalma S/o Devlal Aheer

1	2	3	4	5	6	7	8
			162	0.0192	Barai Soyam	Private	Kalalo Singh D/o Foasu, Jalma S/o Devlal Aheer
			79	0.0192	Barai Soyam	Private	Gulaba, Shayamal Gunchi S/o Devlal Aheer
			347	0.128	Barai Soyam	Private	Chand Khan, Munir Khan, Mohmad Khan S/o Lal Kha Muslim R/o Davri
			348	0.16	Barai Soyam	Private	Chand Khan, Munir Khan, Mohmad Khan S/o Lal Kha Muslim R/o Davri
			349	0.16	Barai Soyam	Private	Chand Khan, Munir Khan, Mohmad Khan S/o Lal Kha Muslim R/o Davri
			158	0.03	Barai Soyam	Private	Jaanki Bawa Mula 1/2 Shankar, Dhuajya, Rugzni, Parsadhi Pahalwan, Maya, Suwa, Gita, Sarnadhi D/o Jighuriva 1/2 Cast Chamar
			234	0.008	Barai Soyam	Private	Tulsi Bewa Jaghni Kalal
			330	0.0002	Barai Soyam	Private	Nasir Khan, Shakir Khan S/o Nurjha Jivan Bai Bewa Kallu 1/4 Gafur Khan S/o Amir Khan 1/4 Razaq Rafik Khan, Altaba Khan, Mahtab Khan, Mustaq Khan, Dilshah Khan 9/0 Shar Khan, Ansari Bewa Sarkha 1/4 Bashir Khan S/o Barakat Ali 1/4 Muslim R/o Devri
			227	0.1072	Barai Soyam	Private	Murari S/o Ghsita Cast Khar
			278	0.0096	Barai Soyam	Private	Murari S/o Ghsita Cast Khar
			285	0.06	Barai Aval	Private	Bachu S/o Halka Cast Khar
			226	0.096	Barai Soyam	Private	Bachu Ram S/o Basanti S/o Halka 1/2 Ghasita S/o Nandhu 1/2 Cast Khar
			279	0.0288	Barai Soyam	Private	Bachu Ram S/o Basanti S/o Halka 1/2 Ghasita S/o Nandhu 1/2 Cast Khar
			332	0.008	Barai Soyam	Private	Bhagawanlal, Banshi Puri S/o Lachipuri Chushai R/o Devri
			224	0.2	Barai Soyam	Private	Mula lal S/o Bhihari Cast Kirad
			223	0.16	Barai Soyam	Private	Moti Lal S/o Mula Sundhar Lal S/o Bhihari 3/5 Rangi, Gayniprabhu S/o Parma 1/5 Kirad

1	2	3	4	5	6	7	8
			80	0.0288	Barai Soyam	Private	Mintu S/o Rama Cast Chamar
			280	0.0002	Barai Soyam	Private	Mana Ghaju S/o Gohrye Aheer
			353	0.176	Barai Soyam	Private	Mohan, Gobandhi, Jagmnath S/o Pyara Cast Kirad R/o Devri
			281	0.04	Barai Aval	Private	Maharaj Singh, Sumrath S/o Lal Ramkali D/o Lal Nathiya Bewa Ghabhu 2/3 Amer Singh S/o Maga Dhakho Bewa Maga 1/3 Aheer
			76	0.0288	Barai Soyam	Private	Rajandra Singh, Laxman Singh S/o Babu Singh, Munni, Ratan Bai, Mamata Rajkumari D/o Babhu Singh Ganga Bewa Babhu Singh 1/6 Annar Singh, Puran Singh S/o Bhawarlal, Shanti, Kakli, Kanno D/o Bhawarlal Aheer 5/6
			77	0.0096	Barai Soyam	Private	Rajandra Singh, Laxman Singh S/o Babu Singh, Munni, Ratan Bai, Mamata Rajkumari D/o Babhu Singh Ganga Bewa Babhu Singh 1/6 Annar Singh, Puran Singh S/o Bhawarlal, Shanti, Kakli, Kanno D/o Bhawarlal Aheer 5/7
			221	0.16	Barai Soyam	Private	Rajandra Singh, Laxman Singh S/o Babu Singh, Munni, Ratan Bai, Mamata Rajkumari D/o Babhu Singh Ganga Bewa Babhu Singh 1/6 Annar Singh, Puran Singh S/o Bhawarlal, Shanti, Kakli, Kanno D/o Bhawarlal Aheer 5/7
			352	0.16	Barai Soyam	Private	Ratanlal S/o Hiralal 1/2 Khyali Chand Ramswaroop Rampat S/o Nathwa Sarwadhi Bewa Nathwa 1/2 Chiwa R/o Devri
			331	0.0192	Barai Soyam	Private	Vimlash W/o Prampal Singh Rajputh R/o Manjara

1	2	3	4	5	6	7	8
			284	0.04	Barani Aval	Private	Shanker S/o Punna Khaliya Bewa Punna Anandhi, Shababo Ram Kali D/o Punna 5/6 Raghuveer Maniram Gajra S/o Bhagwanlal Guddhi Kasumal D/o Bhagwanwal 1/6 Kahar
			217	0.2656	Barani Soyam	Private	Shanker S/o Punna Cast Chamar
			283	0.01	Baran Aval	Private	Surth Singh S/o Prabhu Khasar S/o Gopi Ahir
			336	0.19	Barani Soyam	Private	Sawaroopi D/o Goliya 1/4 Tularam S/o Bhabhuta 1/2 Khar
			337	0.208	Barani Soyam	Private	Sawaroopi D/o Goliya 1/4 Tularam S/o Bhabhuta 1/2 Khar
			354	0.12	Barani Soyam	Private	Sawliya S/o Ratanlal 1/2 Kallu Suwalal S/o Jaggnath 1/2 Kirad
			164	0.22	Barani Soyam	Private	Hajju S/o Ganpath 1/2 Sardhar Gulabh Karan Gurudev S/o Kusum Gita D/o Mana 1/2 Ahir
			282	0.0176	Barani Aval		Gram Panchyat
			163	0.03	Charagah		Gram Panchyat
			165	0.12	Charagah		Gram Panchyat
			205	0.31	Charagah		Gram Panchyat
			212	0.52	Charagah		Gram Panchyat
			216	0.23	Charagah		Gram Panchyat
			219	0.45	Charagah		Gram Panchyat
			214	0.216	Charagah		Gram Panchyat
			286	0.0688	Khanti		PWD
			333	0.008	Khanti		PWD
			1	0.05	Gari mu. Nadi		Siwai Chak
			210	0.21	Gari mu. Nadi		Siwai Chak
			215	0.0192	Rasta		Siwai Chak
			229	0.0016	Gari mu. Bhodha		Siwai Chak
			230	0.016	Barani II	Private	Siwai Chak
		(15) Devri	425	0.0096	Barani II	Private	Haripuri S/o Kallu Nabbo Rekha D/o Mano Bewa Najwan D/o Banshipuri S/o Laxmipuri Babu Ramesh Ramgir S/o Gokulgir Cast Gusai R/o Davari

1	2	3	4	5	6	7	8
			429	0.285	Mall	Private	Savalia S/o Ratanlal 1/2 Kalluram Suvalal S/o Jagnath Ramkali D/o Jagnath 1/2 Cast Kirad R/o Davari
			430	0.297	Mall	Private	Babriya S/o Ramprasad Cast Brahmin
			434	0.324	Mall	Private	Manshu S/o Madho Nathu S/o Kamlu Cast Kirad R/o Devri
			435	0.1536	Mall	Private	Chotelal S/o Devlal Cast Sunar R/o Devri
			439	0.16	Mall	Private	Nabbo D/o Unakar Cast Kirad R/o Devri R/o S.B.B.J. Shabad
			450	0.0064	Mall	Private	Shanker Mohan Govindi S/o Chatra Cast Kirad R/o Devri
			451	0.008	Mall	Private	Naran Prahaladi S/o Arjun Ramchran S/o Mangilal Chinjo D/o Devlal Cast Kirad R/o Devri
			454	0.08	Mall	Private	Shanker S/o Payre Cast Kirad R/o Davri
			455	0.103	Mall	Private	Kahanyalal S/o Laxmanlal Cast Cast Gusai R/o Devri
			456	0.136	Mall	Private	Jeeveram Gaghuv eer S/o Unkar Cast Kirad R/o Davri Bhoomi Vikash Bank Bhanwargah
			471	0.1536	Mall	Private	Shanker Payre Cast Kirad Devri
			472	0.203	Mall	Private	Lampi S/o Davlal 1/2 Naran S/o Lampi 1/2 Cast Kirad
			473	0.238	Mall	Private	Lampi S/o Davlal 1/2 Naran S/o Lampi 1/2 Cast Kirad
			496	0.182	Mall	Private	Babu Shubhan S/o Gaffur Khan Munni Guddi Hassena Shakeel D/o Gaffur Khan Kaliya Bewa Gaffur Khan 1/2 Nur Khan S/o Ramjan Khan Cast Muslim R/o Devri
			482	0.072	Mall	Private	Godharam madanlal Bhangwanlal S/o Bheru Cast Chipa

1	2	3	4	5	6	7	8
			494	0.061	Mall	Private	Babu Shubhan S/o Gaffur Khan Munni Guddi Hassena Shakeel D/o Gaffur Khan Kaliya Bewa Gaffur Khan 1/2 Nur Khan S/o Ramjan Khan Cast Muslim R/o Devri
			486	0.0704	Mall	Private	Madan Singh S/o Mangilal Cast Khangar R/o Devri
			487	0.144	Mall	Private	Budha Harbilash Toransingh Kallo 1/2 Rakho D/o Kalla 1/2 Lallo Bewa Kalla 1/4 Khemsingh S/o Ramjilal Guddi Bewa Ramjilal 1/3 Cast Khangar R/o Bhoomi Vikash Bank Bhanwargah
			574	0.062	Gair Mu. Rastha	Siwai Chak	Government Land
			576	0.2512	Mall	Private	Manda Jagannath Ramesh S/o Bhero Cast Khangar R/o Devri
			577	0.1408	Barani I	Private	Rente S/o Gunchi Cast Khangar R/o Devri
			581	0.393	Mall	Private	Gurupreet Singh (N.B) S/o Manjeet Kaur Bewa Sardool Singh Cast Chamar R/o Shivpuri (M.P)
			582	0.106	Mall I	Private	Gurupreet Singh (N.B) S/o Manjeet Kaur Bewa Sardool Singh Cast Chamar R/o Shivpuri (M.P)
			613	0.5088	Barani 4	Private	Shoraf Khan S/o Muneer Khan Cast Muslim R/o Davri R/o S.B.B.J. Samraniya
			614	0.1488	Barani I	Private	Balkishan Ramjilal Banti S/o Mathribewa Badri & Ramesh Chinga S/o Naran Chote S/o Muliya Cast Chipa R/o Davri Chinga R/o Bhoomi Bikash Bank Bhanwargah
			615	0.024	Gair Mu. Chagh.	Siwai Chak	Siwai Chak
			616	0.016	Barani I	Private	Balkishan Ramjilal Banti S/o Mathribewa Badri & Ramesh Chinga S/o Naran Chote S/o Muliya Cast Chipa R/o Davri Chinga R/o Bhoomi Bikash Bank Bhanwargah

1	2	3	4	5	6	7	8
			617	0.092	Barani 4	Private	Dollat Singh S/o Ramsingh Jati Khangar R/o Davri
			617/1	0.092	Barani 4	Private	Maharaj Singh S/o Phoolaram Cast Kanchi R/o Devri
			618	0.076	Barani 4	Private	Sitaram Hawa Ram Vijaykumar S/o Thakurlal Cast Kirad R/o Bhero Cast Chipa R/o Panchantori
			622	0.0384	Barani 4	Private	Govind Prasad Bhagwan Lal Madanlal S/o Bhero Shree D/o Bhero Cast Chipa R/o Devri
			625	0.112	Barani II	Private	Godhram Madanlal Bhangwanlal S/o Bheru Cast Chipa
			626	0.016	Barani II	Private	Laxman Prashad Ghanshyam Jagdish S/o & Naboo Sarda D/o Bhagwan Lal Cast Brahmin R/o Devri
			629	0.032	Nahri	Private	Halke S/o Munshi Cast Khangar Davri R/o Bhoomi Vikash Bank Bhanwargah
			635	0.026	Barani 4	Private	Bhagwati Prasad hariom Mukesh S/o Chittarimal Cast Mahajan R/o Devri R/o R/o S.B.B.J. Shabad
			632	0.0336	Nahari Barani	Private	Shafiudeen S/o Immamudeen Jati Muslim R/o Davri
			636	0.043	Barani 4	Private	Gopichand S/o Ramesh Chand Cast Mahajan R/o Gwaliyar (M.P)
		(16) Bhoial	455/1078	0.1008	Barani II	Private	Jagdish Purshotom Mukesh Brijmohan S/o Kanta D/o Kasturi Bewa Bhajanlal Cast Kirad R/o Panchantori
			455	0.1456	Barani II	Private	Kundan S/o Dhanna Gusai R/o Devri
			453	0.1024	Barani II	Private	Kheru S/o Punda Gusai R/o Pancan Tori
			448	0.0656	Barani II	Private	Sitaram Dasharam Vijay Kumar S/o Thakurlal Cast Kirad Panchaanatori
			448/1088	0.0096	Barani 4	Private	Thakurlal S/o Badri Cast Kirad R/o Panchan Tori
			459/1090	0.0384	Charagah		Gram Panchyat
			450	0.152	Rastha Gair Mu.		PWD
			452	0.144	Rastha Gair Mu.		PWD

1	2	3	4	5	6	7	8
			458	0.24	Rastha Gair Mu.	Private	PWD
		(17) Pajan Tori	36	0.192	Barani III	Private	Prem Ramwati Vijay Priti D/o Peritram Joano Bewa Preetam 1/2 Jankilal Gayrashilal S/o Rukuni 2/3 Cast Nai etc.
			118/325	0.224	Barani 4	Private	Kanchan Lal S/o Gobandi Cast Kirad
			24	0.1632	Nahri	Private	Ramkali Bewa Gabbu Jati Chamer
			42	0.16	Barani 4		Devilal S/o Shukha Cast Balai
			35	0.192	Banzed		Siwai Chak
			31	0.144	Barani 4		Siwai Chak
			33	0.1728	Gair Mu. Sadak		PWD
			22	0.024	Barani ChAgriculture	Private	Nawala S/o Muliya Jati Balai
			47	0.16	Abadi	Abadi	Maharaj Singh Sarwam, Champalal, Kalyan Prashad, Pachu Lal
			114	0.2144	Charagah		Nawala S/o Muliya Cast Balai
			115	0.184	Charagah		Gram Panchayat
			21	0.064	Charagah	Abadi	Gram Panchayat (Hari S/o Beldev)
		(18) Faridua Jagir	20	0.064	N.K		Siwai Chak
			21	0.1104	Gair Mu. Sadak		PWD
			22	0.12	Barani II	Private	Ramvati D/o Preetam 1/2 Janki Gayrashi etc.
			41	0.1296	Barani I	Private	Kappori Devi Mayuri Bai D/o Surendra Singh 1/2 Bhanwarbai D/o Chatar Singh etc.
			148	0.144	Nala		Siwai Chak
			263	0.16	Chahi Jaav	Private	Ram Singh S/o Kishan Singh Cast Rajput
			269	0.0864	Banzed II		Siwai Chak
			161	0.096	Kheda I	Private	Bhanwar Singh S/o Bhanwarbai D/o Raghunath Singh 1/2 Anand Kanwar Bewa Sardar Singh 1/5
			257	0.0128	Chahi I	Private	Bhanwar Singh S/o Bhanwarbai D/o Raghunath Singh 1/2 Anand Kanwar Bewa Sardar Singh 1/3

1	2	3	4	5	6	7	8
			253	0.168	Chahi II	Private	Bhanwar Singh S/o Bhanwarbai D/o Raghunath Singh 1/2 Anand Kanwar Bewa Sardar Singh 1/4
			265	0.072	Barani I	Private	Sajjan Bai Bewa Bhanwar Singh Cast Rajput
			162	0.128	Kheda-I	Private	Iswar Singh S/o Kesar Singh Cast Rajput
			169	0.0176	Kheda-II	Private	Ram Charan, Kali Ram S/o Meera D/o Dhuli, Ram Kishan, Ram dev S/o Sonar W/o Etc.
			265	0.072	Barani-I	Private	Sajan Bai W/o Bhawar Singh Cast Rajput
			135	0.2496	Forest		Forest Deptt.
			101	0.1504	Forest		Forest Deptt.
			105	0.8	Forest		Forest Deptt.
			104	0.352	Forest		Forest Deptt.
			310	0.144	Forest		Forest Deptt.
			314	0.176	Forest		Forest Deptt.
			103	1.328	Forest		Forest Deptt.
			132	0.448	Forest		Forest Deptt.
			136	0.896	Forest		Forest Deptt.
			98	0.0448	Forest		Forest Deptt.
			100	0.192	Forest		Forest Deptt.
			87	0.16	Forest		Forest Deptt.
			312	0.32	Forest		Forest Deptt.
			133	0.6912	Forest		Forest Deptt.
			7	0.032	Banzed II		Forest Deptt.
			5	0.016	Banzed II		Forest Deptt.
			192	0.0032	Banzed II		Forest Deptt.
			189	0.0832	Abadi		Forest Deptt.
			163	0.024	Rastha		Forest Deptt.
			146	0.0064	Nala		Forest Deptt.
			196	0.024	Banzed		Forest Deptt.
			258	0.0448	Banzed		Forest Deptt.
			259	0.1248	Banzed		Forest Deptt.
			270	0.144	Nala		Forest Deptt.
			126	0.416	Banzed II		Forest Deptt.
			128	0.48	Pathar		Forest Deptt.
			131	0.3264	Barani 4		Bhikha Ram S/o Bansilal Cast Aheer
			107	0.1456	Barani 4	Private	Ramjilal Kalesh S/o Puniaya Bewa Angad Cast Sahariya
			10	0.1792	Barani 4	Private	Halku S/o Nawala Cast Balai R/o Pajatori
			6	0.1152	Barani 4	Private	Prakash Dollatram Kalicharan S/o Kheru kirad R/o Bajatori

1	2	3	4	5	6	7	8
			44	0.288	Barani 4	Private	Prakash Dollatram Kalicharan S/o Kheru kirad R/o Bajatori
			160	0.008	Kheda I	Private	Ummed Singh S/o Devi Singh Cast Rajput
			191	0.032	Kheda II	Private	Ummed Singh S/o Devi Singh Cast Rajput
			40	0.448	Barani I	Private	Ummed Singh S/o Devi Singh Cast Rajput
			190	0.032	Kheda	Private	Nakdu S/o Payra 1/2 Sugar Singh S/o Darghan 1/2 Cast Aheer
			159	0.0003	Barani 4	Private	Litru Mangilal S/o Harchanda Cast Chamar R/o Pajantori
			23	0.192	Barani II	Private	Babulal S/o Bherulal Cast Brahamin
			24	0.16	Barani II	Private	Babulal S/o Bherulal Cast Brahamin
			35	0.0064	Barani	Private	Kalyan Singh Laxman Singh S/o Ranjeet Singh Mohan Bai Sohan Bai D/o Ranjeet Singh Rajput
			36	0.0128	Barani II	Private	Ram Kishan Ramdev S/o Gulaba Jenoo Bewa Ramcharan Kalicharan S/o Meera D/o Chooti 1/2 Doliya
			42	0.032	Chahi II Jaav II	Private	Nakdu S/o Payra 1/2 Sugar Singh S/o Darghan 1/2 Cast Aheer
			198	0.1664	Chahi Jaav	Private	Banshi S/o Mandori Cast Aheer
			264	0.144	Barani 4	Government	Siwaichak
			129	0.32	Barani 4	Private	Ramjilal S/o Manfool Jati Sahariya
			124	0.32	Gair Mu. Pathar	Government	Mangilal S/o Gobandi Jati Kirad R/o Pajantori
		(19) Chailla	26	0.3408	Gair Mu. Pathar	Forest	Forest Department Rajasthan
			28	0.1728	Gair Mu.Forest	Forest	Forest Department Rajasthan
			29	0.104	Gair Mu.Forest	Forest	Forest Department Rajasthan
			31	0.1944	Gair Mu.Forest	Forest	Forest Department Rajasthan

1	2	3	4	5	6	7	8
			41	0.652	Gair Mu.Forest	Forest	Forest Department Rajasthan
			42	0.5024	Gair Mu.Forest	Forest	Forest Department Rajasthan
			49	0.384	Gair Mu.Forest	Forest	Forest Department Rajasthan
			50	0.699	Gair Mu.Forest	Forest	Forest Department Rajasthan
			55	0.028	Gair Mu.Forest	Forest	Forest Department Rajasthan
			56	0.488	Gair Mu.Forest	Forest	Forest Department Rajasthan
			60	0.16	Gair Mu.Forest	Forest	Forest Department Rajasthan
			62	0.2912	Gair Mu.Forest	Forest	Forest Department Rajasthan
			64	0.0208	Gair Mu.Forest	Forest	Forest Department Rajasthan
			66	0.1344	Gair Mu.Forest	Forest	Forest Department Rajasthan
			67	0.2208	Gair Mu.Forest	Forest	Forest Department Rajasthan
			88	0.0272	Gair Mu.Forest	Forest	Forest Department Rajasthan
			90	0.1696	Gair Mu.Forest	Forest	Forest Department Rajasthan
			92	0.704	Gair Mu.Forest	Forest	Forest Department Rajasthan
		(20) Kasba Thana	17	0.0288	Charahgah	Charahgah	Charagah Gram Panchyat
			55	0.108	Charahgah	Charahgah	Charagah Gram Panchyat
			57	0.0064	Nala	Government	Sivai Chak
			69	0.08	Nala	Government	Sivai Chak

1	2	3	4	5	6	7	8
			70	0.1152	Barani 4	Private	Jugalkishore S/o Nirja Richa Shelja D/o Munnibai Bewa Chandermohan Brahamin
			72	0.022	Charahgah	Charahgah	Charagah Gram Panchyat
			73	0.0032	Gair Mu. Rastha	Government	Sivai Chak
			74	0.016	Charahgah	Charahgah	Charagah Gram Panchyat
			93	0.1456	Barani 3	Private	Ramcharan Murari S/o Kishori Dhakaran Soni D/o Kishori Jati Telie
			94	0.016	Barani 2	Private	Raju Laxman Deepak S/o Parashdi Jati Telie
			98	0.0224	Barani 2	Private	Narendra singh S/o Kishansingh Jati Rajput
			99	0.011	Barani 3	Private	Narendra singh S/o Kishansingh Jati Rajput 1/2 Mohan Govindi S/o Jagni 1/2 Jati Ahaeer
			102	0.4	Chahi 1	Private	Narendra singh S/o Kishansingh Jati Rajput 1/2 Mohan Govindi S/o Jagni 1/2 Jati Ahaeer
			103	0.71	Barani 3	Private	Narendra singh S/o Kishansingh Jati Rajput
			185	0.143	Charahgah	Charahgah	Charagah Gram Panchyat
			186	0.57	Charahgah	Charahgah	Charagah Gram Panchyat
			188	0.2176	Charahgah	Charahgah	Charagah Gram Panchyat
			189	0.0048	Gair Mu. Bahed	Government	Sivai Chak
			190	0.184	Gair Mu. Bahed	Forest	Forest Department Rajasthan
			196	0.0032	Gair Mu. Bahed	Forest	Forest Department Rajasthan
			197	0.072	Gair Mu. Bahed	Forest	Forest Department Rajasthan
			199	0.0544	Gair Mu. Bahed	Forest	Forest Department Rajasthan
			201	0.284	Gair Mu. Bahed	Forest	Forest Department Rajasthan
			202	0.499	Gair Mu. Bahed	Forest	Forest Department Rajasthan
			210	0.269	Charahgah	Charahgah	Charagah Gram Panchyat
			41	0.0485	Gair Mu.	Government	Siwai Chak

1	2	3	4	5	6	7	8
			60	0.0485	Gair Mu.	Government	Siwai Chak
			62	0.0162	Barani 4	Private	Raju Laxman Deepak S/o Shakun Kunti Guddi Dropti D/o Prashadi Jati Telie R/o Kasbathana
			64	0.012	Barani 4	Private	Lalaram S/o Devlal Dharmi Shobha Mabuti D/o Devlal 5/18 Phoolwati Bewa Kaliecharan 4/18 Bhabita (lal S/o Madho 2/3) chamer 2/3
			66	0.0002	Gair MU.	Government	Sivai Chak
			67	0.0048	Bada	Private	Omprakash S/o Ramprashad Jaati Luhar R/o Kasbathana
			99	0.024	Barani II	Private	Narander Singh S/o Kishan singh Cast Rajput 1/2, Mohan Govind S/o Gyani 1/2 cast Yadav.
			100	0.0672	Barani II	Private	Lalaram S/o Devlal Dharmi Shobha Mabuti D/o Devlal 5/18 Phoolwati Bewa Kaliecharan 4/18 Bhabita (lal S/o Madho 2/3) chamer 2/3
		(22) Khiria	1	0.2032	Forest	Forest	Forest Department Rajasthan
			3	0.1376	Forest	Forest	Forest Department Rajasthan
			4	0.1376	Forest	Forest	Forest Department Rajasthan
			6	0.424	Forest	Forest	Forest Department Rajasthan
			7	0.03	Gair Mu.	Government	Sivai Chak
			11	0.2656	Forest	Forest	Forest Department Rajasthan
			12	0.34	Forest	Forest	Forest Department Rajasthan
			14	0.208	Forest	Forest	Forest Department Rajasthan
			16	0.1088	Forest	Forest	Forest Department Rajasthan

[F. No. NHAI/11014/Tech/EW-II/LA/Kota/2003]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.